

न्यूज डायरी

इडी कार्यालय आर्येगे

कारोबारी अभित अग्रवाल रांची। सेना जमीन घोटाला में इडी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसमें रांची के पूर्व उपायुक्त समेत कई जमीन कारोबारी न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। अब इडी कोलकाता के कारोबारी अभित अग्रवाल से भी पूछताछ करेगी।

दक्षिणी छोटानागपुर के प्रभारी आयुक्त बने मनोज

रांची। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अफसरों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव मनोज जायसवाल को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त के पद पर पदस्थापित किया गया है।

पाकिस्तानी एजेंटों को सात साल की जेल

जयपुर। भारतीय सेना की गोपनीय सूचनाएं पाक हैंडलर को भेजने के आरोप में फरवरी 2017 में पकड़े गये आरोपित सद्दीक खान, बरियाम खान और हाजी खान को जयपुर महानगर प्रथम कोर्ट ने शनिवार को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।

मुंबई दंगा : टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दाखल

नयी दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुल बंगशा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ शनिवार को आरोप पत्र दाखिल किया।



खोना (विक्री) : 57,500 ₹/10 ग्राम
चांदी : 75,000 ₹/पति किलो

शपथ लेते ही सिद्धा सरकार एक्शन में, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी व अन्न भाग्य योजना लागू विपक्ष ने फिर दिया एकजुटता का संदेश

एजेंसी

बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेते ही एक्शन में आये सिद्धारमैया ने पहली कैबिनेट में ही गृह लक्ष्मी और अन्न भाग्य योजना लागू करने का आदेश जारी कर दिया। इससे महिलाओं को लाभ होगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह दूसरी बार राज्य के सीएम बने हैं। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने भी उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दोनों के साथ अलावा पार्टी अध्यक्ष खड्गे के पुत्र प्रियंक खड्गे, वरिष्ठ नेता केएच मुनिस्वामी, केजे जॉर्ज, सतीश जाक्रीहोली, रामालिंगा रेड्डी और बी

खड्गे, राहुल-प्रियंका, नीतीश, हेमंत, बघेल, पवार, स्टालिन, येचुरी दीपांकर, फारूक और मेहबूबा समेत तमाम विपक्षी नेता मंच पर जुटे



जेड जमीर अहमद खान ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल शवरचंद्र महलोलो ने सभी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। बेंगलुरु में गैर भाजपा दलों के तमाम नेताओं ने एक साथ मंच

साझा कर विपक्षी एकता का फिर संदेश दिया। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष खड्गे, राहुल, प्रियंका गांधी, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल के मुख्यमंत्रियों समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने एक मंच साझा किया। गृहलक्ष्मी और अन्न भाग्य योजना को लागू करने का आदेश जारी कर दिया। सीएम ने यह फैसला नयी सरकार की कैबिनेट की पहली मीटिंग के बाद लिया। गृहलक्ष्मी योजना में कर्नाटक में परिवार की हर महिला मुखिया को 2000 रुपए हर महीने दिये जायेंगे। (शेष पेज 11 पर)

कर्नाटक फतह से विपक्षी पार्टियां उत्साहित

कर्नाटक में इस जीत से भाजपा के खिलाफ राजनीति करने वाले सभी दलों में उत्साह है। विपक्षी एकजुटता की कवायद में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी इसे भाजपा के खिलाफ बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार तय है। विपक्षी पार्टियां कांग्रेस की इस जीत को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रही हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि देश को तोड़ने वाली पार्टी की हार हुई है। राजद नेता सह बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा की हार की शुरुआत हो गयी है। जनता उनके झूठे वादों से त्रस्त है। उसी

देश तोड़ने वाली पार्टी को जनता ने बुरी तरह हराया : हेमंत
भाजपा की हार की शुरुआत हो गयी है : तेजस्वी यादव

का नतीजा कर्नाटक में कांग्रेस की जीत है। अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे और जयदू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं। वह इस प्रयास के तहत खड्गे कई विपक्षी नेताओं से बात और मुलाकात कर चुके हैं। आने वाले दिनों में बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष के प्रमुख नेताओं की एक बैठक हो सकती है।

धोनी सेना का कमाल 12वीं बार प्लेऑफ में

एजेंसी

नयी दिल्ली। चार बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपरकिंग्स 12वीं बार आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। अपने आखिरी लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 77 रन के विशाल अंतर से हराते ही धोनी सेना ने यह कमाल कर दिया। 32 हजार दर्शकों से खवाखच भरे अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई ने टॉस जीतकर स्कोरबोर्ड पर तीन विकेट के नुकसान पर 223 रन टांगे। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स

सीएसके का दिल्ली फतह

निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 146 रन ही बना पायी। चेन्नई की इस सीजन 14 मैच में आठवीं जीत थी, इस तरह 17 अंकों के साथ टीम ने 12वीं बार आईपीएल में प्लेऑफ का टिकट पक्का कर लिया। दिल्ली का होमग्राउंड कोटला पर चेन्नई सुपरकिंग्स और उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चाहने वालों से अटा पड़ा था। धोनी की टीम ने एकबार फिर आईपीएल प्लेऑफ में जगह बना ली है।

क्वाड देशों ने की सीमा पार से आतंकवाद की निंदा अगली शिखर बैठक भारत में : मोदी

एजेंसी

नयी दिल्ली। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र (इंडो-पैसिफिक) के सुरक्षा संवाद मंच क्वाड शिखर वार्ता की अगले साल वर्ष 2024 में मेजबानी करेगा। क्वाड देश के नेताओं की जापान के शहर हिरोशिमा में शनिवार को आयोजित शिखर वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में यह घोषणा की गयी। क्वाड देशों ने कहा कि परमाणु हथियारों के प्रयोग अथवा प्रयोग की धमकी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। शिखर वार्ता में सीमा पार



आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की निंदा की गयी। आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। क्वाड देशों ने कहा कि वे आतंकवादी वारदातों

को अंजाम देने वाले लोगों को जवाबदेय ठहराने के लिए काम करेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के पीएम फुमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीस के साथ क्वाड शिखर वार्ता में भाग लिया। उन्होंने कहा कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए प्रयास करने पर केंद्रित है। इसके पहले पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा था कि भारत को वर्ष 2024 में क्वाड शिखर वार्ता का आयोजन करने में खुशी होगी। (शेष पेज 11 पर)

16 करोड़ ठगनेवाला रांची में दबोचा गया

खबरमन्त्रा व्यूटो

रांची/जमशेदपुर। शेयर मार्केट के नाम पर 16 करोड़ से ज्यादा ठगी मामले में मानगो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रियान खान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रियान मानगो थाना अंतर्गत जाकिर नगर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को रांची से पकड़ा है। घटना के बाद से आरोपी रांची में छिपकर रह रहा था।

शेयर मार्केट के नाम पर लोगों का ठगता था
घोटाले को अंजाम देने के बाद रांची में छिपा था जमशेदपुर का रियाज

वाले रेहान नामक युवक पर आरोप है कि वह शेयर मार्केट में पैसा लगाने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठता है। इस युवक ने ठगी करने के लिए ऑफिस तक खोल रखा था और उसने कुछ कर्मचारी भी रखे थे। (शेष पेज 11 पर)

CAMBRIAN PUBLIC SCHOOL

An English Medium Senior Secondary School

Estd. : 1993 "Education is not preparation for life; education is life itself" - John Dewey

Admission Open in Std XI (2023-2024)

Science, Commerce & Humanities

Special Concession for students who have scored 90% and above

TOP STUDENTS GET IN 100 OUT OF 100

SHWETANJALI SHRIVASTAVA
SOCIAL STUDIES

ARNAV SINHA
MATHEMATICS STANDARD

MANYA BARNWAL
SOCIAL STUDIES

SOHA ASHRAF
SOCIAL STUDIES

ADITYA RAJ KHANNA
INFORMATION TECHNOLOGY

CLASS X TOPPERS

98%

97%

97%

95.2%

95%

95%

94%

94%

94%

93.4%

93%

93%

93%

93%

92%

92%

92%

91.2%

Admission form is available in the school between 8.30 am to 2.00 pm

- Modern Infrastructure
- Hybrid Method of Teaching & Learning
- Comprehensive guidance for competitive exam
- 100% Result in Class X & XII Board Exam
- Transport Facility available on all routes

Congratulations to all the students who passed Xth & XIIth examination
Dr. Neeta Pandey (Principal)

Kanke Road, Ranchi-834008 (Jharkhand)
Ph.: 7631000024, e-mail: info@cambrianpublicschool.com

SHARDA GLOBAL SCHOOL

Affiliated to C.B.S.E. (10+2), New Delhi

Bukru, Kanke, Ranchi

Shri Sanjay Sharda
Chairman

Shri Deepak Banka
Director

Shri Anuj Ranjan
Director

Dr. Ranjana Swarup
Director Academics

Mrs. Jasmeet Kaur
Principal

Admission Open for Std. XI Science, Commerce & Humanities

- No Admission Charges for Student who scored 90% and above
- 50% Admission Charges for Student who scored 85-90%
- 35% Rebate on Admission charges for student who scored 80-85%
- 25% Rebate on Admission charges for student who scored 75-80%

Seats Available

Science- 40 | Commerce- 41 | Humanities- 36

First Come, First Serve

"Quality is not an act, it is a habit"

Hostel Facility Available for Boys from Classes 3rd to XII

Why Sharda Global School?

- Our campus is fully secured with CCTV surveillance
- 0% tolerance for indiscipline
- Expertise teachers in all the 3 streams & subjects
- Special Classes for competitive examinations
- Full fledged laboratories - Science, Mathematics, Language, Multimedia, Computer lab
- Modern teaching system & methods according to NEP 2020
- Psychological testing of growth of intelligence & creativity/ supervised study / counselor guidance
- Activities, Excursions & Educational Trips
- Remedial classes & training for sports activities for CBSE tournaments

Congratulations Globalites

Std. XII Toppers (AISSCE)

Ritchie (96.4%)

Roshan Kr. Gupta (94.2%)

Anmol Tibrewal (94%)

Tushar Raj (92.8%)

Priyam Prakash (92%)

Anmol Pranav (90.6%)

Ujala Kumari (88%)

Smriti Singh (88%)

Utkarsh Umang (87.6%)

Pratyaksha Shukla (87.6%)

Vansh Khaitan (85.4%)

Ayush Srivastava (85.25%)

Std. X Toppers (AISSCE)

Rishan Singh (97.8%)

Saksham Raj Singh (96.2%)

Abhinav Anand (94.6%)

Kavya Verma (94.6%)

Somya Verma (94%)

Astha Keshri (94%)

Sneha (93.8%)

Aniket Sharma (93.6%)

Anuj Dehariya (93.4%)

Vijit Kumar (92.8%)

Achint Rai (92.8%)

Nishita Roy Chowdhury (92.6%)

www.shardaglobalschool.com
shardaglobalschool@gmail.com

Contact : 7541820401, 7542983222, 9931039500

राष्ट्रपति के रांची आगमन की तैयारी शुरू, इस्टर्न एयर कमांड के अधिकारी ने देवघर का किया दौरा

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन दिवसीय दौरे पर 24 मई को झारखंड आर्यंगी। वह 24 से 26 मई तक झारखंड में रहेंगी। उनके कार्यक्रम की सूचना मिलने के बाद राज्य सरकार और प्रशासन ने तीन जिलों देवघर, खूंटी और रांची में तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में शनिवार को इस्टर्न एयर कमांड के सीनियर मेंटनेंस स्टाफ देवेन्द्र श्रीवास्तव बाबा मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में अहले सुबह पूजा करने के बाद मंदिर की भौगोलिक स्थिति को देखकर रिपोर्ट तैयार की।



शाम में करेंगी हाई कोर्ट के नये भवन का उद्घाटन

राष्ट्रपति का दोपहर 12:00 बजे रांची पहुंचेंगी। बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और 12:30 बजे अलबर्ट एक्का चौक स्थित अलबर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। राष्ट्रपति दोपहर 1 बजे राजभवन पहुंचेंगी। राजभवन में दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आदिम जनजाति समूह से मिलेंगी। शाम में धुवां स्थित झारखंड हाई कोर्ट के नये भवन का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद रात्रि विश्राम के लिए वे राजभवन लौटेंगी।

24 की सुबह 8.55 बजे देवघर पहुंचेंगी राष्ट्रपति

मालूम हो कि राष्ट्रपति 24 मई को एयरफोर्स के विमान से सुबह 7 बजे नयी दिल्ली से रवाना होंगी और सुबह 8:55 बजे देवघर पहुंचेंगी। वहां 9:20 बजे बाबा बेधनाथ के मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद 10:20 बजे वह देवघर सर्किट हाउस पहुंचेंगी। यहां पर जिला प्रशासन की ओर से उन्हें बाबा मंदिर का स्मृति चिन्ह, प्रसाद आदि भेंट की जायेगी। वे 11 बजे रांची के लिए रवाना होंगी।

25 को जायेंगी खूंटी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को खूंटी जायेंगी। वहां कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद भगवान बिरसा के परिजनों से मिलेंगी। फिर रांची में ट्रिपल आर्टी के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मेधावियों को मेडल और डिग्री देंगी।

खबर एक नजर में

हाईकोर्ट में 10 जून तक गर्मी की छुट्टी

रांची। झारखंड हाईकोर्ट का ग्रीष्मकाश 22 मई से 10 जून तक होगा। इस दौरान डोरंडा स्थित हाईकोर्ट के पुराने भवन में वेकेशन बेंच 8 दिन बैठेगी। हाईकोर्ट की ओर से वेकेशन बेंच के बैठने की तिथि घोषित कर दी गई है। वेकेशन बेंच इस माह 23, 26, 30, 31 मई को बैठेगी। वही जून माह में 2, 6, 7, 9 जून को वेकेशन बेंच बैठेगी।

दुकानें हटाने का किया विरोध, बोकारो जिला दुकानदार संघ ने कोर्ट में दायर की याचिका

रांची। बोकारो जिला दुकानदार संघ ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। बोकारो स्टील सिटी के संपदा न्यायालय द्वारा बोकारो जिले के लगभग 1900 फुटपाथ दुकानदारों को हटाने का आदेश दिया है। जिसके खिलाफ फुटपाथ दुकानदारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि बोकारो में कई वर्षों से फुटपाथ दुकानदार अपनी दुकानें लगा कर जीविका चला रहे हैं लेकिन बिना किसी वैकल्पिक इंतजाम के उन्हें हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। दुकानदारों को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। दुकानदार संघ की ओर से अधिवक्ता जगत कुमार सोनी हाईकोर्ट में पक्ष रखेंगे।

फरार दाहू यादव के पिता पशुपति यादव की बेल पर 26 को होगा फैसला

रांची। रांची इंडी की विशेष कोर्ट में शनिवार को पशुपति यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पीएमएलए कोर्ट के स्पेशल जज प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में पशुपति यादव की याचिका पर सुनवाई हुई। पशुपति यादव की तरफ से हाईकोर्ट के वकील जय शंकर त्रिपाठी, राकेश रजन त्रिपाठी एवं राजेश तिवारी ने दलील दी। इंडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने बहस की। पशुपति यादव दाहू यादव एवं सुनील यादव के पिता हैं। दाहू यादव अवैध खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के केस में आरोपी है और उसे फरार घोषित किया जा चुका है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पशुपति यादव की बेल पर फैसला सुनाने के लिए 26 मई की तारीख मुकर्रर की है।

राज्य के तीन आइएएस अधिकारी बदले

रांची। झारखंड सरकार ने शनिवार को राज्य के तीन आइएएस अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थान किया है। इससे संबंधित आदेश कार्मिक विभाग के अवर सचिव विनोद कुमार ने 20 मई को जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार ऊर्जा विभाग में विशेष सचिव रहे मनोज जायसवाल को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक दक्षिणी छोटानामपुर प्रमंडल का प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है। उन्हें अपने ही वेतनमान में इस पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। वहीं, पदस्थान की प्रतीक्षा में रहे राशि प्रकाश झा को अगले आदेश तक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में अपर सचिव के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। इनके अलावा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में अपर सचिव के पद पर पदस्थापित मनमोहन प्रसाद को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उद्योग विभाग में अपर सचिव के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है।

लालू यादव का पासपोर्ट रीलिज का आदेश

रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के अध्यक्ष लालू यादव ने सीबीआई कोर्ट से पासपोर्ट रीलिज करने की अनुमति मांगी थी। जिस कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके लिए उन्होंने अपने अधिवक्ता अनंत कुमार पिज के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने लालू यादव का पासपोर्ट रीलिज करने का आदेश दे दिया। फिलहाल जमानत पर हैं लालू यादव गौरनलब हो कि लालू यादव चारा घोटाला के अलग-अलग मामलों में दोषी करार दिये गये हैं। उन्हें हाईकोर्ट से बेल मिली है। फिलहाल वह जमानत पर हैं। जमानत की शर्त के मुताबिक, उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा रखना है। लेकिन कोर्ट की अनुमति से ही वह अपना पासपोर्ट ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं।

विधायक आलोक चौरसिया बनाम केएन त्रिपाठी : हाइकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

रांची। डाल्टेनगंज विधायक आलोक चौरसिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। केएन त्रिपाठी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सलमान खुर्रैद ने इस केस के कानूनी पहलू पर बहस की। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में विधायक आलोक चौरसिया की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जेक) एक्ट की धारा 28 के अनुसार जैक कोई कार्यवाई या आदेश पारित करता है तो उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आलोक चौरसिया की ओर से यह भी कहा गया कि जब जैक ने उनके जन्मतिथि में संशोधन कर दिया है और वह अब ठीक हो चुका है तो उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, तो फिर इलेक्शन पिटिशन में कैसे इसे चुनौती दी जा सकती है।

जन अभियान योजना के तहत प्रखंड स्तर पर पंचायती राज पर प्रशिक्षण प्रारंभ

रांची। जन अभियान योजना के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर पंचायती राज पर प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। नौ थीम गरीबी मुक्त, उन्नत आजीविका गांव, महिला और बाल श्रमिकी गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सुशासन वाला गांव सुरक्षित गांव, इत्यादि पर कार्यशाला की जाएगी। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिला के उपनिर्देश आयुक्तों को पत्र लिखा है और प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण के लिए दिशा-निर्देश भी दिए हैं। राज्य के जिन जिलों में ट्रेनिंग दिया जाना है उसकी सूची भी भेजी गयी है। प्रति प्रखंड प्रशिक्षण के लिए 33,100 रुपये दिए जायेंगे। पंचायत सचिव, मुखिया, सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सहित प्रखंड स्तर में मनरेगा व पीएम आवास इत्यादि से जुड़े सारे कर्मियों व अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जायेगी। मालूम हो कि राज्य स्तरीय प्रशिक्षण 16-17 मई को नामकुम में पहले ही हो चुका है। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में पंचायती राज निदेशक ने भाग लिया था और नौ थीम पर काम करने की सलाह अधिकारियों को दी थी।

चिटफंड कंपनी डीजेएन ग्रुप के आरोपी को इंडी कोर्ट ने नहीं दी राहत

रांची। इंडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने 67.37 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले में चिटफंड कंपनी डीजेएन ग्रुप के आरोपी बिपिन कुमार को राहत देने से इनकार किया है। आरोपी को जेल में रहना पड़ेगा। आरोपी ने जमानत की गुहार लगाते हुए दो मई को जमानत अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई पश्चात अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले के आरोपियों के खिलाफ इंडी ने चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इंडी लालपुर कांड संख्या 220/2016 को टेक ओवर करते हुए जांच प्रारंभ किया था। आरोप है कि डीजेएन के सभी आरोपियों ने एक साजिश के तहत मिल-जुलकर डीजेएन कर्मोडिटीज (ऑफलाइन) नाम से निवेशकों से रुपये को ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर जमा करवाया। यह झांसा दिया कि प्रति माह उच्च ब्याज देंगे। इसके बाद निवेशकों के पैसे को लेकर वे फरार हो गए।

कई नेता-कार्यकर्ता ड्रामामो में शामिल



खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। रांची के हरमू स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में शनिवार को पार्टी के नीति-सिद्धान्तों पर आस्था पर विश्वास व्यक्त करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पाण्डेय के समक्ष सिमडेगा जिला के कई नेता अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए।

सुनील सुरीन, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, पंचायत बंगरू सिमडेगा सह प्रवक्ता, झारखण्ड पार्टी (एनसे गुट), रैमन

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

बा, पूर्व प्रमुख, पाकरटांड सह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आसनबेड़ा सह कांग्रेस जिला महासचिव, सिमडेगा सह अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो उपाध्यक्ष, तारामणि सोरेंग, सिमडेगा जिला सचिव, कांग्रेस, सह प्रमुख बांसजोर प्रखण्ड, रोशनी कुल्लू, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान मुखिया तरगा पंचायत, बांसजोर, जिला सिमडेगा, ज्योति डांग, पूर्व प्रखण्ड अध्यक्ष, कांग्रेस, टेठईटांग, जिला सिमडेगा, बाबू लाल बड़ाईक, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी सदस्य, जिला सिमडेगा शामिल है।

कनार्टक में सिद्धारमैया की सरकार ने ली शपथ, हेमंत सोरेन, आलमगीर आलम व राजेश ठाकुर रहे मौजूद

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद शनिवार को कट्टेरवा स्टेडियम, बेंगलुरु में राज्यपाल शवरचंद्र गहलोत ने सिद्धारमैया को सीएम पद और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलायी। साथ ही 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी



के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार एवम सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं एवं

बधाई दी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने के बाद पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को जनता का समर्थन मिल रहा था उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब भाजपा की सरकार आखिरी सांस ले रही

है। अब समय आ गया है कि सभी विपक्षी पार्टियां साथ मिलकर मजबूती के साथ केंद्र सरकार एवं बीजेपी शासित राज्य की सरकारों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंदी के साथ उठाएं। देश की जनता भाजपा की सरकार से परेशान है जनता परिवर्तन चाहती है।

विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने सिद्धारमैया एवं डीके शिवकुमार और मंत्री मंडल के सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता भाजपा के नेताओं के झारों में आने वाली नहीं है।

राज्य सरकार ने दिया विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश

एक ही मामले में फंसे प्रतापपुर प्रखंड में पदस्थापित पांच बीडीओ, होगी कार्रवाई

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। राज्य सरकार ने चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में पदस्थापित रहे पांच प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) पर एक ही मामले में कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इनमें तत्कालीन बीडीओ प्रतापपुर मनोज कुमार गुप्ता, बीडीओ बन्धन लांग, केवल कृष्ण अग्रवाल, मो. जहुर आलम और दिनेश कुमार गुप्ता शामिल हैं। सभी अधिकारियों पर आरोप लगा था कि वह अपने पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त पंचायत सेवक श्यामल कुमार आयकत को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वृद्धा पेंशन वितरण के लिए दी गयी अग्रिम एवं असामयोजित राशि 10,74,200 रुपये के समायोजन

सेवानिवृत्त पंचायत सेवक श्यामल कुमार आयकत को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वृद्धा पेंशन वितरण के लिए दी गयी अग्रिम एवं असामयोजित राशि 10,74,200 रुपये के समायोजन और वापसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं करने का है आरोप...

और वापसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में 18 जनवरी 2019 को ही संबंधित जिले के डीसी ने प्रपत्र-क गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की थी। रिटायर पंचायत सेवक को राशि देने को ग्रामीण विकास विभाग सह पंचायती राज विभाग ने गंभीरता से लिया था और पूरे मामले की जांच करायी। प्रथम दृष्टया जांच में आरोप प्रमाणित पाये गये। इसके बाद कार्मिक विभाग को कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी। कार्मिक विभाग ने पूरे मामले उच्चस्तरीय जांच कर विभागीय

कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया है। जांच संचालन पदाधिकारी रिटायर आइएएस अरविंद कुमार को बनाया गया है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के उक्त अधिकारी से 15 दिनों में जवाब भी मांगा गया है। पूरी जांच के बाद ही विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा ने आदेश जारी कर दिया है। बताते चलें कि प्रतापपुर के तत्कालीन बीडीओ रहे केके अग्रवाल फिलवक्त रांची समाहरणालय में एनडीसी के पद पर कार्यरत हैं।

मेडिकल किट आपूर्ति के मामले में फंसे हुसैनाबाद के तत्कालीन बीडीओ शेखर

अधिकारी ने बांटे 1300 मेडिकल किट और भुगतान कराया 3221 किट का

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। पलामू के हुसैनाबाद प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ शेखर कुमार पर दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने के दंड को बरकरार रखा गया है। कार्मिक विभाग ने शेखर कुमार के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। जांच संचालन पदाधिकारी की जांच में यह बात सामने आयी थी कि मेडिकल किट

की आपूर्ति में गड़बड़ी की गयी थी और गलत तरीके से राशि का भुगतान आरोपी पदाधिकारी ने किया था। पूरे मामले में वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपने स्तर पर जांच की थी। यह पाया था कि सप्लायर ललन कुमार राम से 1611 व सचिन आनंद से 1610 मेडिकल किट की आपूर्ति दिखायी गयी। इसके एवज में 8 लाख से अधिक रुपये का भुगतान किया गया। जांच में पता चला कि 1300 मेडिकल किट की आपूर्ति हुई, जिसका मूल्य 2 लाख 80 हजार होगा। ऐसे में आपूर्ति और भुगतान के मिलन में भारी गड़बड़ी पाई गई।

पलामू के पांकी के आसेहार में बनेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

2 करोड़ 4

अधिकांश जिलों में लू की तपिश, कहीं-कहीं बारिश भी, पर राहत नहीं

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। राज्य के अधिकांश जिलों में अभी लू चल रहा है। सुबह के 10 बजे से शाम के पांच बजे तक गर्म हवा की तपिश महसूस हो रही है। अभी यह स्थिति अगले 3 से 4 दिनों तक बने रहने की संभावना है। हालांकि इस बीच कहीं-कहीं भी बारिश हो रही है, लेकिन गर्मी से

राहत नहीं है। राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। मौसम केंद्र रांची ने राज्यभर में लू का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां के लोगों को 23 मई तक लू को लेकर सावधान किया है।



एक सप्ताह तक राहत के आसार नहीं : मौसम विभाग के अनुसार एक सप्ताह तक गर्मी से राहत के आसार कम हैं। 26 मई से तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस गिरावट व बारिश के आसार हैं। 21 मई से 23 मई तक अधिकतम तापमान 43-44 डिग्री से. तक पहुंचने की संभावना है। 24 व 26 मई को बिजली गरज के साथ बारिश के 40 प्रतिशत आसार हैं।

27 मई तक संभावित तापमान

दिनांक	अधिकतम	न्यूनतम
21 मई	43 डिग्री	26 डिग्री
22 मई	43 डिग्री	26 डिग्री
23 मई	43 डिग्री	27 डिग्री
24 मई	41 डिग्री	26 डिग्री
25 मई	41 डिग्री	26 डिग्री
26 मई	39 डिग्री	25 डिग्री
27 मई	38 डिग्री	26 डिग्री



कई जिलों में चलेगी लू और गर्जन के साथ बारिश भी

राज्य में 23 मई तक कहीं-कहीं गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। वज्रपात भी हो सकता है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। अभी राज्य में गर्मी बढ़ी हुई है। कई जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर

है। 21 मई को पलामू में लू चल सकती है। 22 को पलामू के साथ-साथ उत्तरी प्रमंडल (हजारीबाग, कोरडमा, गिरिडीह) और 23 मई को इन इलाकों के साथ कोल्हान में भी लू चल सकती है। दोपहर के बाद कहीं-कहीं तेज हवा चल सकती है।

भीषण गर्मी और ये बिजली कटौती... टपक रहा पसीना

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। बढ़ती गर्मी के साथ जारी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। राजधानी समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। जहां गर्मी में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है वहीं, बिजली की कमी से रोजमर्रा के कार्यों में असर पड़ रहा है। दफ्तर से लेकर मॉल और दुकानदार तक जनरेटर चला चलाकर पस्त हो गये हैं। बिजली लोड शेडिंग का आलम यह है कि कुछ इलाकों में एक एक घंटे के अंतराल में बिजली दी जा रही है। वहीं, कुछ इलाकों में एक बार में ही चार पांच घंटे बिजली काटी जा रही है। बिजली की इस आंख मिचौनी से लोगों का पसीना टपक रहा है। कुछ इलाकों में सुबह या शाम के वक्त कटौती की जा रही है।



समय समय पर जारी किया गया है निर्देश

गर्मी शुरू होने के पहले से ही राज्य में बिजली कटौती को लेकर उर्जा सचिव ने निर्देश जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि अनावश्यक बिजली की कटौती किसी भी क्षेत्र में न की जायें। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बराबर बिजली आपूर्ति की जायें। जिससे लोगों को परेशानी न हो। लेकिन हाल के दिनों में बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली की मांग में भी वृद्धि हो गयी। जिससे बिजली आपूर्ति में समस्या हो गयी है।

ग्रामीण इलाकों में दस घंटे तक लोड शेडिंग

ग्रामीण इलाकों में लोगों को अधिक परेशानी हो रही है। इन इलाकों में नौ से दस घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। वहीं तुपुदाना, हटिया, धुर्वा, अरगोड़ा, रातु रोड, किशोरगंज, हरमु, पिस्का मोड़, पंडरा, कांके, बरियातु, मोरहाबादी, कोकर, कांटा टोली, लोआडीह, चडरी में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं।

जून से शुरू होगा नामकुम पावर ग्रिड से फुल लोड बिजली ट्रांसमिशन

बिजली संकट से निपटने के लिए नामकुम पावर ग्रिड में 500 एमवीए का पावर ट्रांसफॉर्मर लगाया जा रहा है। एक दो दिन में काम पूरा होने पर इसे शुरू किया जायेगा। जिससे राजधानी को फुल लोड बिजली मिलेगी।

कल्लू यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। जमीन कारोबारी अनिल कुमार उर्फ कल्लू यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुनील यादव ने आज शनिवार को कोर्ट सरेंडर कर दिया। सुनील यादव ने नाटकीय ढंग से कोर्ट में सरेंडर किया। गौरतलब है कि बीते तीन मार्च को टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के आरा गेट के पास स्थित एक हाईवेयर की दुकान में कल्लू यादव बैठे हुए थे। उसी दौरान शूटर अभिषेक उसके पास गया और कल्लू यादव पर गोली चला दी। घायल कल्लू यादव को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी।

कल्लू यादव की हत्या के लिए मिले थे 3 लाख रुपये : पुलिस के मुताबिक, जमीन विवाद में कल्लू यादव की हत्या करवायी गयी थी। उसकी हत्या के लिए सुपारी के तौर पर एक मोटी रकम का भुगतान किया गया था। कल्लू यादव की हत्या बिहार स्थित फुलवारी शरीफ के रहने वाले अपराधी अभिषेक कुमार पासवान उर्फ छोटू ने की थी। छोटू को इसके लिए तीन लाख रुपये मिले थे। टेकिनकल सेल की मदद से शूटर अभिषेक को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। जमीन विवाद की वजह से सुनील यादव ने कल्लू यादव की हत्या की साजिश रची थी।

कृषि मंत्री के नेतृत्व में अधिकारियों का दल केरल भ्रमण पर पशु चिकित्सक केरल में लेंगे प्रशिक्षण : बादल

खबर मन्त्र व्यूटे

रांची। झारखंड के पशु- चिकित्सक अब केरल जाकर प्रशिक्षण लेंगे। कृषि मंत्री बादल पत्तेलेख ने उक्त बातें केरल दौरे पर कही। वे अधिकारियों के साथ खेती की नई तकनीक सीख रहे हैं। भ्रमण के दौरान शनिवार को कृषि मंत्री बादल एवं पदाधिकारी केरल के मन्थूथी स्थित कॉलेज ऑफ़ वेटनरी एंड एनिमल साइंस गए। जहां उन्होंने वेटनरी हॉस्पिटल के अंतर्गत पशुओं की चिकित्सा संबंधित ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस केंद्र, ऑपरेशन थियेटर और बायोकेमिकल लेबोरेटरीज, गोट फार्म केंद्रों का भ्रमण किया। महाविद्यालय में संचालित पशु प्रखेत्रों के भ्रमण के दौरान टीम ने यहां गावों की फ्रीशवल, बछीर की नस्ल का संवर्द्धन के साथ-साथ उनसे मॉडर्न तरीकों से दूध निकालने की प्रक्रिया को समझा।



बकरियों की नस्ल मालबारी, जमुनापारी का कैसे संरक्षण किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी ली। मौके पर कृषि सचिव अबू बकर सिद्दिकी ने कहा कि केरल के पशु कल्याण और चिकित्सा पद्धति उत्कृष्ट हैं। हमारा प्रयास है कि

यह की पशु चिकित्सा पद्धति अक्षरशः झारखंड में लागू हो। भ्रमण के दौरान मुख्य रूप से कृषि निदेशक चंदन कुमार, गव्य विकास निदेशक डॉ. मनोज कुमार तिवारी, मत्स्य पदाधिकारी प्रदीप कुमार मौजूद थे।

रांची से 530 हज यात्री जायेंगे मक्का-मदीना : हफीजुल हसन

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। झारखंड के पर्यटन, खेल-कूद, कला-संस्कृति व युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन और हज समिति झारखंड के अध्यक्ष डॉ इरफान अंसारी ने शनिवार को कडरू स्थित हज हाउस में हज यात्रियों की परेशानी को लेकर बैठक की। मंत्री ने कहा कि रांची से 530 हज यात्री मदीना जाएंगे। हज यात्रियों से टिकट कर्फम करने के लिए आवेदन मांगा जाएगा। इन लोगों से सोशल मीडिया, अखबार और फोन के माध्यम से संपर्क किया जाएगा।



इरफान अंसारी ने कहा कि हज पर जाने के लिए 6 महीने से तैयारी की जाती है। झारखंड से 2800 हज यात्री मदीना जाएंगे। उनके लिए बेहतर सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। लगभग 900 हज यात्री

1-2 जून को कोलकाता से विमान से मदीना के लिए रवाना होंगे। मौके पर झारखंड हज समिति के सदस्य मौलाना तहजीबुल हसन, मौलाना मनीर, मो इकबाल समेत दर्जनों हज कमेटी के सदस्य शामिल थे।

प्रवीण कृष्णा सहाय आंदोलनकारी चिह्नित

रांची। झारखंड सरकार गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से



झारखंड आंदोलनकारी की चिन्हितकण आयोग द्वारा प्रवीण कृष्णा सहाय को आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित किया गया है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष राजू महतो, आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच के इसरत आलम, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के इसरत आलम, विनीता खलखो, बिभय नाथ शाहदेव, गणेश दास, सर्जन हांसदा, वीरेंद्र महतो, गोपाल महतो, अफरोज शाह, अजमल कुरेशी, अकाश सहाय आदि ने उनके चयन पर उन्हें बधाई दी है।

झारखंड हाइकोर्ट के पुराने भवन से नये भवन में शिफ्टिंग का काम तेज

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। डोरंडा स्थित झारखंड हाइकोर्ट के पुराने भवन से धुर्वा स्थित हाइकोर्ट के नए भवन में शिफ्टिंग के काम में तेजी आई है। पुराने हाइकोर्ट भवन में करीब 37 सेक्सन जिनमें इस्टीमेशनमेंट, जूडिशल सेक्शन, लाइब्रेरी, रिकॉर्ड रूम आदि से सामानों, संसाधनों, फाइलों, कंप्यूटर आदि को धुर्वा से हाइकोर्ट के नए भवन में ले जाया जा रहा है। इन संसाधनों को धुर्वा के हाइकोर्ट के नए भवन में सिर्फ ले ही नहीं जाया जा रहा है बल्कि उन्हें सीरियल रखा जा रहा है और सुसज्जित भी किया जा रहा है।



ग्रीष्मावकाश के बाद 12 जून से हाइकोर्ट के नए भवन में कोर्ट चलेगी। हाइकोर्ट के ग्रीष्मावकाश में पुराने हाइकोर्ट भवन से सभी सामानों को नए हाइकोर्ट भवन पहुंचा दिया जाएगा।

धुर्वा के तिरिल मौजा में 72 एकड़ में बने हाइकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। सूत्रों के अनुसार शाम 5:00 बजे हाइकोर्ट के नए

आई हाउस में 25 मई से 8 जून तक बाल कार्यशाला

रांची। बच्चों के लिए कला विधाओं पर आधारित कार्यशाला 25 मई से 8 जून तक आई हाउस में चलेगी। एक तरफ कथक, भरतनाट्यम और शास्त्रीय गायन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो दूसरी ओर पारंपरिक लोक नृत्य के द्वारा बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बाल नाट्य कार्यशाला का भी आयोजन होगा। इस नाट्य कार्यशाला के संचालन के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के नाट्य विशेषज्ञ संजय कुमार लाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ में रंगकर्मी मुन्ना लोहार इन्हें सहयोग करेंगे। बच्चों के अंदर ललित कला को विकसित करने के उद्देश्य से आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप का भी आयोजन किया जा रहा है।

बिहार के पीएलएफआइ नक्सली चूहा समेत सुप्रीमो गोप को है एके-47 से प्यार

खबर मन्त्र व्यूटे

रांची। 34 साल की उमर में 39 कांडों को अंजाम देकर पुलिस फाइल में मोस्टवांटेड बना अवधेश जायसवाल उर्फ चूहा, कैडर समेत पीएलएफआइ सुप्रीमो दिनेश गोप को एके-47 से प्यार है। चूहा दिनेश गोप का करीबी है और दो लाख का इनामी भी है। उसे 12 फरवरी, 2023 में खुंटी पुलिस ने एके-47 के साथ गिरफ्तार किया है। अब पीएलएफआइ के सुप्रीमो दिनेश गोप

धमकी दिनेश गोप ने दी या किसी और ने... जांच कर रही रांची पुलिस

भाजपा के रांची महानगर जिला महामंत्री बलराम सिंह को धमकी मिलने के मामले में रांची पुलिस ने जांच आरंभ कर दी है। ऑडियो में इस बात का जिक्र है कि संगठन को मदद करना है। सिर्फ 10 एके-47 राइफल देना होगा। यह लड़ाई की सामग्री है। गोंदा थाने में लिखित शिकायत करने के बाद रांची के एसएसपी ने बलराम सिंह को एक गार्ड भी मुहैया करा दिया है। पुलिस ने बलराम सिंह को सतर्क रहने के लिए कहा है।

के द्वारा भाजपा के महामंत्री बलराम सिंह से एस एके-47 की डिमांड की

है। जिसका ऑडियो पुलिस के समक्ष पेश किया गया। दिनेश गोप और



तथाकथित पीएलएफआइ सुप्रीमो दिनेश गोप ने यह डिमांड किया है।

रांची में पीएलएफआइ कैडर वें मानी थी करोड़ों की रकमदारी पुपुदाना में रहने वाले अजीश शर्मा से एक करोड़ रुपये की मानी गई रकमदारी पुपुदाना में ही राइफ़ मिल संवैलक प्रवीण कुमार से भी एक करोड़ अप्पर बाजार के कारोबारी से 50 लाख मंने धुर्वा के टैट व्यवसायी संदीप कुमार से 50 लाख, डराले के लिए घर में दानी गौली अप्पर बाजार के दवा व्यवसायी विजय सिंघालिया से भी 50 लाख की रकमदारी मानी डॉक्टर शंभू प्रसाद से 20 लाख कांके के एक जमीन कारोबारी से 30 लाख रुपये मानी गई रकमदारी

रांची जिला स्तरीय 9वां वैवाहिक परिचय एवं वार्षिक मिलन समारोह आज, सभी तैयारी पूरी

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। जिला जिला केसरवानी वैश्य सभा के तत्वावधान में रांची जिला स्तरीय 9वां एक दिवसीय वैवाहिक परिचय सह वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन रविवार को किया गया है। मनीष केसरी ने बताया कि आयोजन 21 मई रविवार को जगन्नाथपुर मंदिर परिसर धुर्वा स्थित निलाद्री भवन, में सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक किया जाएगा। कार्यक्रम में रांची जिला का जनप्रतिनिधि, सांसद, वधायक, रांची, गुमला, खुंटी, लोहरदगा एवं सिमडेगा से हजारों लोग सहित



पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना से समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों का भी आगमन होना है। आयोजन स्थल जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में स्थित निलाद्री भवन में तैयारी पूरी हो गई है। मौके पर केसरवानी वैश्य समाज के वरीय संरक्षक तपेश्वर

केसरी, रांची जिला अध्यक्ष कार्तिक केसरी, महामंत्री मनीष केसरी, कोषाध्यक्ष मनोज केसरी, राधेश्याम केसरी, उमेश केसरी अरिंद केसरी, प्रदीप केसरी, राहुल चौधरी, अंकित आनंद केसरी, शिवम केसरी, प्रत्युष केसरी सहित केसरवानी वैश्य सभा के कई लोग उपस्थित थे।



खबर

एक नजर में

एक बार फिर से आंदोलन की राह पर राज्य के ट्रेड सहायक अध्यापक दो जून को शिक्षा सचिव कार्यालय का करेंगे घेराव

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ राज्य कार्यकारिणी पारा टीचर की बैठक प्रदेश शनिवार को दादा-दादी पार्क मोरहाबादी में हुई। इसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष सिद्धिक शेख की ने की। मौके पर राज्य महासचिव विकास कुमार चौधरी एवं प्रधान सचिव सुखन कुमार भी उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से 11 दिसंबर 2021 एवं 14 दिसंबर 2021 को दिवंगत शिक्षा मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों के साथ झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के साथ वार्ता में तय समझौते के उपरांत एवं सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 विभिन्न बिन्दुओं को लागू करने को लेकर अधिकारियों के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत रोक कर रखे जाँने से आक्रोश जताया। इसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गयी। दो जून को सचिव शिक्षा एवं साक्षरता विभाग राज्य सचिवालय का घेराव का भी निर्णय लिया गया। बैठक में संघ के राज्य संरक्षक सुशील कुमार झा, मुकेश कुमार शाह, मुख्तार अहमद,



अ.राम मुर्मू, एजाजुल हक, हरिकृष्ण सिंह, संजय पाठक, सीमा मुन्डारी, शब्बीर अंसारी, नसीमुद्दीन अंसारी, साकेत शेखर, दुधिर मंडल, नंदलाल नायक, शमसुल अंसारी, अजीत कुमार, निलामबर रजवार, प्रदीप वर्मा, अमरेश विश्वकर्मा, अजीत सिंह, फिरोज अहमद, मुगुल पाल, निलामबर रजवार और रमेश सिंह समेत अन्य उपस्थित थे।

इस तरह होगा आंदोलन : 02 जून 2023 - सचिव, शिक्षा व साक्षरता विभाग का सचिवालय रांची का घेराव करेंगे। 11 जून को झरिया विधायक, 17 जून तीसरे शनिवार को महाममा विधायक दीपिका सिंह पांडेय, 18 जून को पोडयाहाट के

विधायक, 25 जून को दुमका विधायक का आवास घेराव किया जाएगा। 29 जून को मंत्री मो हाफिजुल हसन का आवास घेराव होगा। इसके अलावा 30 जून को बरहेट में मशाल जुलुस निकाला जायेगा। 02 जुलाई मुगुला विधायक के आवास पर प्रदर्शन किया जायेगा। 15 जुलाई यानि आंदोलन के तीसरे शनिवार को रांची कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया जायेगा। 23 जुलाई को गिरीडीह सदर विधायक के आवास का घेराव, 30 को मंत्री आलमीगर आलम के आवास का घेराव और 06 अगस्त मंत्री बादल पत्रलेख के आवास का घेराव किया जायेगा।

राज्य के सहायक अध्यापकों में आक्रोश के मुख्य कारण

समझौते में वेतनमान मिलने तक समतुल्य मानदेय को लागू नहीं किया जाना। 15 महीने बाद भी अधिकारियों ने प्रमाण पत्र जांच कार्य को पूर्ण नहीं किया, जिस वजह से राज्य के 4800 सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा में आवेदन से वंचित हो गये। इसके अलावा सहायक अध्यापकों का 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि, सेवा संपुरधी में रोक, नियमित मानदेय भुगतान में कटौती जैसे कार्य किये गये, पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई।

सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में संशोधन कर डीपीएफ, सहायक अध्यापक के अनुरूप सेवा अनुकम्पा, सेवा - पुस्तिका का लाभ तथा समझौते के अनुसार मार्च 2022 में बिहार नियमावली के समरूप माइल प्रशान पत्र एवम सिलेबस जारी करते हुए आकलन परीक्षा 100 अंकों का निर्धारण किया गया था। परंतु बिहार नियमावली, समझौते एवं जनमानस के विरुद्ध 200 अंकों का निर्धारण कर कार्रवाई की जा रही है।

एक बार फिर आंदोलन के मूड में हैं राज्य के 65 हजार सहायक अध्यापक, आज बैठेगी पंचायत

रांची। राज्य के 65 हजार सहायक अध्यापक (एकीकृत पारा शिक्षक) एक बार फिर से आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं। इसे लेकर रविवार को मोरहाबादी में महापंचायत बुलाई गयी है। इसमें आगे के लिए आंदोलन की रणनीति तय की जायेगी। यह जानकारी झारखंड राज्य सहयोगी सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य इकाई सदस्य, एकीकृत मोर्चा के हृदिकेश पाठक ने दी। उन्होंने बताया कि झारखण्ड सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ राज्य के सहायक अध्यापकों में रोष व्यस है। मुख्यमंत्री द्वारा किये गये वादे वेतनमान को आज तक पूरा न कर सरकार वादा खिलाफी कर रही है। साढ़े तीन साल पूरे होने के बाद भी राज्य के सहायक अध्यापक वेतनमान का बाट जोह रहे हैं। साथ ही लिखित समझौते को भी एक साल के बाद पूरा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में राज्य, जिला एवं प्रखंड के अगुवा बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे।

अफीम के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

रांची। दशम फॉल थाना क्षेत्र के लोआहातु से पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से दो किलो अफीम बरामद किया गया है। तीनों आरोपी पास के ही गांव में अफीम बेचने की तैयारी में थे। पुलिस द्वारा की जा रही है चेकिंग में इन लोगों पर संदेह होने पर बाइक से जा रहे लोगों को रोका गया और तलाशी ली गई। तलाशी में दो किलो अफीम पाया गया। तीनों लोआहातू गांव के बड़ोदा तथा आड़ाहीह का निवासी है। यह तीनों आरोपी चतरा जिले के कृष्ण कुमार सिंह को अफीम की बिक्री करने के लिए रांची आ रहे थे।

आइसीआईसीआई पुडेशियल लाइफ इश्योरेंस ने एक डेट फंड लॉन्च किया

रांची। आईसीआईसीआई पुडेशियल लाइफ इश्योरेंस ने एक डेट फंड लॉन्च किया। यह फंड ग्राहकों को मौजूदा उच्च ब्याज दरों पर अपने निवेश को लॉक करने, लंबी अवधि में धन का निर्माण करने और वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाएगा। प्रचलित ब्याज दर व्यवस्था ग्राहकों को निवेश करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। इस तरह ग्राहक जीवन बीमा बाजार में इस तरह के पहले डेट फंड- आईसीआईसीआई प्रू कॉन्स्ट्रिक्ट मैच्योरिटी फंड में निवेश कर सकते हैं। वर्तमान दौर में ब्याज दरें बेहद ऊंची हैं, लेकिन ब्याज दरों में कोई भी गिरावट होती है, तो डेट फंड अपने ग्राहकों के लिए एक आकर्षक निवेश विकल्प के रूप में सामने आते हैं। डेट इंस्ट्रुमेंट्स और ब्याज दरों की कीमतों के बीच विपरीत संबंधों के कारण ऐसा होता है- जब ब्याज दरें गिरती हैं, तो डेट इंस्ट्रुमेंट्स की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे उन ग्राहकों को फायदा होता है, जिन्होंने इन इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश किया है। यह फंड कंपनी के प्रमुख यूनिट लिक्विड इश्योरेंस प्लान (यूएलपी) में निवेश के लिए उपलब्ध है। परिवार को वित्तीय सुरक्षा और लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण की सुविधा का एक अनूठा ऑफर प्रदान करते हैं। आईसीआईसीआई प्रू कॉन्स्ट्रिक्ट मैच्योरिटी फंड 15 मई, 2023 से यूनिट लिक्विड उत्पादों के साथ उपलब्ध है।

10 किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार



खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। रेलवे सुरक्षा बल ने हटिया रेलवे स्टेशन से 10 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को आरपीएफ की टीम ने ऑपरेशन नारकोस के तहत ट्रेन संख्या 18452 पूरी-हटिया एक्सप्रेस से दो व्यक्तियों को सदहोस्य स्थिति में प्लेटफार्म पर निकाल गेट की तरफ जाते देखा। इसमें एक व्यक्ति की पीठ पर कुछ भारी सामान लदा हुआ था। संदेह

होने पर उन व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की गई। बैग की तलाशी लेने पर उसके अंदर गांजा पाया गया। तत्काल इसकी सूचना हटिया आरपीएफ ने अपने वरिष्ठ ऑफिसर रांची मंडल के इंचार्ज पवन कुमार को दी। जिसके बाद गांजा जन्म कर लिया गया। जब गांजा की कीमत एक लाख बीस हजार बताया गयी है। मामले में आशीष सिंह और सत्येंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर जीआरपी हटिया को सुपुर्द कर दिया गया। पूछताछ की जा रही है।

रांची मेडिका हॉस्पिटल में हृदय रोग का होगा संपूर्ण इलाज : डॉ कुणाल सरकार



खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। हृदय की जटिल बीमारियों का इलाज अब भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हो सकेगा। मेडिका कोलकाता से आये वरिष्ठ हृदय रोग सर्जन डॉ कुणाल सरकार ने बताया कि अब गंभीर समस्या होने पर रोगी को दिल्ली, मुंबई या विदेश नहीं ले जाना पड़ेगा। गंभीर से गंभीर हृदय रोग का इलाज मेडिका कोलकाता के सहयोग से रांची मेडिका में

संभव है। अब दोनों अस्पताल साथ मिलकर हृदय रोग संबंधी इलाज को और बेहतर करेंगे। मेडिका रांची शुरूआत से ही झारखंड में उच्चस्तरीय सेवा देता आ रहा है। मेडिका रांची के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. विजय मिश्रा, मेडिका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अयानाभ देबगुला, एवीपी अनिल कुमार, डॉ सुनील कुमार, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. रोहित कुमार और डॉ. दीपक कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि

जटिल हृदय रोग के इलाज के लिए नई तकनीक को झारखंड में उपलब्ध नहीं थी। मेडिका कोलकाता के सहयोग से हृदय रोग संबंधी सारी जटिलताय बीमारियों का इलाज अब मेडिका रांची में उपलब्ध होगा। यहां आईवीएल तकनीक, रोटाब्लेशन, बिना ओपन किये हार्ट की वक्व बदलना, लीडलेस पेसमेकर, आर्टिफिशल हार्ट पंप के सहयोग से एडवांस्ड हार्ट का इलाज एवम एडवांस्ड पेसमेकर जैसे इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

सीएमओएआई की सीएमपीडीआई शाखा के अध्यक्ष बने प्रवीण कांत शरण

खबर मन्त्र ब्यूरो



रांची। कोयला अधिकारियों के संगठन सीएमओएआई की सीएमपीडीआई शाखा का पुनर्गठन किया गया है। इसके लिए हुए चुनाव का परिणाम 19 मई के देर रात को मतगणना के उपरांत जारी हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी अतुल कुमार और रितिनिस आफिसर दीपक ध्यानी ने परिणाम जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रवीण कांत शरण निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुने गए। प्रवीण शरण सीएमपीडीआई के मुख्यालय में विभागाध्यक्ष (सीसी लैब) हैं। वाइस प्रेसिडेंट प्रभाकांत कुशवाहा और हेमंत कुमार चैहान चुने गए।

अमरजीत सिंह चुने गए। उन्होंने आशीष अग्रवाल को हराया। दोनों को क्रमशः 362 और 217 वोट मिले। संयुक्त महासचिव क्षेत्रीय संस्थान-4, नागपुर के संदीप शर्मा और सीएमपीडीआई मुख्यालय के अमृताश्री बनाई गए हैं। संयुक्त कोषाध्यक्ष मुख्यालय की श्वेता सेनी चुनी गईं।

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। गोस्सनर कॉलेज के ऑडिटोरियम में शनिवार को मानव शास्त्र विभाग और लव रांची टीम के संयुक्त तत्वावधान में सेल्फ अवेयरनेस और लर्न इंपैक्ट विषयक पर मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर इलानी पूर्ति ने किया। इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर इलानी पूर्ति और कॉलेज के सह कोषाध्यक्ष प्रोफेसर प्रवीण सुरीन को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राकेश पाल ने बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि आज के दिन में खुद को जानना और जागरूक करना बहुत जरूरी है।



उन्होंने कहा कि खुद को जानने से कैरियर के कई अवसर आपके सामने आते हैं। खुद को आज के दिन में प्रभावशाली बनाने की भी जरूरत है। इस अवसर पर डॉ।सिगिंग

के माध्यम से भी बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में बच्चे बड़ चढ़कर शामिल हुए। अवसर पर मोटिवेशनल स्पीकर आशीष पूर्ति, ऑस्ट्रेलिया के

जेड़ और आइआईटी के सफल बच्चों को स्कूल ने किया सम्मानित

रांची। नीरजा सहाय डीएवी में सीबीएसई की ओर से आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं यथा जेईई, आईआईटी इत्यादि में सफलता पाने वाले छात्र- छात्राओं को उनके माता पिता व अभिभावकों की उपस्थिति में प्रशस्ति पत्र व टॉफियां प्रदान की गईं। विद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में कक्षा दसम एवं बारहवीं में बेहतर उच्च अंकों को प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को सम्मान स्वरूप उपहार दिये गये। माता - पिता की उपस्थिति में किए गये इस सम्मान समारोह में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। प्राचार्य किरण यादव ने बच्चों के इस आशातीत परिणाम की प्रशंसा की एवं उनके उज्वल भविष्य की कामना की। बच्चे भी अपनी मेहनत को सम्मानित पा कर उत्साहित दिख रहे थे। इस कार्यक्रम के साथ ही छह दिवसीय समारोह का भी अंत हुआ। मंच संचालन दीपिका एवं धन्यवाद ज्ञापन माधुरी ने किया।

भाजपा टाटीसिलवे मंडल कार्यसमिति समिति की बैठक

रांची। भाजपा टाटीसिलवे मंडल कार्यसमिति समिति की बैठक महिलेगा स्थित मंडल अध्यक्ष राजेंद्र महतो के कंठलेख में शनिवार को हुई। इसका मुख्य उद्देश्य महा सपक अभियान को पूरे टाटीसिलवे मंडल में अच्छे ढंग से संचालन करना है। इसमें प्रदेश भाजपा प्रलेखन विभाग के



संयोजक अमित चरण, मंडल के प्रभारी मनोज चौधरी ग्रामीण जिला उपध्यक्ष समेत अन्य वक्ताओं के द्वारा कहा गया कि इस महा सपक अभियान को पूरे मंडल में साठ अच्छे ढंग से पूरा करें। साथ आजीवन समर्पण राशि के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राजेंद्र महतो एवं संचालन रुद्रेश्वर राय महामंत्री और धन्यवाद ज्ञापन राणा दिनकर सिंह उपाध्यक्ष ने किया।

शिक्षकों ने छुट्टियों में कटौती का किया विरोध

रांची। राज्यपाल सह राज्य के विश्वविद्यालयों के चंसलर सीपी राधाकृष्णन के स्तर पर विधि की छुट्टियों में 50 प्रतिशत के करीब कटौती कर दी गयी है। दैनिक खबर मन्त्र ने इस खबर को अपनने अखबार में प्रमुखता से उठाया था। खबर छपने के साथ ही विवि के शिक्षकों-कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार को डोरंडा कॉलेज शिक्षक संघ ने छुट्टियों में की गयी कटौती का विरोध काला बिल्ला लगा किया। यह जानकारी कॉलेज के हिन्दी डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट डॉ० मंजू लाल ने दी।

गोस्सनर कॉलेज में नक्शा तैयार करने का प्रशिक्षण

रांची। गोस्सनर कॉलेज रांची के भू-विज्ञान विभाग और कॉलेज के आइएएससी के संयुक्त तत्वावधान में व्यूजीआईएस एवं डीजीपीएस के प्रयोग से नक्शा तैयार करने को लेकर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। आखरी दिन रिसोर्स पर्सन ग्रीनमार्क नई दिल्ली के निदेशक जेम्स आर टोपनो ने भूविज्ञान विभाग के बच्चों से व्यू जी आई एस और डीजीपीएस के माध्यम से फील्ड में मैपिंग कराया। इसके बाद फील्ड डाटा को प्रोसेसिंग करके मैप तैयार कराया गया।

मौके पर भू विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमरेश चंद्र मिश्र, प्रोफेसर सीआर नवल लुगुन, डॉ. श्याम लाल सिंह, धनंजय कुमार, शिक्षक प्रतिनिधि प्रोफेसर अमरदीप टोपनो, वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ मुदुला खेरस, भूगोल विभाग की प्रोफेसर डॉ दिव्या रतन कोनगाडी, डॉ होली अर्चना कच्छप मौजूद थे। कार्यशाला में भू विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया और मैपिंग की कई जानकारी प्राप्त की। यह जानकारी प्रो. डॉ. कार्नेलियुस मिंज ने दी।

कैब्रियन पब्लिक स्कूल में समर कैंप

रांची। कांके रोड कैब्रियन पब्लिक स्कूल में समर कैंप का आयोजन शनिवार को किया गया। एक माह तक चलने वाले इस कैंप का उद्घाटन वीआईटी मेसरा के प्रोफेसर डॉक्टर एस पाद्री ने किया। समर कैंप में श्री पाद्री ने इस तरह के कैंप से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। इस कैंप में बच्चों को वेब डेवलपमेंट, गेमिंग वीथ पाइथन व ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाया जाएगा। इस कैंप कैंप का व्यय है छात्रों को प्रोग्रामिंग और तकनीकी दक्षता में प्रशिक्षित करना, जिससे वे आगे चलकर समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सकें। इस कैंप का आयोजन पॉलिक्स संस्थान ने किया है। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर मनीष कुमार पांडेय, कैब्रियन स्कूल की प्रधानाचार्या नीता पांडे, वरिष्ठ समाजसेवी संजय जयसवाल एवं आईसीआईसीआई बैंक के चीफ मैनेजर अमित झा मौजूद थे।

आध्यात्मिक समर कैंप का आयोजन



रांची। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय, चौधरी बगान हरम् रूड के पवित्र तत्वावधान में आध्यात्मिक समर कैंप का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दो दिनों तक चलेगा। इसकार्यक्रम में लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया। समर कैंप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ी में जीवन मूल्यों का विकास करना है। कार्यक्रम में उपस्थित जवाहर विद्या मंदिर के प्राचार्य डॉ० समरजीत जाना ने कहा वर्तमान समय में मानव ने जीवन के सुख सुविधाओं के वस्तुओं से स्वयं को खूब सजाया है। परंतु आत्मिक सुख, शांति, गुस्ते, दया, करुणा आदि जीवन मूल्य मानव में पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं।। स्वयं के द्वारा नकारात्मक वातावरण बनाता है जिससे फिर मन कमजोर हो जाता है। फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है। स्कूल में झगडा करने से और टीचर को गलत बोलने से कभी भी अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते। किसी की दुःख देने तथा झूठ बोलने से भी खुद का नुकसान होता है आदि कई मूल्यनिष्ठ बातें समझाई।

एकल विद्यालय के बच्चों की नगर यात्रा प्रारंभ

रांची। वनबंधु परियेद रांची चैटर द्वारा एकल विद्यालय के बच्चों की पांच दिवसीय नगर यात्रा का शुभारंभ 20 मई को सुबह 8-30 बजे से प्रारंभ की गई। यह यात्रा 20 मई से 24 मई तक क्रमशः जारी रहेगी। यात्रा के प्रथम दिन प्रातः काल 8-30 बजे से अपराहण तीन बजे तक रांची मेन रोड स्थित जे.डी. हाई स्ट्रीट मॉल में एकल विद्यालय के 151 बच्चों ने जमकर आनंद का लुप्त उठाया। जे.डी. हाई स्ट्रीट मॉल में एकल विद्यालय के बच्चों द्वारा गुंजा ऊंकर का मंत्र, गायत्री मंत्र, भारत माता की जय एवं एकल गीत से मंच पर गुंजायमान हो गया। पहली बार बच्चे रांची शहर में आए एवं इस प्रकार के मॉल को देखे। इस मॉल स्थित सिनेमाहॉल में बच्चों के योग व्यायाम एवं ध्यान भी किया। पहली बार बच्चे रिफ्ट एवं स्वचालित सीडी पर वंदे। एम.एस.धीनी नामक फिल्म देखी, किसी हॉल में बैठकर पहली बार पॉपकॉन, समोसे, केक, आइस्क्रीम एवं दोपहर का भोजन किया। इतना ही नहीं मॉल में जितने भी प्रकार के गेम्स (खेल) थे उसे वे बड़ी उत्साह एवं उत्सुकता पूर्ण उस खेल को खेला। एकल विद्यालय के 151 बच्चे रामाद संघ, टाकुर संघ एवं नगड़ी संघ से शामिल हुए।



गोस्सनर कॉलेज में मोटिवेशन कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा

वर्तमान समय में खुद को जानना बहुत जरूरी

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। गोस्सनर कॉलेज के ऑडिटोरियम में शनिवार को मानव शास्त्र विभाग और लव रांची टीम के संयुक्त तत्वावधान में सेल्फ अवेयरनेस और लर्न इंपैक्ट विषयक पर मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर इलानी पूर्ति ने किया। इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर इलानी पूर्ति और कॉलेज के सह कोषाध्यक्ष प्रोफेसर प्रवीण सुरीन को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राकेश पाल ने बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि आज के दिन में खुद को जानना और जागरूक करना बहुत जरूरी है।



उन्होंने कहा कि खुद को जानने से कैरियर के कई अवसर आपके सामने आते हैं। खुद को आज के दिन में प्रभावशाली बनाने की भी जरूरत है। इस अवसर पर डॉ।सिगिंग

के माध्यम से भी बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में बच्चे बड़ चढ़कर शामिल हुए। अवसर पर मोटिवेशनल स्पीकर आशीष पूर्ति, ऑस्ट्रेलिया के



फरार अभियुक्त के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया

इटकी। स्पिट भंडारण के मामले में करीब पांच वर्षों से फरार अभियुक्त इटकी मौसी बाड़ी निवासी पप्पू खान, पिता फुदवा मियां के घर शनिवार को पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। इटकी पुलिस के सहयोग से नगड़ी पुलिस द्वारा आरोपी के आवास पर इश्तेहार चिपकाया गया है। उसके विरुद्ध नगड़ी थाना में कांड संख्या 72/18 के तहत स्पिट भंडारण का मामला दर्ज है।

श्री हनुमान प्राण प्रतिष्ठा को 151 महिलाओं का निकली कलश यात्रा

ओरमांडी। प्रखंड क्षेत्र के दोहाकातु जयडीहा ओरमांडी में नवनिर्मित श्रीश्री 108 श्री हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शनिवार को कलश यात्रा निकाली गई। यज्ञ स्थल से आसपास गांव की 151 महिलाएं कलश लेकर निकली व गांव भ्रमण करते हुए गणेशपुर भेड़ा नदी जलाशय गए। श्री गोस्वामी रामधरन गिरि व श्री बालेधर प्रजापति द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण कर कलश में जल भरवाया गया। कलश में हनुमान पताका के साथ बाजे-गाजे के साथ शामिल ग्रामीण व भक्तगण जयकारा लगा रहे थे। वहीं कलश यात्रा में मुख्य रूप से शामिल प्रमुख अनुपमा देवी ने कहा प्राण प्रतिष्ठा व धार्मिक आयोजन से क्षेत्र भक्तमय हो गया है। वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष डीबल गंडु ने बताया कि तीन दिन तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में हरिनाम यज्ञ व कथा का भी आयोजन होगा। कलश यात्रा में समिति के सचिव गणेश मेल्ली व कोषध्यक्ष तेजु प्रजापति सहित काफी संख्या में ग्रामीण शामिल थे।

आवास निर्माण नही करने पर होगी कार्रवाई

ओरमांडी। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत में लाभुक राशि निकासी के बाद भी योजना कार्य पूरा नही कर रहे हैं। इसे लेकर बीडीओ विजय सोनी द्वारा विभिन्न गांव का दौरा कर योजना का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के लिए कहा गया। कई गांव में बीडीओ ने ग्रामीण व लाभुकों के साथ बैठक कर पीएम व अडेडकर आवास योजना जल्द पूरा करने को कहा साथ ही चेतावनी भी दी की योजना की राशि लेकर निर्माण कार्य पूरा नही करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बीडीओ ने बताया कि जो लोग राशि लेकर योजना व आवास निर्माण नही कर रहे हैं। उसे नोटिस भी किया गया है। गांव जाकर समझाया भी गया है। बायजूद कार्य नही करते हैं।

छात्र-छात्राओं को किया गया सम्मानित

खबर मन्त्र संवाददाता

पिटोरिया। कांके स्थित नीरजा सहाय डीएवी में सीबीएसडि द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं तथा जेईई, आईआईटी इत्यादि में सफलता पाने वाले छात्र-छात्राओं को उनके माता पिता व अभिभावकों की उपस्थिति में प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफियाँ प्रदान की गईं। विद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में कक्षा दसम एवं बारहवीं में बेहतर उच्च अंकों को प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को सम्मान स्वरूप उपहार दिये गये। माता - पिता की

पुलिस ने गुप्त सूचना पर होटल ताज में की छापेमारी रात में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ संचालक समेत सात लोग धराये

अरशद अयूब हैं मालिक सलमान खान संचालक

खबर मन्त्र संवाददाता

रातू। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को दोपहर रेडियो स्टेशन रोड स्थित होटल ताज में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान तीन कपल री हाथ पकड़े गये। सेक्स में प्रयुक्त आपत्तिजनक समान भी जब्त की गयी है। होटल काठीटांड निवासी हाजी अरशद अयूब की बताया जा रही है। उनका पुत्र सलमान खान इसका संचालक है। उसे हिरासत में ले लिया गया है। पकड़े गये कपल बालिग बताये जा रहे हैं। पृछताछ के बाद उन्हें



पोआर पर छोड़ दिया गया। छापेमारी में थानेदार सपन कुमार महथा, अवर निरीक्षक चमरा मिंज, अमरनाथ सोनी, नीतीश कुमार, महिला आरक्षी बसंती कुमारी व नीलम कुमारी शामिल थे।

कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए पिपरवार मंडल के कार्यकर्ता

खबर मन्त्र संवाददाता

पिपरवार। भारतीय जनता पार्टी चतरा जिला में कार्यसमिति का बैठक भाजपा कार्यालय चतरा में किया गया। जिसकी अध्यक्षता जिला भाजपा अशोक शर्मा संचालन जिला के महामंत्री मिथिलेश गुप्ता और मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, चतरा सांसद सुनील सिंह, सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास जिला के प्रभारी विपिन बिहारी सिंह पूर्व विधायक जनार्दन पासवान जयप्रकाश सिंह भोक्ता इत्यादि उपस्थित हुए। कार्यक्रम को शुरूआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी अटल बिहारी वाजपेई के चित्र पर पुष्प माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरूआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आदित्य साहू ने कहा कि 30 मई से 30 जून



तक चलाए जाने वाले कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी चतरा जिला के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं एवं सभी को दिशा निर्देशित किए एवं देश के मोदी के 9 वर्ष होने के उपलक्ष में उनके द्वारा किए गए कार्यों एवं उनके द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को कार्यों को हर घर और हर व्यक्ति तक पहुंचाने में तमाम कार्यकर्ताओं को जाने को आग्रह किए। जैसे कि पीएम आवास और कोरोना काल में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गरीब लावार बेबस लोगों को अनाज देने का काम किया।

प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा निकाली

खबर मन्त्र संवाददाता

नामकुम। शनिवार को श्री, श्री, पंचमुखी हनुमान मंदिर चायबगान के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हो गया। इस दौरान सुबह लगभग सात बजे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पीली साड़ी पहनकर माथे पर कलश लेकर मंदिर प्राण से निकली और कोचाटोली स्वर्णरेखा नदी से कलश में जल लेकर वापस मंदिर परिसर स्थित पूजा पर पहुंची। इस दौरान जय श्रीराम जय हनुमान के नारे से पूजा शुरू गुजायमान हो गया, मंदिर समिति के अध्यक्ष अरूण कुमार झा ने बताया कि दस बजे से वेदी पूजन, देव



पूजन, जलाधिवारा, पुष्पाधिवारा और अन्नाधिवारा कार्यक्रम होगा। वहीं रविवार 21 मई को सुबह नौ बजे से वेदी पूजन, मंडप पूजन एवं द्रव्यधिवारा, वस्त्रधिवारा फलाधिवारा सहित अन्य अधिवारा कार्यक्रम होंगे। समिति के सदस्यों ने बताया कि रोजाना पूजास्थल पर

कब्रिस्तान घेराबंदी का कार्य शुरू

खबर मन्त्र संवाददाता

कांके। कोकदोरो मौलवी बगीचा कब्रिस्तान के बाउंड्रीवाल का बुनियाद शनिवार को रखा गया। बुनियाद कार्यक्रम में अंजुमन इस्लामिया कमिटी कोकदोरो के सदर अब्दुल मजीद अंसारी सेक्रेटरी तबारक हुसैन अफजल हुसैन कब्रिस्तान कमिटी के सदर सुल्तान आदिल सेक्रेटरी मेराज अहमद खजांची आफताब अलम मुखिया उज्ज्वल पहान अंजुमन निर्वाचन कमिटी कोकदोरो के मुख्य संयोजक अफरोज आलम ने संयुक्त रूप से बुनियाद रखी कब्रिस्तान कमिटी के सदर सुल्तान आदिल ने बताया कि लगभग एक

होटल में सेक्स रैकेट चलाने की शिकायत पहले भी मिली थी। दर्जनभर युवक-युवति पकड़े गये थे। होटल में नौकरी के नाम पर फ्रॉड होने की सूचना है। होटल मालिक अरशद अयूब विवादित व्यक्ति है। प्रवीण सिंह डीएचपी।

जानें क्या है मामला : सभी आरोपित चान्हो सांस के रहने वाले हैं। वह एक-दूसरे के मंगतर हैं। उनकी शादी की तारीख तय हो चुकी है। मोबाइल के जरिये वह दिन के 11 बजे काठीटांड चौक में मिले। रांची बाजार में कपड़े की खरीदारी की। इसके बाद होटल ताज पहुंचे। प्रो सलमान खान से संपर्क कर कमरे बुक कराये।

डीएवी विवेकानंद पब्लिक स्कूल बेड़ी में तीन दिवसीय समर कैंप का समापन

खबर मन्त्र संवाददाता

बेड़ी। बेड़ी के बिनाय बगीचा स्थित डीएवी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में चल रहे तीन दिवसीय समर कैंप का शनिवार को समापन हो गया। समर कैंप में बच्चों ने अंतिम दिन जमकर धमाल मचाया। इस दौरान बच्चे विभिन्न खेलों में भाग लेकर खूब मस्ती किए। यहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों के बीच शर्टिफिकेट और मेडल भेंटकर सम्मानित किया गया और टीम को शौलड देकर पुरस्कार किया गया। मौके पर स्कूल के निदेशक कैलाश कुमार ने कहा की समर कैंप का उद्देश्य छुट्टियों में बच्चों के भरपूर मनोरंजन के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करना है। इससे बच्चों में पठन पाठन के साथ साथ मनोरंजन का अवसर मिलता

है। उन्होंने समर कैंप के सफलतापूर्वक समापन होने पर शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा की समर कैंप बच्चों की मस्ती की पाठशाला बन गई है। किताब पढ़ने के अलावा बच्चों में खेलकूद और मनोरंजन भी जरूरी है। समर कैंप में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ सीखने का भी मौका मिलता है और अपनी प्रतिभा को दिखाने का भी मौका मिलता है। खेल के क्षेत्र में भी बच्चों को आगे लाना होगा कौन जाने इन्हीं में से कुछ बच्चे ओलंपिक में भी देश को मेडल दिला सकते हैं और वे अपने क्षेत्र और देश का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। समर कैंप में येलो हाउस का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा उसे प्रथम स्थान मिला, जबकि रेड हाउस को दूसरा स्थान मिला।

निशुल्क कैंसर रोग परामर्श एवं जांच शिविर का शुभारंभ

खबर मन्त्र संवाददाता

सिल्ली। कैंसर केयर फाउंडेशन रांची, गुंज परिवार सिल्ली एवं टाटा ट्रस्ट के सौजन्य से सिल्ली विधानसभा स्वास्थ्य सेवा अभियान के तहत शनिवार को सिल्ली सामुदायिक अस्पताल में निशुल्क कैंसर रोग परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। पुर्व उपमुख्यमंत्री सह स्थानीय विधायक सुदेश कुमार महतो ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि कैंसर की शुरुआती लक्षण सामान्य होते हैं। जब कैंसर अंतिम स्टेज पर आता है, तब मरीज को जानकारी मिलती है। इसलिए मरीज को किसी



शिविर में उपस्थित विधायक डॉक्टर एवं अन्य जनप्रतिनिधि

भी सामान्य बीमारी को नजरदंज नहीं करना चाहिए। समय-समय पर शारीरिक जांच जरूरी है। वर्तमान में प्रदूषण, खराब पोषण, अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण ही बीमारियां बढ़ रही हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के पुरी टीम की शिविर आयोजन की पहल की प्रशंसा की

और कहा कि इस प्रकार के शिविर अब ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने जिप उपाध्यक्ष वीणा चौधरी, प्रमुख जेजेई बड़ाईक, उप प्रमुख आरती दीवें, मुखिया, अन्य जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य सहाया एवं मेडिकल टीम के साथ स्वास्थ्य

सिल्ली के इस अभियान को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार करने आग्रह किया। उन्होंने कैंसर जांच के साथ-साथ ब्लड शुगर, बीपी, एवं ब्लड ग्रुप जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों, एनएम, स्वास्थ्य सहायाओं को इस अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। इससे पूर्व सीपचसी के चिकित्सा पदाधिकारी ने सुदेश कुमार महतो को शॉल ओढ़ाकर एवं बुके देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में जिप उपाध्यक्ष वीणा चौधरी, टाटा ट्रस्ट के जिला प्रोग्राम मैनेजर निलेश कुमार ने अपने विचार व्यक्त किए।

लिटिल स्टार प्ले स्कूल पिठोरिया में तीन दिवसीय समर कैंप का समापन

खबर मन्त्र संवाददाता

पिटोरिया। लिटिल स्टार प्ले स्कूल पिठोरिया में शनिवार को तीन दिवसीय समर कैंप का समापन किया गया। समर कैंप में बच्चों को पेंटिंग, रैन डांस, कागज के नाव बनाना, लैंप बनाना आदि कराया गया। जिसे बच्चों ने उत्साह पूर्वक किया। कैंप में बेबी नर्सरी से क्लास टू तक के बच्चे उपस्थित थे। कैंप के अयोजन में स्कूल प्रबंधन के साथ सभी शिक्षिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान स्कूल की प्रधानाध्यापिका नीतू कुशवाहा



ने कहा की इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों में नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है।

कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षिकाएं प्रतिभा, रेखा, प्रीति, खुशबू, सोनी, साहमा, रीतू, अंशु कि अहम का भीमिका रही।

आदिवासियों की अवाज कुचलने का प्रयास कर रही है पुलिस : राम कुमार

खबर मन्त्र संवाददाता

सिकिंदीरी। खिजरी के पूर्व विधायक राम कुमार पाहन शनिवार को पूर्व मुखिया श्रवण कुमार मुंडा से मिलने उनके आवास हरातु पहुंचे। श्रवण कुमार मुंडा ने सिकिंदीरी पुलिस द्वारा शुक्रवार की रात की वाहनों से अवैध वसूली का विरोध करने पर उनके साथ पुलिस द्वारा मारपीट करने के संबंध में पूर्व विधायक को विस्तृत जानकारी दी।



पुलिस ऐसा व्यवहार करती है तो आम आदमी के साथ कैसा होता होगा। उन्होंने कहा की एक आदिवासी की अवाज को पुलिस कुचलने का प्रयास कर रही है। पुलिस की छवि को ऐसे ही अधिकारी खराब कर रहे है। उन्होंने बताया की वे इस मामले को लेकर डीजीपी और एसएसपी से मिलकर दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग करेंगे। इस मौके पर रथुवा मुंडा, गणेश तुरी समेत अन्य लोग उपस्थित थे।



समय

संवाद

जाने-अनजाने चेहरों में किसने क्या रिक्शन दिया? कैसा कमेंट किया? जैसी बातें भी तनाव और एंजायटी भी बढ़ाते हैं। जर्नल ऑफ विलनिकल एंड सोशल साइकोलॉजी में छपी रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया लत का बेचैनी और अवसाद से सीधा संबंध है। हरदम यहां मौजूद रहना कार्टीसोल और एड्रेनलिन हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है। ये तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं। इसीलिए अपने अपडेट्स पर मिले सकारात्मक फीडबैक को लेकर हद से ज्यादा उत्साहित होने या नेगेटिव कमेंट्स को लेकर तनाव में आने से बचें। आज तनाव का यह एक बड़ा कारण है।



पिया राज

मानसिक और व्यवहारगत समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। खासकर ऐसे यूजर्स में जिनकी जिंदगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक ही सिमट गई है। कोरोना काल में तो हर उम्र के लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। आंकड़े बताते हैं कि 3.6 अरब लोग दुनियाभर में रोज 144 मिनट सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। हर उम्र, हर वर्ग के लोग इन यूजर्स की फेहरिस्त में शामिल हैं। हालांकि अब यूजर्स इन वचुअल मंचों पर ओवर एक्टिव रहने के नुकसान भी समझने लगे हैं पर यह भी सच है कि आज के दौर में वचुअल प्लेटफॉर्म से पूरी तरह कटकर भी नहीं रहा जा सकता। हां, समझ और सजगता के साथ यहां मौजूद रहना अनगिनत समस्याओं से बचाते हुए आपको वचुअली सक्रिय रख सकता है

सही प्लेटफॉर्म चुनें

वचुअल दुनिया में हर मंच पर अपनी मौजूदगी रखना अपना समय गंवाने के रास्ते



खोलने जैसा है। इसीलिए अपनी पसंद या अपने वर्किंग फ्रील्ड के मुताबिक ऐसे वचुअल प्लेटफॉर्म चुनें, जो आपको अपग्रेड कर सकें। वहां बिताये जा रहे समय के बदले आपके काम की सूचनाएं आपको मिल सकें। ध्यान रहे कि आज सोशल मीडिया के अनगिनत एप्स और साइट्स पर लोगों का बहुत सा समय खप जाता है। यह तय करना वाकई जरूरी है कि सूचनाओं के महासागर में कौन सी जानकारी आपके काम की है। कुछ पढ़ना समझना हो या शेयर करना आपकी प्राथमिकता क्या है?

अपडेट कम कीजिये

सोशल मीडिया पर आपकी मौजूदगी का सीधा रिश्ता आपके अपडेट्स से है। हद से

ज्यादा अपडेट्स की आदत हरदम आपको स्क्रीन की दुनिया में गुम रखती है। बार-बार लाइक, कमेंट या रियेक्शंस को देखने के जाल में उलझाए रखती है। इसीलिए आम जिंदगी से जुड़े वाक्यें हों या सार्वजनिक घटनाओं से जुड़े विचार, हर दिन, हर बात, हर विषय को लेकर अपडेट्स करने की आदत यूजर्स को सबसे ज्यादा व्यस्त रखती है। अगर आप खुद अपने अपडेट्स को सीमित रखते हैं, तो इन प्लेटफॉर्म पर आपका होना लत नहीं बनता। सार्थक जुड़ाव और जागरूकता भर के लिए वचुअल प्लेटफॉर्म पर समय देने के लिए अपने पोस्ट्स, अपडेट्स और स्क्रीन स्कॉलिंग को सीमित रखना बेहद जरूरी है। सोशल साइट्स पर बढ़ती मौजूदगी के अनुपात में ही दुनिया में तनाव, अवसाद, और हाइपरटेंशन के मामले भी बढ़े हैं।

स्क्रीन टाइम तय कीजिये

बच्चों के लिए ही नहीं बड़ों एक लिए भी स्क्रीन टाइम तय करना जरूरी है। सोशल मीडिया से संधी हुई दूरी बनाना चाहते हैं तो

पहले अपना हर दिन का स्क्रीन टाइम जानें। फिर सर्किंग के लिए एक खास और नियत समय निकालें। ताकि ना तो आपकी काम की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़े और ना ही आप साइबर संसार के लती बनें। किंस कॉलेज लंदन द्वारा किये गए फ्रंटियर्स इन साइकाइटी जर्नल में प्रकाशित ताजा अध्ययन के मुताबिक वैश्विक स्तर पर करीब एक तिहाई युवा स्मार्ट फोन की लत का शिकार हैं। जिसके चलते अनिद्रा के साथ ही दूसरी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। अध्ययन में शामिल 39 फीसदी प्रतिभागियों में बार-बार फोन देखना, नियमित रूप से सोशल मीडिया पर सूचनाएं देखते रहना, मैसेज या नोटिफिकेशन आते ही जल्द से जल्द फोन देखने की तलब रहना जैसे लक्षण दिखाई दिए हैं। ऐसे सभी लक्षण अपने फोन को लेकर नियंत्रण खोने के लक्षण माने जाते हैं। स्मार्ट फोन की लत के शिकार दो तिहाई से अधिक लोग नॉंद न आने की समस्या से जूझ रहे हैं। यूएस सेंटर फॉर डिजिजल कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक नॉंद की खराब गुणवत्ता और स्मार्ट फोन के हद से ज्यादा इस्तेमाल से हो रही समस्याएं जिंदगी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

भक्ति, ज्ञान दृष्टि देता है

स्वामी सत्यानंदजी परमहंस



भक्ति ज्ञान दृष्टि देता है। अहंकार ज्ञान को ढंक देता है। भगवान राम से वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि प्रेम कभी घटे नहीं ऐसा वरदान दें। राम जब वन में गये तो वहां कई ऋषियों-मुनियों ने उनका संवाद हुआ। राम की भक्ति और ज्ञान की स्थिति से ऋषियों-मुनियों को लगा कि उनका जप-तप इस दशरथ नंदन राम के आगे नहीं टिकता है। राम अहंकार रहित थे। मनुष्य भक्ति के माध्यम से ज्यादा पा सकता है। तुलसीदास ने संदेव भक्ति की महिमा का बखान किया है। जो भी जप-तप से प्राप्त बल है उससे अधिक टिकाउ भक्ति के माध्यम से प्राप्त ज्ञान दृष्टि है। जो परम आत्मा है वही परमात्मा है। मजनु से जब कहा गया कि वह खुदा की इबादत करें तो उसने कहा कि खुदा अगर लैला के रूप में आ जाये तो उसकी इबादत कर सकता है। प्रेम बड़ा है या ईश्वर? निश्चित प्रेम बड़ा है। प्रेम ही परम बना देता है, परमात्मा बना देता है। नारद, विश्वामित्र, उद्धव, परशुराम ने जो सिद्धि प्राप्त की वह जप-तप से प्राप्त की गयी थी। इसलिए इसमें भटकाव भी था और क्रोध शेष भी। लेकिन जो कृष्ण ने प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया वह आज भी राधा-श्याम के रूप में उपस्थित है। राधा-राधा बोलो चले आयेगे बिहारी। यह पंक्ति भक्ति मार्ग की उंचाई को बताता है। काल, कर्म, स्वभाव और गुण का घेरा लेकर जीव संसार में घूमता है। काल समय है, कर्म क्या करेगा यह कुदरत से तय होता है। स्वभाव सभी का अलग-अलग होता है। गुण से भी प्रभावित होता है। गिद्धराज का खान-पान से लेकर गुण स्वभाव, कर्म सब कुछ अलग था लेकिन प्रेम राम में था। अंतर सिर्फ ज्ञान और अज्ञान का है। खुदा ने जीने का मौका दिया। दूसरे को मत देखो। शाकिर बनेगा कि काफिर यह आपके उपर निर्भर करता है। उपनिषद में वर्णित है प्रेम ही ईश्वर है। महात्मा बुद्ध की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जब कनिष्क का शासन था जब भारत की राजधानी पेशावर थी। बुद्ध करुणा और दया के प्रतिक थे। बौद्ध राज्य धर्म था और इसका असर सुफियॉ पर भी पड़ा। आज बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है जो गलत है। सीरिया, अफगानिस्तान और

ईरान के आस-पास इनका प्रचार-प्रसार था। आज वह पूरा क्षेत्र हिंसा के प्रभाव में है। मन सर्मापित नहीं तो पूजा पाठ भजन आश्रम दरबार का कोई मतलब नहीं है। आश्रम, कुटी सब मन लगाने का जरिया है। अगर पूजा में मन ही नहीं लगा तो पूजा व्यर्थ है। मन लगाने के लिए आश्रम या दरबार के निर्माण का कोई अर्थ नहीं है। किसी भी कार्य का होना कल्पना से निर्धारित होता है। सबसे पहले कार्य कल्पना के माध्यम से मनुष्य के मन में आकार लेता है। उन्होंने कहा कि भक्त जहां होंगे वहां कुटी बनती है। वगैर भक्त के कुटी का कोई मतलब नहीं है। पूर्व जीवन और इस जीवन की कल्पना से ही अलगा जन्म तय होता है। किसी आम के फल का मीठापन इसे कितना जल से सींचा गया उस पर निर्भर करता है। लेकिन सिर्फ इस वर्ष के जल से कितना मीठापन आया और विगत वर्ष के जल का कितना असर है यह बताने का ना तो कोई प्रकिया है न ही दुनिया में कोई मशीन इस जांच के लिए बनी है। कोलकाता कुटी के निर्माण के क्रम में गुरुदेव स्वामी शिवधर्मानंदजी ने भक्तों की रुचि को समझा और कुटी का निर्माण कराया। जब तक भक्तों का मन कुटी के प्रति नहीं लगा तब तक नहीं बना। लेकिन 1999 में आश्रम के पूरे होने के पूर्व उन्होंने शरीर छोड़ दिया। पशु पंथी का जीवन तय है। उन्हें कल्पना से कोई लेना देना नहीं है। संसार में मनुष्य ही कल्पना करता है। इसी कल्पना के माध्यम से वह गुरु से भी मिलता है आश्रम भी बनाता है और भक्ति मुक्ति का प्रयास करता है। लेकिन गुरु अगर गृहस्थ होगा तो उसकी सेवा नहीं हो सकेगी। सेवा के लिए अपनापन आवश्यक है लेकिन गृहस्थ गुरु का मन अपने परिजनों में भी लगा होता है।

फिनांस के लिए क्रेडिट प्रोग्राम



अवगत कराते हुए कहा की बैंक के पास जमा, ऋण एवं अनुषंगी सेवाओं से संबन्धित विभिन्न उत्पादों की लंबी शृंखला है। परंपरागत बैंकिंग के साथ साथ आधुनिक बैंकिंग की सेवायें सेंट्रल बैंक में मौजूद है। युवा शक्ति को भारत के भविष्य के रूप में स्थापित करने के लिये

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया राँची क्षेत्र के द्वारा शुक्रवार को वित्तीय सेवाओं के लिए मेगा क्रेडिट कैम्प ह्वका आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पटना अंचल के आंचलिक प्रमुख श्री डी पी खुराना के हाथों किया गया। इस अवसर पर सभी ग्राहकों का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय प्रमुख सुनील कुमार ने कहा की, सेंट्रल बैंक हमेशा से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करता आया है जिससे ग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ हो।

कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए अंचल प्रमुख डी पी खुराना ने सभी उपस्थित ग्राहकों को बैंक की अन्य योजनाओं के बारे में

स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक के लिये शैक्षणिक ऋण की सुविधा उपलब्ध है। व्यवसाय करने एवं उद्योग स्थापित करने के लिये कई ऋण योजनायें मौजूद हैं। इसके बाद ग्राहकों के बीच ऋण की स्वीकृति पत्र का वितरण किया। इस अवसर पर कुल 115 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करीब 200 लाभुकों में किया गया। राँची में आयोजित इस कार्यक्रम के अंत में मुख्य प्रबंधक श्री विजय वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन कर सभी को विराम दिया। इस अवसर पर उप क्षेत्रीय प्रमुख श्री प्रभांत देशपांडे, मुख्य प्रबंधक आलोक कुमार, पीयूष मोदी, मनीष कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री अमित कुमार के द्वारा किया गया।

युवाओं के लिए दूसरे बी हब की शुरुआत आइआइटी के साथ

बिहार स्टार्टअप को मजबूती प्रदान करने के लिए मौर्या लोक के बाद दूसरा बी हब पटना के फ्रेंजर रोड स्थित बिहार राज्य वित्तीय निगम की बिल्डिंग में प्रारंभ होने वाला है। उद्योग विभाग और बिहार स्टार्टअप फंड ने बिहार राज्य में प्रारंभ हो रहे इस दूसरे बी हब के संचालन की जिम्मेदारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के इनव्यूवेशन सेंटर को सौंपी है। इस आशय के सहमति पत्र पर उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक डॉ टी एन सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर बिहार सरकार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक, योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणोश चावला और सूचना प्रौद्योगिकी के अपर मुख्य सचिव संतोष कुमार मल्ल उपस्थित रहे। इस मौके पर विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करने में बी हब की विशेष भूमिका है।



इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में बिहार देश का अग्रणी राज्य है। स्टार्टअप उद्यमियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नए को वर्किंग स्पेस के प्रारंभ हो जाने पर स्टार्टअप सिस्टम और मजबूत होगा। फ्रेंजर रोड स्थित कॉमन वर्किंग सेंटर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और कुछ दिनों में ही पूरा काम हो जाएगा। इसके बाद स्टार्टअप उद्यमियों को इस कॉमन

वर्किंग सेंटर पर आकर काम करने का मौका मिलेगा। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक ने कहा कि स्टार्टअप के संबंध में जागरूकता फैलाने तथा युवाओं का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से पूरे राज्य में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिहार स्टार्टअप की कुल टीम हर जिले में जाकर जागरूकता कार्यक्रम चला रही है।


पुलिस बल की कमी हे मानस ! समृद्धि का परिचायक है कर्जदार होना



उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि बिहार में पुलिस-जनसंख्या का स्वीकृत अनुपात 115.08 है जबकि पश्चिम बंगाल के लिए यह आंकड़ा 160.76 है। मंत्री के जवाब में दिए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों की स्वीकृत संख्या 181.75, जबकि वास्तविक संख्या 133.86 है। इसी तरह गुजरात में यह 174.39 (स्वीकृत) और 127.82 (वास्तविक), मध्य प्रदेश में 147.23 (स्वीकृत) और 121.76 (वास्तविक), महाराष्ट्र में 186.36 (स्वीकृत) और 138.45 (वास्तविक), ओडिशा में 147.76 (स्वीकृत) और 122.59 (वास्तविक), राजस्थान में 139.81 (स्वीकृत) और 120.39 (वास्तविक) तथा तमिलनाडु में 171.95 (स्वीकृत) और 154.25 (वास्तविक) है। यह विधि व्यवस्था को लेकर बड़ी चिंता का विषय है।

मनीष कुमार चौधरी

जीवन जीने के सारे तौर-तरीकों को आजमाने के बाद एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जो मजा कर्ज यानी लोन लेकर जीने में है, वह और किसी में नहीं। कर्ज हर मर्ज की दवा है। जब पूरा देश ही कर्ज के बोझ तले दबा पड़ा है और हर सरकार इतना दबने के बाद भी मजे कर रही है तो मेरे देश के भले आदमी, तू ही क्यों पीछे रहे। जब तू वैसे ही कर्ज में लिपटा पड़ा है तो थोड़ा कर्ज और सही। इसी से तेरी समृद्धि और स्टेटस बढ़ रहा है तो लोन लेने में लज्जा कैसी! कंपनी तेरे लिए थैली खोल रही है और आगे बढ़कर कह रही है कि ले ले भैया ले ले...। इससे ज्यादा तू और क्या चाहता है। जब ब्याज का हिसाब कंपनी नहीं लगा रही तो तुझे लगाने की क्या जरूरत है। आम खा पेड़ मत गिन। तेरी बारी तो अब आयी है। इतने दिन तक तो तू पेड़ ही गिन रहा था। विद्वान और साहित्यकार कर्ज



से बड़े चिढ़ते थे। मुंशी प्रेमचंद को लें। वे ऋण लेने को पाप के समान मानते थे। उनका मानना था कि कम खा लो, पर कर्ज मत लो। उनकी कथा-कहानियों के पात्रों ने जरा-सा कर्ज लिया और कभी कर्ज निपटा ही नहीं पाये। आपको एक राजी की बात बताऊं। मुंशी जी कर्ज लेना तो चाहते थे, पर उन दिनों हाजीरों परसेंट ब्याजहू की सुविधा पर फाइनेंस करने वाला कोई न था। साहूकार मूल से ज्यादा ब्याज की गणना करता था। सो प्रेमचंद कर्ज



बढ़ ली इकोनोमी आगे! आदमी खाने की जगह जोड़ता ही रहेगा तो देश की उत्पादकता कैसे बढ़ेगी।अरे भले मानुष! यह जीवन है। यहां बिना लिए-दिए किसका काम चला है। पेड़ आपको फल दे रहा है तो बदले में बीज, खाद, पानी भी तो ले रहा है। सारे बैंक लाइन लगाए खड़े हैं। लोन देने वाला खुलकर दे रहा है तो अपना दिल भी बड़ा रखिए, खुलकर लीजिए। हमारे दादा-परदादा तो कर्ज के लिए तरस गए। खूब चाहते थे कि कर्ज मिले, पर कोई सोर्स नहीं।

कोई स्कीम नहीं। कोई गिफ्ट-शिफ्ट नहीं। सो पूरी जिन्दगी दाल-रोटी, कुर्ते-पायजामे में निकाल दी। लोन की महिमा है कि बच्चा पैदा ही लोन से होता है। अच्छे प्राइवेट नर्सिंग होम में पैदा हुआ बच्चा मेंडिकल लोन की देन है। यानी पैदाइश लोन से, पालन-पोषण लोन से, शिक्षा लोन से और जीवन बीमा की किस्तें भी लोन से। क्या लीला है लोन की।

अगर आप के शौकीन हैं लेकिन आम को खाने से इसलिए दूर भाग रहे हैं क्योंकि आपको लगता है आम खाने से वजन बढ़ता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल रह रहकर तैर रहा है तो जानिए इस सवाल का जवाब। गर्मी के मौसम में बाजार में सबसे ज्यादा आम मिलता है। आम ना केवल बाकी फलों से देखने में अलग होता है बल्कि इसका स्वाद भी एकदम अलग होता है। खास बात है कि आम की कई वैरायटी बाजार में आती है और हर एक वैरायटी के आम का स्वाद एक दूसरे से अलग होता है। आम का इस्तेमाल ना केवल फल के तौर पर बल्कि इसका इस्तेमाल चटनी, आम पना और शोक के रूप में भी किया जाता है। इसमें पुचर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और कैल्शियम होता है। कई लोगों को लगता है कि आम खाने से वजन बढ़ने लगता है। अगर आपको भी ये लगता है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आम को खाने से वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता है। आम वसा, सोडियम और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। यानी कि इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता है, लिहाजा इसका सेवन करने से वजन नहीं बढ़ता है। आम में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। इस वजह से ये आंखों

आम खायें वजन घटायें

के लिए फायदेमंद रहता है। इसलिए अगर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो आम जरूर खाएं। 2. स्वाद में लजीज होने के अलावा आम बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें फाइबर और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। 3. आम में कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स भोजन को तोड़ने का काम करते हैं जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होने में सहायता मिलती है। 4. ये बात जानकर आपको हैरानी होगी की आम का सेवन करने से वजन को भी घटाया जा सकता है। दरअसल, आम की गुठली में मौजूद रेशे शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने में असरदार हैं। इसके साथ ही आम का सेवन करने से भूख भी कम लगती है क्योंकि इससे काफी देर तक पेट भरा रहता है। 5. अगर आम बहुत गला हुआ है तो उसके गुदे को भी आप चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे चेहरे पर निखार आता है। 6. क्या आप जानते हैं आम यादशत को भी बढ़ाने में मददगार है। इसमें ग्लूटामिन एसिड नाम का तत्व पाया जाता है। ये तत्व यादशत को बढ़ाने का काम करता है। 7. आम लू से बचाव करता है। अगर आप एक गिलास आम का पना पीकर घर से बाहर निकले तो आपको लू से बचाने में मदद करेगा।

हिसा का विरोध...



साभार कॉटन म्यूमेंट

योग से अपने तन-मन को करें स्वस्थ और प्रसन्न



स्वामी मुकरजी

21 जून को हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस मनाने की शुरुआत भारत में हुई और धीरे-धीरे इसे कई देशों ने अपनाया। योग तन और मन दोनों को सेहतमंद रखता है। कुछ योगासन ऐसे भी होते हैं जो पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से राहत दिलाते हैं। योग को अपने दैनिक अभ्यास में शामिल करें तभी इसका फायदा मिल सकता है। आज हम आपको बताएंगे महिलाओं के लिए कुछ खास आसन जो आपको पीरियड के दर्द में आराम देंगे।



सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। घुटनों को मोड़ें और दोनों पैरों को योन की ओर लाएं। दोनों हाथों से अपने दोनों पांव को कस कर पकड़ लें। सहारे के लिए अपने हाथों को पांव के नीचे रख सकते हैं। लंबी, गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए घटनों एवं जांघो को जमीन की तरफ दबाव डालें। तितली के पंखों की तरह दोनों पैरों को ऊपर नीचे हिलाना शुरू करें। धीरे धीरे तेज करें। सांस लें और सांस छोड़ें। शुरुआत में इसे जितना हो सके उतना ही करें। धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाएं। उच्छ्वास: इस आसन को करने ले लिए अपने योग मैट पर घुटने के सहारे बैठ जाएं और कुल्हे पर दोनों हाथों को रखें। घुटने के समानांतर हो तथा पैरों के तलवे आसमान की तरफ हो। सांस लेते हुए मेरुदंड को खींचें जैसे कि नाभि से जांघों को खींचें।

उच्छ्वास: इस आसन को करने ले लिए अपने योग मैट पर घुटने के सहारे बैठ जाएं और कुल्हे पर दोनों हाथों को रखें। घुटने कंधो के समानांतर हो तथा पैरों के तलवे आसमान की तरफ हो। सांस लेते हुए मेरुदंड को खींचें जैसे कि नाभि से जांघों को खींचें। गर्दन पर बिना दबाव डालें बैठें रहें। इसी स्थिति में कुछ सांस लेते रहे। सांस छोड़ते हुए

अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। हाथों को वापस अपनी कमर पर लाएं और सीधे हो जाएं।

माजारी आसन: माजारी आसन एक आगे की ओर झुकने और पीछे मुड़ने वाला योग आसन है। कैट वॉक दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन हम योग आसन वर्ग में कैट पोज के बारे में चर्चा करते हैं। यह आसन आपके शरीर के लिए अनेक प्रकार से लाभदायक है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को एक अच्छा खिंचाव देता है, इसके साथ यह पीठ दर्द, कमर दर्द और गर्दन दर्द में राहत दिलाता है।

पश्चिमोत्तानसन - सबसे पहले जमीन पर बैठ जाएं। अब दोनों पैरों को सामने फैलाएं, पीठ की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और नाक को घुटने से सटाने की कोशिश करें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। फिर पुरानी अवस्था में लौट आएं।

संस्थापक
स्व. डॉ अभय कुमार सिंह

वृन्दा मीडिया पब्लिकेशन्स
प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक, प्रकाशक

मंजू सिंह

द्वारा चिरोई, बोडैया रोड, रांची
(झारखंड) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

संपादक
अविनाश ठाकुर*

फोन : 94313-55233
पिन: -834006

e-mail
khabarmantra-city@gmail.com

R.N.I.No.
JHAHIN2013/5/1797

*पीआरबी एक्ट के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी। प्रकाशित खबरों से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा रांची न्यायालय में ही होगा।



स्पीड न्यूज

सैटिक टंकी में मिला बच्ची का शव

कुजु। शनिवार की सुबह घर के बाहर खेल रही डेढ़ वर्षीय बच्ची का शव पड़ोस के गिरधारी महतो के निमाणधीन आवास के सैटिक टंकी शम को मिला। शव के मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। बताया जाता है शाम में परिजनों द्वारा खोजबीन किया जा रहा था। इसी बीच उनकी नजर सैटिक टंकी पर पड़ी। जहां बच्ची का शव दिखा। परिजनों ने शव को बाहर निकाला। साथ ही इसकी जानकारी पुलिस को दिया। कुजु ओपी प्रभारी विनय कुमार व अनि चेतन कुमार ने घटना स्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया।



मेरु में एक ही घर चार लोग बने शिक्षक

दारु। रांची के खेलगांव में स्नातक प्रशिक्षित उच्च विद्यालय में शिक्षक के पद में नियुक्त अभियंतियों को नियुक्ति पत्र मिला। मेरु से एक ही घर की दो बहू सहित चार अभियंतियों को नियुक्ति पत्र मिला। नीलम सरिता और रश्मि रानी दोनों गोतनी है इनके परिवार में एक साथ दो बहू की नौकरी होने से पूरे परिवार में खुशी की लहर है। सुनीता कुमारी और सनी पासवान को भी नियुक्ति पत्र मिला जिससे सभी के परिवारों के बीच काफी खुशी देखी गई। सनी पासवान को बरही प्लस टू हाई स्कूल नीलम सरिता को प्रोजेक्ट हाई स्कूल बरही रश्मि रानी को चंदवारा में पोस्टिंग हुई है।



पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने कराया भंडारा

हजारीबाग। पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने विगत दिनों परिवार के वृद्ध जनों के साथ चार धाम की यात्रा की थी जिस के उपलक्ष में दिन शुक्रवार को उनके हजारीबाग स्थित आवास में पूजा अर्चना की गई तथा भंडारे का आयोजन किया गया। विधायक अंबा प्रसाद एवं पूर्व विधायक निर्मला देवी ने आए अतिथियों का सत्कार किया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी हजारीबाग के अध्यक्ष शैलेंद्र यादव, मनोज नारायण भगत, तैलक साहू समाज के राजेंद्र साहू, बड़कागांव प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष हाजी तबस्सुम, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विशेश्वर नाथ चौबे, सुरेश महतो, अंकित राज, अर्जुन सोनी, उमाशंकर कुमार, गोवर्धन साहू, रवि साव, धीरेंद्र साव, पवन साव, खेमलाल साव, शाशंक शेखर रवि कुमार, पत्रकार दीपक सिन्हा, संजय सागर, आनंद कुमार, मोहन करमाली समेत कई लोग मौजूद थे।

बिजली बिल ब्याज माफ़ी को लेकर लगेगा कैंप

हजारीबाग। झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण बिजली बिल ब्याज माफ़ी योजना के तहत एकमुश्त समाधान योजना को लेकर बिजली बिल, ब्याज माफ़ी का लाभ आमजनों को दिलाने के लिए विद्युत प्रमंडल हजारीबाग के द्वारा सभी प्रखंडों में शिविर लगेगा। इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर शनिवार को उपायुक्त आवासीय परिसर से उपायुक्त नैसी सहाय ने ऊर्जा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ सभी प्रखंडों में जाकर इस योजना का लाभ लेने की अपील करेगी। कार्यपालक अभियंता बिजली विभाग ने बताया कि डीपीएस की माफ़ी का लाभ एक मुस्त जमा योजना के तहत शहरी/ग्रामीण घरेलू तक के उपभोक्ताओं को डीपीएस माफ़ी का लाभ 30 जून तक दिया जाएगा, प्रखंडवार विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे कैंपों के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस योजना में शहरी/ग्रामीण घरेलू तक के उपभोक्ताओं को डीपीएस माफ़ी का लाभ 30 जून तक दिया जाना है, जिसके लिए 31 मई तक प्रखंडवार विहित स्थानों पर शिविर लगेगा।

इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने संमाला पदभार

बड़कागांव। बड़कागांव सर्फिल इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह के तबादले के बाद नए इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने शनिवार को बड़कागांव सर्फिल इंस्पेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने कहा कि अपराधिक छांटों की समीक्षा की जाएगी केस का निष्पादन करने पर ध्यान दिया जाएगा, अपराधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी, अवैध कारोबार पर रोक लगाने की निरंतर कार्य जारी रहेगा।



लोहसिंधना थाना प्रभारी बने विपिन यादव

कटकमदाग। लोहसिंधना थाना प्रभारी अरविन्द कुमार सिंह के तबादले के बाद नए इंस्पेक्टर विपिन कुमार यादव ने शुक्रवार को कटकमदाग थाना प्रभारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान विपिन कुमार यादव ने कहा कि अपराधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी, अवैध कारोबार पर रोक लगाने की निरंतर कार्य जारी रहेगा। जन सहयोग की भी अपेक्षा रहेगी।



2000 के नोट बाहर होने पर लोगों ने अलग-अलग दी प्रतिक्रिया

खबर मन्त्र संवाददाता

हजारीबाग। केंद्र सरकार ने 2 हजार के नोट रोक लगाने की घोषणा कर जनता को एक बार फिर चौंका दिया है। पूर्व में सरकार 8 नवंबर 2016 के बाद फिर एक बार नोटबंदी की घोषणा से माफियाओं और काले धन वालों को नौद उड़ा दी है। आइए जानते हैं क्षेत्र के प्रमुख लोगों की राय।

पूर्व कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रंजित यादव सरकार पर निशाना साधते हुए



कहा-कालेधन पर लगेगा लगाम

कहा कि नोटबंदी दिग्भ्रमित करने वाला निर्णय है। 2024 में बहुत कुछ चलन से बाहर किया जा सकता है। सरकार के इस फैसले को निंदा करता हूँ।

विधायक प्रतिनिधि किशोरी राणा: सरकार द्वारा 2 हजार रुपये के नोट बंदी की घोषणा से कालेधन जो काफिरियों के पास जमा है, उस पर नकेल कसा गया है। इस पर सरकार ने जो कदम उठाया है यह



कहा-कालेधन पर लगेगा लगाम

परिषद सदस्य मंजू नंदिनी : सरकार का यह कदम जमाखोरों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। काला धन वालों पर यह सरकार का बहुत बड़ा एक्शन है। काला धन जमा पर पाबंदी लगाने से देश का विकास होगा।



एक महीने तक महासंपर्क अभियान चलायेगी भाजपा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा के नौ वर्ष पूरे होने पर होगा कार्यक्रम

खबर मन्त्र संवाददाता

रामगढ़। फोरलेन हाथमारा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में शनिवार को पार्टी जिलाध्यक्ष प्रवीण मेहता की अध्यक्षता में जिला कार्यसमिति की बैठक हुई। बैठक में पर्यवेक्षक एवं मुख्य अतिथि के रूप में बोकारो विधायक विरंची नारायण शामिल हुए। वहीं, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद रविंद्र राय, प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधायक जेपी भाई पटेल, पूर्व सांसद सह प्रदेश कार्यसमिति सदस्य यदुनाथ पांडे, प्रदेश प्रवक्ता अविनेश सिंह, पूर्व बीससूत्री उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, रामगढ़ प्रभारी शशिभूषण भगत, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सह भाजपा रामगढ़ के पूर्व प्रत्याशी रणजय कुमार उर्फ कुटू बाबू मौजूद थे। कार्यक्रम का मंच संचालन महामंत्री प्रो.खिरोधर साहू ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा के नौ वर्ष पूरे होने



के अवसर पर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम निर्धारित है। कार्यक्रम को रामगढ़ जिला में सफल बनाने हेतु बैठक में विशेष रूप से चर्चा की गई। विरंची नारायण सहित मंचासीन अतिथियों ने सर्वप्रथम महापुरुषों की तस्वीर पर पुष्पांजलि एवं सामूहिक राष्ट्रीय गान किया। विधायक ने कहा कि आज झारखंड की परिस्थिति ऐसी है की लोकसभा चुनाव के साथ अगर विधानसभा चुनाव भी हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री सहित सत्ता पक्ष के कई नेता ईडी के घेरे में आ रहे हैं। कहा की

भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। इसलिए संभव है की लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हों। कहा कि 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में पार्टी देश भर में महा-सम्पर्क अभियान एक माह तक चलाएगी। जिसके तहत लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों से अवगत करावते हुए यह भी जानकारी दी जाएगी की विश्व स्तर पर देश का प्रभाव बढ़ा है और पूरी दुनिया में भारत को सम्मान मिल रहा है। इसके लिए सभी मंडलों में 24 मई तक बैठक आयोजित किया जाना है।

पतरातू में उपायुक्त ने निर्माणाधीन पुलों और कल्याण गुरुकुल का किया निरीक्षण

रामगढ़। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने शनिवार को रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डीएमएफटी के तहत निर्माणाधीन पुलों एवं कल्याण गुरुकुल का निरीक्षण किया। डीएमएफटी के तहत पतरातू प्रखंड अंतर्गत टोकीसूद क्षेत्र में मगरदाह नदी एवं बीचा छेत्र के एतीयातु में दादुल घाट पर बन रहे पुल के निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने अब तक हुए कार्यों का जायजा लिया जिसके उपरांत उपायुक्त ने जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराते हुए पुल का संचालन आम जनों के लिए शुरू करने का निर्देश दिया। कल्याण गुरुकुल का निरीक्षण कर उपायुक्त ने गुरुकुल के माध्यम से युवतियों/महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान संचालक द्वारा उपायुक्त को जानकारी दी गई कि कल्याण गुरुकुल के माध्यम से युवतियों/महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देने के उपरांत उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। इस संबंध में उपायुक्त ने ज्यादा



से ज्यादा प्रशिक्षित युवतियों/महिलाओं को प्रशिक्षण के उपरांत उनके क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध कराने हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। साथ ही उपायुक्त ने कल्याण गुरुकुल में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेते हुए केंद्र के सुचारु रूप से संचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, प्रखंड विकास पदाधिकारी पतरातू, डीएमएफटी टीम के सदस्यों सहित अन्य उपस्थित थे।

रामगढ़ में पानी की किल्लत से लोग परेशान

खबर मन्त्र संवाददाता

रामगढ़। मई में लगातार बढ़ रहे तापमान से शहर वासी काफी परेशान है। उपर से शहर में लचर पेयजलापूर्ति ने लोगों की मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। लचर पेयजलापूर्ति से से आक्रोशित शहर वासी छावनी परिषद से इसपर ध्यान देने की मांग करते हुए पेयजलापूर्ति में तत्काल सुधार की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को विवश होंगे। इस संबंध में शहर के वार्ड नंबर दो निवासी गीता देवी ने कहा की छावनी परिषद द्वारा पेयजलापूर्ति के लिए पाइप बिछा हुआ है, लेकिन वह केवल देखने के लिए है। उन्होंने कहा की हम लोग पेयजलापूर्ति के लिए बावजूद इसके वार्ड नंबर दो के हमारे क्षेत्र में पेयजलापूर्ति की आपूर्ति बंद है। जिससे हम सबों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं, अनिल कुमार ने कहा कि इस तपती गर्मी में पेयजलापूर्ति के बंद होने से हमारी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा की यह स्थिति तब है जबकि हम सभी पानी के लिए नियमित रूप से बिल जमा कर रहे हैं। पर हमारे क्षेत्र में पेयजलापूर्ति नहीं की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा की हमारे क्षेत्र में लगे चापानलों ने भी जवाब दे दिया है।

छावनी परिषद द्वारा पेयजलापूर्ति के लिए पाइप बिछा हुआ है, लेकिन वह केवल देखने के लिए है : गीता देवी



जिससे हम सबों की मुश्किल और भी अधिक बढ़ गई है। अनिल ने कहा की परिषद हमारे क्षेत्र में पेयजलापूर्ति में सुधार कर समस्याएं दूर करे। अन्यथा हम सभी आंदोलन को विवश होंगे।

सार्वजनिक पोस्टों में नही आ रहा पानी : वहीं, पेयजलापूर्ति को लेकर वार्ड नंबर 2 के कई लोगों ने बताया की पेयजलापूर्ति के लिए हम नियमित बिल अदा कर रहे हैं। फिर भी लंबे अंतराल से हमारे क्षेत्र के घरों एवं सार्वजनिक पोस्टों में पानी आ ही नहीं रहा है। वार्ड नंबर 2 के लोगों ने कहा की इसको लेकर यदि हम छावनी परिषद से शिकायत करते हैं तो एक-दो दिन पानी आ जाता है। इसके बाद पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। लोगों ने कहा की गर्मी के इस भीषण प्रकोप के बीच यदि छावनी परिषद ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो हमें आंदोलन को विवश होना पड़ेगा।

पानी की समस्या जल्द दूर करे प्रबंधन : सतीश

भुरकुंडा (रामगढ़)। अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को भुरकुंडा परियोजना अंतर्गत वाटर फिल्टर प्लांट का दौरा किया। इस दौरान संघ के केंद्रीय महासचिव सह सीसीएल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य सतीश सिन्हा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल गर्मी में बढ़ते पानी की समस्या को लेकर भुरकुंडा फिल्टर प्लांट पहुंचे। साथ ही रिभर साईड सिविल पानी टंकी एवं झर्री में जाकर पंप-मोटर का निरीक्षण किया। जहां पंप को खराब पाया गया। मौके पर सतीश सिन्हा ने कहा कि रिभर साईड कॉलोनी डैम के पानी पर निर्भर है। डैम का पानी नहीं मिलने पर इसका वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में झर्री से अलग सप्लाई की व्यवस्था की जाए। ताकि गर्मी में लोगों को पानी की समस्या से जूझना न पड़े। उन्होंने कहा कि ओइड भुरकुंडा के कॉलोनियों में भी पंप खराब रहने के कारण पानी नहीं मिल पा रहा है। नये पंप के लिए हेडक्वार्टर एवं महाप्रबंधक बरका-सयाल से बात करूंगा।

पीवीयूएन ने कटिया बाजार में चलाया स्वच्छता अभियान

भुरकुंडा। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान के चौथे दिन शनिवार को पीवीयूएन ने कटिया बाजार में साफ-सफाई अभियान चलाया। पीवीयूएन के अधिकारी, कर्मचारी, मुखिया व अन्य जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर बाजार में स्वच्छता

अभियान चलाया। लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। साथ ही कटिया बाजार के दुकानदारी, व्यवसायियों व आमजनों से आसपास के क्षेत्रों में कूड़ा-कचरा न डालने की अपील करते हुए पर्यावरण स्वच्छ बनाने में हर संभव सहयोग करने की बात कही।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, MINOR IRRIGATION DIVISION, KODERMA	
e-Procurement Tender Notice	
Tender Reference No:- WRD/MID/KODERMA/F2-07/2023-24	
Date:- 20.05.2023	
1.	Name of the Work Renovation of Tharki Aahar, Village- Tetarchak, Block- Chandwara
2.	Estimated Cost (Rs.) Rs. 54,293 Lakh
3.	Time of Completion 11 Months
4.	Date of Publication of Tender on Website 06.06.2023 at 3:00 P.M
5.	Last Date/Time for Submission of bids 13.06.2023 up to 5:00 P.M
6.	Date of Opening of e-Tender 15.06.2023 at 3:00 P.M
7.	Name & address of office Inviting Tender Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Koderma
8.(a)	Contact no. of Procurement officer E-mail 9939945761
(b)	e-Procurement officer ecmidkod-cemr-jbr@nic.in
9.	Helpline number of e-procurement cell 0651-2214784
10.	Last Date of receipt of bids fee, security and other documents 14.06.2023 up to 3:00 P.M
At office of 1. Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Koderma. 2. Superintending Engineer, Minor Irrigation Circle, Hazaribagh. 3. Executive Engineer, Minor Irrigation Design Division, Ranchi.	

Note: - Only e-Tender will be accepted. Further details can be seen on website <http://jharkhandtenders.gov.in>

PR.NO.297916 Minor Irrigation(23-24):D Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Koderma.

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पलामू

ई0टेन्डर अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना ई0-निविदा संख्या-EE/RDSD/PALAMA0-01/2023-24

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Amount of Earnest Money	Cost of Tender Paper	Time Completion of Work
1.	प्रखंड पाकी के पंचायत माडन के ग्राम कदावाड में कंदाखंड नाला पर पुलिया निर्माण।	4998194.00	100000.00	5000.00	03 माह।
2.	प्रखंड वैनाय के पंचायत कदुवल के ग्राम कदुवल में प्रदुमन सिंह के घर से लेकर सामुदायिक भवन तक पीपी0सी0 पथ निर्माण।	2397197.00	48000.00	5000.00	02 माह।

- वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि :- 08.06.2023
- ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :- 14.06.2023 अपराह्न 5.00 बजे तक।
- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पलामू के प्रतिनिधि द्वारा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय परिसर में के कार्यालय में निविदा शुल्क, अग्रपन की राशि, शाय, पत्र के मूल प्रति एवं अपलॉड किये गये योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि एवं समय 15.06.2023 को अपराह्न 3.00 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय 16.06.2023 अपराह्न 2.00 बजे।
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पलामू।
- ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0-9304798195
- निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट / बैकर्स चेक के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पलामू के पास में, जो भारतीय स्टेट बैंक अलतनगंज शाखा में भुगतिये होगा जो लौटया नहीं जायेगा।
- निविदादाता के यू-केन रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी अपलोड करना अनिवार्य है।
- Form of Bid and Bill of Quantity में दर निम्न रहने पर संबंधित निविदादाता की निविदा अमान्य समझा जायेगा।
- प्राकल्पित राशि घट-बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रपन की राशि देय होगी।
- विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट Jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल पलामू

PR 297888 (Rural Development)23-24*D

उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालय, गुमला (मन्रेगा कोषांग)

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रांची के पत्रांक (N)543(अनु0) दिनांक 21.04.2023 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मन्रेगा के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण फलदार पौधों एवं पत्रांक (N)824(अनु0) दिनांक 22.07.2021 के आलोक में इमारती पौधों के क्रय हेतु झारखण्ड राज्य में अवस्थित स्थानीय NHB (National Horticulture Board) द्वारा निष्पत्ति नर्सरियों जिसके पास झारखण्ड राज्य अन्तर्गत GST No. हो, से निम्न शर्तों के आधार पर पौधों की आपूर्ति के लिए दर निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-

सभी निविदाएं डब्लिआका प्रणाली (Double Envelope System) के अनुसार डाली जायेगी। निविदादाता एक लिफाफे पर साफ-साफ शब्दों में तकनीकी बीड लिखकर उसमें निविदा के साथ मांगे गये कागजात एवं प्रमाण पत्र (अग्रपन राशि का बैंक ड्राफ्ट सहित) डालेंगे एवं उसे मुहरबंद करेंगे तथा उस पर अपना नाम एवं पता साफ-साफ लिखेंगे। दूसरे लिफाफे पर साफ-साफ शब्दों में वित्तीय बीड लिखकर उसमें नर्सरी के नाम एवं पता के साथ दर (प्रति पौधा) संबंधी कागजात डालेंगे एवं मुहरबंद करेंगे। उस लिफाफा में दर के अलावा कोई अन्य कागजात नहीं डाला जायेगा। तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड के दोनों लिफाफे के एक अन्य लिफाफे में डालकर मुहरबंद करेंगे एवं उस पर बड़े अक्षरों में NHB रजिस्टर्ड अंकित करने के साथ नर्सरी का नाम, पता, दूरभाष संख्या अंकित करेंगे।

इच्छुक आवेदक/ निविदादाता द्वारा सीलबंद लिफाफे में निविदा दिनांक 30.05.2023 को 11.30 बजे पूर्वाह्न तक उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी तथा दिनांक 30.05.2023 को 12.30 बजे अपराह्न में निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

नोट :- पौधा आपूर्ति से संबंधित निविदा के विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी गुमला जिला के वेबसाइट gumla.nic.in पर देखा जा सकता है।

उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला

PR 297940 Rural Development (23-24)_D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चतरा

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा सूचना संख्या :- RDD/SD/CHATRA/19/2022-23/RE-1

क्र0 सं0	पुष्प सं0	कार्य का नाम	प्राकल्पित राशि	अग्रपन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	03	चतरा जिला के प्रखंड किमिया, ग्राम-कुसुमवाडी के माना नदी पर पुल निर्माण।	4,81,23,800.00	9,63,000.00	10000.00	18 माह

- वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि :- 27.05.2023
- ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :- 27.05.2023 से 06.06.2023 के अपराह्न 05.00 बजे तक
- निविदा शुल्क एवं अग्रपन की राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय :- 10.06.2023 अपराह्न 05.00 बजे तक
- निविदा शुल्क एवं अग्रपन की राशि जमा करने का स्थान :-
i) जिला नियंत्रण कक्ष, चतरा।
ii) जिला नियंत्रण कक्ष, हजारीबाग।
iii) मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, एफ0एफ0पी0 भवन पुर्वा, रांची।
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चतरा।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 12.06.2023 के अपराह्न 02.00 बजे
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चतरा।
- ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0-8709184201 (संबंधित कार्यपालक अभियंता का दूरभाष नम्बर)
- निविदा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चतरा के पदनाम से देय हो देना होगा।
- परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रपन की राशि देय होगी।
- विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पत्र पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चतरा।

PR.NO.297894 Rural Development(23-24):D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, हजारीबाग

ई-अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

ई-अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या - RDD/SD/HZB/02/2023-24

क्र0 सं0	आईई-टी0किरण संख्या / पुष्प संख्या	कार्य का नाम	प्राकल्पित राशि	अग्रपन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	अभ्युक्ति
1	RDD/SD/HZ B.02/2023-24	हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही प्रखंड में पंचायत दुलमहा के लेलोडीह एवं बुडीडीह के बीच देवनाया नाला पर पुल निर्माण।	47161700.00	944000.00	10000.00	12 माह	

- वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि :- 25.05.2023 पूर्वाह्न 11.00 बजे
- ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक 25.05.2023 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दिनांक 06.06.2023 को अपराह्न 5.00 बजे तक।
- निविदा शुल्क एवं अग्रपन की राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 07.06.2023 अपराह्न 05.00 बजे तक।
- निविदा शुल्क एवं अग्रपन की राशि जमा करने का स्थान :-
i) ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, हजारीबाग
ii) जिला नियंत्रण कक्ष, हजारीबाग
iii) e-procurement cell, मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, एफ0एफ0पी0 भवन पुर्वा, रांची।
- निविदा शुल्क एवं अग्रपन की राशि जमा करने की तिथि एवं समय 07.06.2023 अपराह्न 05.00 बजे तक।
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, हजारीबाग।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 08.06.2023 अपराह्न 2.00 बजे।
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, हजारीबाग।
- ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0- 9431923435
- निविदा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, हजारीबाग से देय हो देना होगा।
- परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रपन की राशि देय होगी।
- विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पत्र पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, हजारीबाग

PR 297937 Rural Development(23-24).D

स्पीड न्यूज

सांता पब्लिक स्कूल का रिजल्ट 100%

मुमला। सांता पब्लिक स्कूल शास्त्री नगर का सीबीएसई मैट्रिक सत्र 2022-23 का रिजल्ट शत प्रतिशत रहा। डायरेक्टर हेमंत कुमार ने बताया कि प्रत्येक सत्र की भांति इस वर्ष भी 2022-23 में शत प्रतिशत रिजल्ट रहा। इससे स्कूल में खुशी की लहर है। एनिम अभीयय एक्का व अभिषेक उराव स्कूल के टॉपर रहे। स्कूल में इन्हें सम्मानित किया गया। निदेशक ने कहा कि स्कूल में क्लास बेवी नर्सरी से क्लास 9 तक का फ्री नामांकन जारी है।

25 को निकाला जायेगा मशाल जुलूस

मुमला। पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति सिसई प्रखंड की बैठक शनिवार को प्रखंड के मापी बगीचा में सुनील कुमार भगत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 25 मई को पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति द्वारा आहुत मशाल जुलूस को सफल बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में लालमोहन साहु, ललित साहु, मनोज वर्मा, गणेश साहु, सुनील कुमार, सुदेश साहु, इजहार अंसारी, मनान अंसारी, सुनिता देवी, सावित्री देवी, चंद्रकला देवी, राजती देवी उपस्थित थे।

जीपीडीपी में योजना संधारित करें : बीडीओ



सेन्हा-लोहरदगा। प्रखंड मुख्यालय स्थित कार्यालय कक्ष में बीडीओ अशोक कुमार चोपड़ा की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधि एवं प्रखंड कर्मियों के साथ योजना संधारण को लेकर बैठक हुई। जिसमें बीडीओ ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं को ऑनलाइन योजना पोर्टल पर पंचायत के सभी योजना को जीपीडीपी योजना के अंतर्गत संधारण कर लें। आने वाले दिनों में जीपीडीपी के राज्य स्तरीय डायरेक्टर निशा कुमारी 22 मई को जनप्रतिनिधि और प्रखंड कर्मियों के साथ सेन्हा प्रखंड स्थित सभागार में बैठक कर पंचायत में चल रहे योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौके पर बीपीओ निलेश कुमार, मुखिया कमला देवी, दिलीप कुमार, अनिल उराव, बसंती उराव, धनबाज उराव भी उपस्थित थे।

डीसी ने की बिरसा योजना की समीक्षा

लोहरदगा। उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में शनिवार को बिरसा समेकित विकास योजना अंतर्गत कृषक पाठशाला एवं बिरसा ग्राम के डीपीआर से संबंधित बैठक समाहरणालय सभागार में हुई। जिसमें सितिजन फाउंडेशन ने डीपीआर संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी। बैठक में उप विकास आयुक्त समीरा एस, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी के अतिरिक्त सितिजन फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सारथी योजना से प्रशिक्षित होंगे बेरोजगार

सेन्हा-लोहरदगा। सेन्हा प्रखंड मुख्यालय के समीप मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कोशल जागरूकता अभियान चला। शनिवार को शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को बताया गया कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। जिससे रोजगार प्राप्त कर जीवन को स्वावलंबी और समृद्ध बनायें जिससे जीवन बेहतर होगा। शिक्षित युवक-युवतियों को 3 माह का प्रशिक्षण रांची में दिया जायेगा। जिसमें बालिकाओं को सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर, नर्स, बीयूटीशियन का प्रशिक्षण टाटीसिल्वे में दिया जायेगा। युवकों को इलेक्ट्रॉनिक, आईटीआई, सोलर, मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डिंग के अलावे अन्य तरह का प्रशिक्षण रांची स्थित खेलमार्ग में दिया जायेगा। मौके पर अनिल पांडे एवं कृष्णा पाठक थे।

126 किमी साइकिल यात्रा कर किया जागरूक

मुमला। मिशन मेरी लाइफ के तहत 46 झारखंड बटालियन एनसीसी गुमला कमान अधिकारी कर्नल नवीन कुमार ने पर्यावरण सुरक्षा एवं प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण का आह्वान की कड़ी में शनिवार को दूध संख्या 18 डीएवी पब्लिक स्कूल के कैटेडरस ने साइकिल रैली निकाली। यह एक जागरूकता रैली थी। जिसके तहत कैटेडरों ने लोगों को पॉलीथीन के कम उपयोग करने और उसकी जगह कपड़े के थैले का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। कैटेडरों ने परमवीर अलबर्ट एक्का स्टेडियम, ब्लॉक कॉलोनी शास्त्रीनगर तेलगांव, करौंदी होने हुए कुल 126 किलोमीटर की समेकित यात्रा की। मौके पर डीएवी गुमला के प्राचार्य डॉ रमाकान्त साहु, सहायक एनसीसी अधिकारी अभिजीत झा, कैटेडर प्रीति कुमारी, नील मिश्रा, सुधि प्रिया, सूर्याश चौधरी, अक्षय वंश प्रसाद, शिवम मेहता, किसलय मिश्र, आर्य गुप्ता, आर्यन राज, अतुलिका राज, विनीत आनंद, आयुष उराव, हर्षित तीर्की, सुहानी कुमारी, यशवंत, ऋषिकेश उराव भी थे।

बच्चों के तीन दिवसीय समर कैंप का समापन

मुमला। शिक्षा विभाग व अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बेंदोरा कलस्टर के हर्न स्कूल में आयोजित तीन दिवसीय ग्रीष्मकालीन शैक्षणिक समर कैंप का समापन हुआ। राजकीय प्राथमिक विद्यालय हर्न में आयोजित समर कैंप में संकुल संसाधन केंद्र बेंदोरा के शिक्षकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कैंप के क्रम में बच्चों के बनाये शिक्षा पर आधारित चित्रांकन, आर्ट बाल अखबार को प्रदर्शित किया गया। अतिरिक्त दिव्य बच्चे, शिक्षक व ब्लॉक के बीपीओ ने अपने अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा किया। समर कैंप के तीनों दिन विषय आधारित गतिविधि हुई। जिसमें कक्षा एक से तीन के बच्चे संख्या समझ पर काम करते हुए पिछले के खिलौनों को बनाकर उसमें रंग भर प्रदर्शित किया। कक्षा चार व पांच के बच्चों को पहले दिन दोस्ती की कहानी को सुनाया गया दूसरे दिन कहानी के चित्रों पर बातचीत करते हुए इसी थीम पर कैंप के अंतिम दिन नाटक का मंचन किया।

■ विधायक सरयू राय ने इस अभियान में सहयोग करने वालों के प्रति जताया आभार
■ देवनंद दामोदर महोत्सव गंगा दशहरा कार्यक्रम 2023 को लेकर शिशु मंदिर बड़की चापी कुडु में दामोदर छावाव समिति की हुई बैठक

खबर मन्त्र संवाददाता

कुडु/लोहरदगा। देवनंद दामोदर महोत्सव गंगा दशहरा कार्यक्रम 2023 को लेकर शिशु मंदिर बड़की चापी कुडु के दामोदर बचाव आंदोलन लोहरदगा, युगांतर भारतीय सिंदरोल रांची एवं लातेहार जिला का संयुक्त बैठक हुई। बैठक का शुभारंभ दामोदर बचाव आंदोलन के केन्द्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री झारखंड सरकार विधायक जमशेदपुर पूर्वी सरयू राय के द्वारा माता सरस्वती एवं भारत माता की चित्र पर



कार्यक्रम को संबोधित करते विधायक सरयू राय और कार्यक्रम में उपस्थित लोग।

पुष्पापण कर किया। मौके पर सरस्वती का जल आज भी स्वच्छ और निर्मल है। वहां का पानी पीने से अभी भी पेट की कई तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। श्री राय ने कहा कि अब गंगा दशहरा कार्यक्रम पर दामोदर नद को स्वच्छ करने में मदद करने वालों का चुल्हापानी से लेकर चंद्रवा तक तो

कभी भी गन्दगी थी ही नहीं चुल्हापानी का जल आज भी स्वच्छ और निर्मल है। वहां का पानी पीने से अभी भी पेट की कई तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। श्री राय ने कहा कि अब गंगा दशहरा कार्यक्रम पर दामोदर नद को स्वच्छ करने में मदद करने वालों का चुल्हापानी से लेकर चंद्रवा तक तो

से लोगों का धन्यवाद / आभार यात्रा निकालकर धन्यवाद देंगे। सलगी एवं चापी पंचायत को को आदर्श पंचायत सरकार से बनाने की मांग करेंगे। उन्होंने बताया कि जब मैं पहली बार 2004 में चुल्हापानी आया था तब ना सड़क थी ना बिजली यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को पता तक

युवती हत्याकांड का पुलिस ने किया उदमेदन, साइकिल, दुपट्टा और मोबाइल बरामद

प्रेमी ने ही की थी प्रेमिका की हत्या, अभियुक्त धराया, जेल

खबर मन्त्र संवाददाता

मुमला। पालकोट पुलिस ने कुंदा दामर पहाड़ में हत्या कर युवती के शव को फेंके जाने के मामले का उद्भेदन कर लिया है। हत्याकांड में शामिल अभियुक्त पालकोट थाना क्षेत्र के कोडेकेरा गांव निवासी मृतका का प्रेमी सोमरा मुंडा (20) को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कांड में प्रयुक्त साइकिल, गला घोटने में प्रयोग किया गया दुपट्टा व एक मोबाइल बरामद किया है। पालकोट थाना पत्रिसर में प्रेस कान्फ्रेंस करते हुए



गिरफ्तार अभियुक्त के साथ एसडीपीओ वह अय।

एसडीपीओ विकास आनंद लागुरी ने बताया कि घटना के बाद एसपी के निर्देश पर मेरे नेतृत्व में कांड का अनुसंधान के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। गठित टीम मामले का अनुसंधान करते हुए घटना में शामिल अभियुक्त सोमरा मुंडा को

खास बातें : 18 मई को वह पंजाब से लौटकर अपनी फुवा के घर पालकोट थाना क्षेत्र के मरोटाली में रुका था और शाम में नृतक तारखुनी कुमारी की सहेली को फोन कर उसे बात कराने की बात कही। नृतका से बात होने पर उसे न ले जाने की बात कहकर तयार रहने कहा। जिसके बाद रात लगभग साढ़े दस बजे अपने फुवा की साइकिल से नृतका को लेने कांडेकेरा गांव पहुंचा। जहां नृतका पहले से तयार थी। हम दोनों पैदल चलते हुए कुंदा दामर पहाड़ पहुंचे। जहां उसे मेरे फुवा के घर चलने की बात कही तो वह झंकार कर शादी का दबाव देने लगी और शादी नहीं करने पर जान से मरवा देने की बात कही। इन बातों से गुस्सा में आकर उसके दुपट्टे से नत्ता घांट कर मार डाला।

पत्रकार पर गोली चलाने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन

पत्रकारों ने निकाली आक्रोश रैली

खबर मन्त्र संवाददाता

धनबाद। धनबाद जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आज दिन पत्रकार पर झूठा मुकदमा, जन से मारने की धमकी, ऐसे कई मामले को लेकर आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पत्रकारों ने हाथ पर हाथों में तख्तियां लिए और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने का मांग किया है आपको बताते चले कि विगत दिन बलियापुर के रहने वाले प्रवीर महतो को अज्ञात अपराधी के द्वारा गोली मार



दी गई थी। इसी मामले को लेकर शनिवार को जिले के पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर झरिया से आक्रोश रैली निकाला जो झरिया धनबाद बैंक मोर

होते हुए रणधीर वर्मा चौक पर सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। इस आक्रोश रैली में धनबाद के पत्रकार झरिया प्रेस क्लब के पत्रकार कतरास प्रेस क्लब के

पत्रकार बलियापुर सिंदरी के पत्रकार शामिल हुए एवं सभी ने एक स्वर में धनबाद जिला प्रशासन के खिलाफ कोयला माफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं पत्रकार पर गोली चलाने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। इसको लेकर पूरे जिले के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। इस प्रदर्शन में काँग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रागनी सिंह धनबाद भाजपा विधायक राज सिन्हा तथा कई भाजपा के लोग शामिल हुए।

सत्ता नहीं, विकास के लिए काम करती है भाजपा : गणेश मिश्रा

>> जिला भाजपा कार्यसमिति की बैठक



खबर मन्त्र संवाददाता

मुमला। कठिन त्याग और तपस्या से भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनो है। 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही भी है लेकिन हमें एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना है। उक्त बातें शनिवार को बालको डोडी स्थित रोड धर्मशाला में आयोजित भाजपा जिला कार्यसमिति की बैठक में

पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश मिश्र ने कही। उन्होंने कहा पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं विकास के लिए कार्य करती है। देश की गरीब जनता का उद्धार ही मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। 12004 से 2014 तक देश में संप्रदायिक दंगा आतंकवादी हमला हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ। देश के लोगों का भरोसा हुआ।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, गया जेल

मुमला। भरनो पुलिस ने शनिवार को नरकोपी थाना क्षेत्र के बिल्डी कमलटोली के अव्वार अंसारी (19) को जेल भेज दिया। आरोपी 12 वर्षीय नाबालिग को प्रेमजाल में फंसा कर भगाने की फिराक में था। परंतु ग्रामीणों ने भरनो थाना क्षेत्र के अमलीया जंगल में उसे आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ कर पहले तो जमकर धुसा। फिर भंडरा थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। जानकारों के अनुसार भंडरा थाना क्षेत्र के एक गांव की एक नाबालिग के साथ आरोपी को ग्रामीणों ने भरनो थाना क्षेत्र के अमलीया जंगल में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था।

आयुर्वेद चिकित्सकों संग पिरामल स्वास्थ्य संस्था ने बनायी रणनीति

खबर मन्त्र संवाददाता

सेन्हा-लोहरदगा।

पिरामल स्वास्थ्य ने पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को जीवंत रखने के लिए पंचायत भवन सेन्हा में आदिवासी चिकित्सकों के साथ बैठक की। आयोजित पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सक बैठक में जनजातीय वैद्य संघ का गठन किया गया। जिसका नाम मां वनशक्ति जड़ी बूटी वैद्य संघ रखा गया है तथा संघ का गठन करते हुए वैद्य लक्ष्मण टाना

भगत को अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान पिरामल स्वास्थ्य के गुमला क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक विकास कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि जड़ी बूटी उपचार हमारी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद कि पारम्परिक चिकित्सा पद्धति जड़ी बूटियों के ज्ञान का विशाल भंडार जनजाति परंपरा है। जो बोली और भाषाओं में छिपा हुआ है।

सैकड़ों लोग पहुंचते हैं चुल्हापानी

जिला संयोजक बालकृष्ण सिंह ने कहा कि आगामी 29 मई को ही सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग चुल्हापानी पहुंचते हैं और रात को मजल करीब करते हैं साथ ही 30 मई को वंगा दशहरा का अवसर पर पूजा पाठ करते हैं और साथ ही मध्य मंडोर का आयोजन किया जाता है। बड़की चापि में बैठक के बाद सरयू राय ने लोहरदगा सॉफ्ट हइस आकर उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण से मुलाकात कर सलनी पंचायत एवं बड़की चापि पंचायत के समस्याओं को अवनत कराया साथ ही 30 मई को वंगा दशहरा कार्यक्रम में आने का निर्मात्र दिया। संचालन बालकृष्ण सिंह एवं

धन्यवाद ह्वापान युवुनंदन तिवारी ने किया। इस अवसर पर राजकिशोर महतो, धर्मद तिवारी, आशेष शीतल, बालकृष्ण सिंह, रामस्वरथ साहु, वीरेंद्र सिंह, आनंद जी रांवी, राजू सिंह, राजेंद्र यादव, मंदू केसरी, मनोज महतो, मनोष गुप्ता चंद्रवा, गृष्ण प्रसाद, बाहुलाल उराव गाम पंचायत समिति सदस्य सलनी, सीमा कुमारी मुखिया सलनी, मिरयुनंदन तिवारी, दुबराज वर्मा, सुभाष यादव, जयनारायण पंजापति, संजय वर्मा, विनोद सिंह, अजय पंकेज, विपिन भारती, सरजू साहु, मंगोहर नाई, वीरेंद्र उराव, लालनारी शंकर नाथ शाहदेव आदि मौजूद थे।

नहीं था कि वे लोहरदगा जिला में हैं या पलामू / लातेहार में आज यहां चार पहिया वाहन पहुंच रही है साथ ही बिजली गांव में जल रहा है। युगांतर भारतीय सिंदरोल के सचिव आशीष

शीतल ने कहा जल है तो कल है साथ ही पर्यावरण बचाना सबका उद्देश्य रहना चाहिए। ताकि आने वाले समय में हमें किसी तरह की समस्या से ना जूझना पड़े।

सांसद सुदर्शन भगत ने देखी रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों की हकीकत

खबर मन्त्र संवाददाता

लोहरदगा। लोहरदगा स्टेशन पर हो रहे विकास कार्य का अवलोकन करते हुए लोहरदगा लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत कहा कि लोहरदगा और अन्य जिलों के लिए लाफ लाइन मानी जाने वाली लोहरदगा टू रॉली रेल लाइन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं। केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे विभाग लगातार शहरी के साथ-साथ ग्रामीण लोगों की यात्रा को सुविधा युक्त एवं सरल बनाने के लिए लगातार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है उसमें हमारा जिला लोहरदगा भी शामिल है आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही राजधानी भी इस स्टेशन में रकेगी। इसके नियमित रेलवे स्टेशन लोहरदगा,



कार्यक्रम की खास बातें : शेड एवं आयरन खिज विद्युत सज्जा का कार्य हो रहा है। स्टेशनों पर स्वच्छता का ख्याल रखा जाए इसकी धिता विभाग एवं हम आम नागरिक को भी करनी पड़ेगी। स्टेशन पर गाड़ी से आने जाने के कम तक शुल्म शौचालय का नियमित खुला रहे ताकि यात्रियों को असुविधा न हो इसके लिए भी स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों ध्यान देने की बात कही। साथ ही रेलवे अधिकारियों से प्रतिपालय स्वच्छ एवं साफ हो इसकी भी ख्याल रखने की बात कही। मौके पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से सांसद ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे की वर्तमान स्थिति को पूछा और खराब रहने पर सुदृढ़ता के लिए अधिकारियों से संहानन में देकर ठीक कराने की बात कही। मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य ओमप्रकाश सिंह, जिलाध्यक्ष मनोहर उराव, पूर्व अध्यक्ष राजकिशोर महतो, बालकृष्ण सिंह, राजकुमार वर्मा, अजय पंकेज, पशुपतिनाथ पारस, सजल कुमार, प्रकाश नायाक आदि मौजूद थे।

नगजुआ, टांगरबंसली और पिरका रहे हैं। प्लेटफार्म के दायरे बढ़ाये पर बड़े पैमाने पर कार्य किये जा जा रहे हैं पटरिया बिछाई जा रहे है।

पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति की बैठक 21 को

लोहरदगा। राज्य के लोहरदगा सहित सात जिलों में पिछड़ी जाति के आरक्षण को शून्य करने के विरोध में 21 मई रविवार को समय संघ्या 3 बजे पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति लोहरदगा की एक आवश्यक बैठक होटल नॉर्वेल्टी पारवर्गज लोहरदगा में रखी गयी है। बैठक में पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति केन्द्रीय कमटी के द्वारा आगामी 25 मई की संघ्या मसाल जुलूस और 26 मई को बंदी की घोषणा को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा और लोहरदगा जिला पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के कार्यकारणी के नये पदाधिकारियों भी गहन किया जायेगा। बैठक में पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के केन्द्रीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। जानकारी रोहित साहू ने देते हुए सभी पिछड़ा वर्ग के सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों से इस बैठक में उपस्थित होने की अपील की है।

रोजगार सूजन को लेकर सेन्हा में हुई कार्यशाला

सेन्हा-लोहरदगा। सेन्हा प्रखंड क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सैकिकाओं की एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला की गयी। इस दौरान बाल विकास कार्यालय के एलएस अमनी बेक एवं परसुनी देवी की उपस्थिति में रोजगार सूजन पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। साथ ही 18 से 35 वर्ष के सभी युवक एवं युवतियों को 3 माह का निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार से जुड़ने हेतु प्रचार प्रसार करने की बात कही गई। साथ ही इस्कु शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। और 20 मई को प्रखंड परिसर में आयोजन कैंप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाने की बात पंचायत क्षेत्र के इस्कु उम्मीदवार को सूचनाय हेतु भी जानकारी आंगनबाडी सैकिकाओं को दिया गया। साथ ही बताया गया कि एसजीआरएस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रांची के तत्वधान में रोजगार सूजन हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। मौके पर एल एस अग्नि बेक, परसुनी देवी अनिल कुमार पांडेय जिला रिस्कल मैनेजर एवं ब्लॉक कोडिनेटर सहित सभी आंगनबाडी केंद्र के सैकिकाएं शामिल थे।

लोहरदगा डीसी ने किया कोच को सम्मानित

लोहरदगा। उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण द्वारा जिले के छह खेलों के कोच को जिला स्थापना दिवस पर खेलों के बेहतर आयोजन के लिए सम्मानित किया गया। इसमें क्रिकेट कोच अमित कुमार, पुलिस/ आर्मी/ एथलेटिक्स प्रशिक्षक विनय उराव, फुटबॉल कोच अनिकेश कुमार, कुश्ती कोच महादेव उराव, डे बॉर्डिंग एथलेटिक्स कोच नम्रता भगत और फुटबॉल कोच विजय महतो शामिल हैं। उपायुक्त द्वारा सभी कोच को जिला के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित किया। मौके पर एसडीओ अरविंद कुमार लाल और जिला खेल पदाधिकारी अभिनीत कुमार सूरज उपस्थित थे।



हुसैनाबाद के झरगड़ा में नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मानवता को शर्मसार करने वाली घटना : सांसद

खबर मन्त्र संवाददाता

मैदिनीनगर। पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड के ग्राम पंचायत झरगड़ा में 16 वर्षीय अनुसूचित जाति की नाबालिग छात्रा (कक्षा 9वीं) के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाय, कम होगा। सांसद विन्ध्यदयाल राम ने प्रशासन से अखिलंब दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को कहा है। 18 मई को उक्त नाबालिग छात्रा के परिजन एक शादी समारोह में शामिल होने सतबन्ही गए हुए थे तथा घर में छात्रा अकेली खाना बना रही थी। उक्त सूचना पाकर ग्राम झरगड़ा के



जिले के शासन-प्रशासन पर भी बदनुमा दाग है। उक्त पीड़ित परिवार के द्वारा नामजद अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक अभियुक्त को ग्रामीणों ने ही पकड़ कर पुलिस के हवाले किया है। आज महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। सांसद राम ने उक्त मामले में झारखंड के डीजीपी, जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अखिलंब कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। अखिलंब दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए मामले की जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कष्ट करे। इस कांड में दोषियों को एसी सजा मिले, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पूनरावृत्ति समाज में न हो सके।



अपने आसपास, दोस्तों-संबंधियों के यहां देखने को मिलता है कि कई लोग हर छोटी-बड़ी बीमारी का इलाज स्वयं शुरू कर देते हैं। इस इलाज का आधार होता है इंटरनेट के सर्च इंजन और पूर्व में परिवार के किसी और सदस्य को हुई समान लक्षणों वाली बीमारी के लिए चिकित्सक द्वारा दी गई दवाई और या दवाई की पर्ची। हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की शारीरिक संरचना, उसकी आवश्यकता, उसके शरीर पर दवाइयों का प्रभाव अलग-अलग होता है। यह भी कि एक विशेष दवाई या रसायन के प्रति, हर व्यक्ति का शरीर भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया करता है।

दवाओं का सामान्य ज्ञान जरूरी

यह अच्छी बात भी है कि आज की युवा, शिक्षित पीढ़ी, इंटरनेट की कृपा से चिकित्सीय परीक्षण, उपचार पद्धति और औषधियों के विषय में काफी जागरूक है। रोगों और दवाइयों के विषय में सामान्य जानकारी होना एक सकारात्मक गुण है। आज जिस तरह से

चिकित्सा सेवाओं और शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है। ऐसे में चिकित्सक को भी थोड़ा व्यावसायिक होना ही पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में आपको रोगों, दवाइयों और चिकित्सा परीक्षणों की सामान्य जानकारी होना अति आवश्यक है, ताकि आपका या आपके रोगी का हॉस्पिटल और चिकित्सकों द्वारा अनावश्यक शोषण न किया जा सके।

चिंतनीय पहलू

सामान्य जानकारी होना सकारात्मक ही कहा जायेगा परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप स्वयं डॉक्टर बन, परिवार के लोगों को दवाई देने लग जाएं। स्व औषधि प्रयोग का आज जो सबसे खतरनाक और चिंतनीय पहलू हमारे सामने आ रहा है, पिछले वर्ष एक समाचार के अनुसार मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एंटीबायोटिक दवाओं के सबसे बड़े अध्ययन के अनुसार वर्ष 2019 में दुनिया भर में 12 लाख से अधिक लोग मौत के ग्रास बन गए जिसका कारण एंटी-माइक्रोबियल रेसिस्टेंस

डाक्टर से सलाह से दवाई लेने में ही है भलाई



(एमआर) या दवाइयों का अप्रभावी होने को माना गया है। इससे बीमारियों का उपचार कठिन हो जाता है तथा मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।

एंटीबायोटिक प्रतिरोध

एक शोधकर्ता टीम के अनुसार, वर्ष 2019 में दुनिया भर में लगभग 60 लाख लोगों की मृत्यु का प्रत्यक्ष या परोक्ष कारण एंटी-माइक्रोबियल रेसिस्टेंस (एमआर) रहा। यह आंकड़ा मलेरिया और एड्स से होने वाली मौतों से बहुत अधिक है।

उपरोक्त रिपोर्ट का सार यह है कि पूरी दुनिया एंटीबायोटिक की इस सीमा तक आदी हो चुकी है कि अब बहुत से बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक अप्रभावी हो चुकी है।

और अगर यही रफ्तार रही तो हम बहुत जल्द ही पुराने वाले दौर में पहुंच जाएंगे। ऐसे में मेडिकल साइंस की प्रगति व्यर्थ साबित हो

सकती है।

खुद ही डाक्टर!

चिकित्सकों की पुरानी पंचियों के आधार पर रोगी सीधा मेडिकल स्टोर से ऐसी दवाइयां ले रहे हैं। चिकित्सक एंटीबायोटिक्स की खुराक की मात्रा रोगी की आयु तथा वजन के अनुसार निश्चित करते हैं तथा एक निश्चित अवधि के लिए दवाई लेनी होती है। अगर आप ठीक हो भी गए हैं तब भी आपको डॉक्टर द्वारा बताई गई अवधि तक यह दवाई लेनी होगी। इसका कारण है कि यह शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता के लिए जरूरी है। परंतु आज लोग एंटीबायोटिक्स वर्ग की दवाइयों के साथ जैसे मजाक-सा कर रहे हैं। जब मर्जी होती है एंटीबायोटिक्स लेना आरंभ कर लेते हैं, जैसे ही थोड़ा आराम होने लगता है, एंटीबायोटिक दवाई लेना बंद कर देते हैं। जिसका परिणाम होता है रोग के सूक्ष्मजीवों का एंटीबायोटिक के प्रति

प्रतिरोधात्मक हो जाना। अगर भविष्य में उसी रोग के जीवाणु शरीर पर फिर हमला करते हैं तो यह एंटीबायोटिक अब इन जीवाणुओं पर प्रभावी नहीं रहेगी। अब उससे अधिक शक्तिशाली एंटीबायोटिक दवाई लेनी पड़ेगी।

नयी-नयी एंटीबायोटिक

पहले जहां गिनी-चुनी एंटीबायोटिक्स होती थी, अब प्रतिदिन नयी-नयी एंटीबायोटिक ईजाद की जा रही हैं। और अगर यही स्थिति रही तो मनुष्य का शरीर धीरे-धीरे सभी एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो जायेगा और एंटीबायोटिक दवाई, रोग के जीवाणुओं पर प्रभावी नहीं रह पाएंगी। अतः आज हमें इस बात को समझना होगा कि स्व-औषधि का चलन और अनुसरण हमारे शरीर पर कुप्रभाव ही डालेगा। दवाइयों से होने वाली एलर्जी भविष्य में घातक रूप ले सकती है। अतः दवाइयों का सेवन, अन्य खाद्य पदार्थों की तरह नहीं किया जाना चाहिए। चिकित्सक की सलाह से ही दवाइयों का सेवन किया जाना चाहिए।

बदलते लाइफस्टाइल में लोगों के शौक में भी काफी बदलाव आया है। लड़कियां हो लड़के अपनी बाड़ी को परफेक्ट दिखाने के चक्कर में हर मुमकिन काशिश कर रहे हैं। लड़के में सिक्स पैक एक्स चाहिए तो वहीं लड़कियों को सेक्सी फिगर, जिसमें ब्रेस्ट

और बट गोथ काफी मायने रखती है।

अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां अपने बट और ब्रेस्ट को खूबसूरत शोप देने के लिए सर्जरी का सहारा लेती हैं, इसमें पैसा का अच्छा खर्चा लग ही जाता है साथ ही कई

तरह के रिस्क भी उठाने पड़ते हैं। परन्तु आप घर बैठे आसान से व्यायाम करके बिना सर्जरी अपने बट को खूबसूरत और परफेक्ट शोप दे सकती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी आसान सी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, जिनको आप भी ट्राई कर सकती हैं।

अपने शरीर को वेस्ट लुक दें, करें रोज एक्सरसाइज

लार में चमत्कारिक गुण न मिटायें

जब आप सुबह उठकर बिना कुछ के पानी पीते हैं तो रात भर जो मुंह में जमा लार होता है वो पानी के साथ मुंह से पेट में चला जाता है जो पेट के लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होता है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें शुरू से ही एक गिलास पानी पीने की आदत डालनी चाहिए और बड़े को तीन गिलास पीने की। पानी को बैठ कर धीरे-धीरे पीना चाहिए। मुंह की लार एक ऐसी चमत्कारिक दवाई है जो कितनी ही परेशानियों को कुछ ही दिनों में ठीक कर देती है।

इसके क्या-क्या हैं फायदे

1. अगर आप सुबह-सुबह उठ कर अपने मुंह की लार जले हुए निशान पर लगाएंगे तो ऐसा करने से कुछ समय में दाग मिटने लगेंगे।
2. आंखों के नीचे काले घेरों पर सुबह की मुंह की लार से मालिश करें। धीरे धीरे ये काले घेरे ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसको लगातार 2 महीनों तक ऐसा ही करें।
3. डायबिटीज के रोगियों को जहां चोट लगी है वहां सुबह की लार लगाए घाव जल्दी भरने लगेंगे। शुगर के मरीजों का घाव बहुत ही मुश्किल से ठीक होता है। इसलिए यह उनके लिए एक कारगर उपाय है।
4. जब आंख आती है तो काफी दर्द होता है और आंखों से पानी भी आता है। ऐसे में अगर आप आंख पर लार लगाएंगे तो 24 घंटों के अंदर आंख सही हो जाती है।
5. आंखें कमजोर पड़ने पर सुबह उठ के काजल की तरह लार लगाएं। ऐसा करने से आंखों की रोशनी तेज होती है और चश्मा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
6. जिन लोगों के दाद हो गया हो वे भी इस लार को प्रतिदिन सुबह उठते ही बिना कुछ किए लगाएं। दाद देखते ही देखते छूमंतर हो जाएंगे।



कमर दर्द से बचने के उपाय, 70 प्रतिशत महिला-पुरुष कमरदर्द से परेशान

कमर दर्द की शिकायत आजकल अधिकतर सभी को ही सुनने को मिलती है। कई बार ये समस्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये गंभीर रूप धारण कर सकती है। इस दर्द के पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे कई औरतों को तो डिस्कोवरी के बाद यह शिकायत अक्सर ज्यादा होती है। कुछ लोग जो ऑफिस में जाँव करते हैं, उनका वहां पर लगातार बैठ कर काम करना भी एक बड़ा कारण होता है। आज हम कुछ ऐसे ही उपाय बता रहे हैं जिससे आपको ये समस्या कुछ



1. ऑफिस में लगातार काम के स्ट्रेस में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि ब्रेक लेना भूल जाते हैं। हर एक घंटे में कुछ मिनट का ब्रेक जरूर लें। इससे कमर को थोड़ा आराम मिलेगा।
2. कमर में दर्द होने पर नारियल या सरसों के तेल में लहसुन की तीन-चार कलियों को काला होने तक गर्म करें। जब ये गुनगुना हो जाए तो इससे कमर की मालिश करें। आपको आराम मिलेगा। इस तेल को लगाने के बाद हवा में न ही जाए।
3. जब भी आप कुर्सी पर बैठें तो झुककर न बैठें। गर्दन सीधी रखें और कमर को सीधा रखने के लिए कुर्सी के पीछे मोटा तौलिया लगाएं, इससे आराम मिलेगा। खास करके यदि आप ऑफिस में जाँव करते हैं तो बैठने का तरीका बदलें।
4. नर्म गद्देदार सीटों पर बैठने से बचें। अगर अक्सर ही कमर दर्द की शिकायत रहती है तो मुलायम की जगह सख्त गद्दे पर सोएं।
5. थोड़ी-थोड़ी देर बाद ब्रेक लें और टहलने के लिए जाएं। इससे कमर दर्द तो ठीक होता ही है साथ ही वजन भी कंट्रोल रहता है। ज्यादा समय एक ही पोजीशन में बैठने से बचें।
6. अजवाइन को थोड़ी देर धीमी आंच पर सेंक लें और टंडा होने पर इसे चबाते हुए निगल जाएं। इसे खाने से कमर दर्द में राहत मिलती है।

आजकल हर जगह अधिकतर मिलावटी चीजें ही मिलती हैं। जिससे कुछ भी खरीदते वक्त मन में यह डर लगा रहता है कि खरीदी हुई चीज असली है या नकली। खासतौर पर देसी घी। देसी घी तो हड़ियों का चूरा, पशुओं की चर्बी, पाम तेल, और कुछ अन्य खतरनाक केमिकल्स को मिलाकर नकली घी तैयार किया जाता है। जिसके हमें न जाने कितने भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लेकिन आपकी इस बड़ी परेशानी को आज हम कुछ आसान तरीकों से सुलझा देंगे।


नकली घी खाने से बचें



1. एक चम्मच घी में 5 **मिलावटी घी जानने के तरीके** 3. बाउल में एक-एक चम्मच हाइड्रोलॉरिक एसिड घी, हाइड्रोलॉरिक एसिड और एक डालें। अगर घी लाल हो जाता है तो समझ जाए कि घी में कोलतार डाली मिलाई गई है।
2. एक चम्मच घी में चार-पांच डॉल्स आयोडीन मिलाने पर इसका रंग नीला हो जाए तो समझ जाए कि इसमें उबला आलू मिलाया गया है।
- बुटकी चीनी मिलाएं। अगर घी का रंग बदलकर लाल दिखाई दे तो समझ जाए कि इसमें काठडा मिला है।
4. थोड़ा सा घी लेकर हाथ में रगड़ें, फिर इसे सूंघकर देखें। अगर कुछ ही देर में इसकी खुशबू आनी बंद हो जाए तो समझ जाए कि यह मिलावटी है।

आंखों की झुर्रियों से बचाव

बढ़ती उम्र के साथ-साथ आंखों के नीचे बारीक लकीरें आना शुरू हो जाती हैं। आंखों के नीचे की झुर्रियों से खूबसूरत चेहरा भी फीका लगने लगता है। यदि आप इनकी शुरुआत में ही इन पर पूरा ध्यान देंगी तो ये जल्द ही खत्म हो जाती हैं। आंखों पर बहुत लंबे समय तक सीधी धूप न पड़ने दें क्योंकि इससे उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। बाहर निकलते समय धूप का चश्मा पहनें। **नारियल तेल** : नारियल के तेल की कुछ बूंदें लेकर धीरे से आंखों के आसपास मालिश करें। आंख के नीचे नारियल के तेल के निर्धारित उपयोग से त्वचा की बनावट में सुधार होता है और आंखों के नीचे पड़ने वाले घेरों को रोकने में मदद मिलती है आप नारियल के तेल में जैतून के तेल की कुछ बूंदों को मिलाकर भी अपनी त्वचा की मालिश कर सकते हैं। **रोजमेरी तेल** : झुर्रियों की जगह पर रोजमेरी तेल की कुछ बूंदें लगाएं और ऊपर की दिशा में मालिश करें। 15 मिनट के बाद धो लें। यह तेल आंखों के नीचे की झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। **खीरा** : त्वचा में नमी को कमी होने पर कभी-कभी आंखों के नीचे झुर्रियां हो जाती हैं। इन्हें ठीक करने के लिए खीरे का रस निकाल कर आंखों के आस-पास लगाएं। इससे त्वचा की नमी बनी रहेगी और झुर्रियां ठीक हो जाएंगी।



भोजन में बदलाव कई मायने में लाभकारी

सहमंद रहने के लिए अच्छे खानपान का होना बहुत जरूरी है। आजकल जहां कई लोग मोटापे से परेशान है तो वहीं कुछ कम वजन से परेशान रहते हैं। लोगों का सोचना है कि वजन बढ़ाना बहुत आसान है। फास्ट फूड का सेवन करके आसानी से वजन बढ़ जाता है लेकिन यह तरीका गलत है। वजन बढ़ाने के साथ स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो डाइट में इन चीजों को शामिल करें।

चीज

चीज में भरपूर मात्रा में वसा पाई जाती है जो वजन बढ़ाने में मददगार है। अपने खाने में चीज।

का इस्तेमाल करें। इससे स्वाद और वजन दोनों ही बढ़ेंगे।

सूखे मेवे

सूखे मेवों में पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। अपनी डाइट में बादाम, किशमिश और काजू आदि को शामिल करें।

वसा युक्त दूध

यह कैलोरी से भरपूर होता है। इसे ओटमील या फिर चॉकलेट डालकर पी सकते हैं। वजन बढ़ाने के लिए रोज 1 गिलास वसा युक्त दूध का सेवन करें।

आलू

आलू का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। लोग वजन कम करने के लिए इसे खाना बंद कर

देते हैं। वहीं, अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इसका सेवन करें। आलू को छिलके समेत खाएं। इसके छिलके में प्रोटीन अधिक होता है।

पास्ता

पास्ता टेस्टी होने के साथ पौष्टिक भी है। इसमें खनिजों मिलाकर पकाएं। इसे खाने से भी वजन बढ़ता है। इसमें आवश्यक पौषक तत्व होते हैं।

पास्ता टेस्टी होने के साथ पौष्टिक भी है। इसमें खनिजों मिलाकर पकाएं। इसे खाने से भी वजन बढ़ता है। इसमें आवश्यक पौषक तत्व होते हैं।

पान बहुत फायदेमंद है। यह स्किन और बालों की कई समस्याओं को दूर करता है। आइए जाने इसके ब्यूटी फायदे।

मुंह की बदबू

मुंह में आने वाली बदबू हमें दूसरों के सामने शिंमदा कर देती है। अगर आप भी इससे परेशान है तो खाना खाने के बाद पान के पत्ते का सेवन करें। इससे मुंह से बदबू नहीं आएगी।

पिपलस

पिपलस को दूर करने के लिए पान के पत्ते बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद तत्व पिपलस से राहत मिलते हैं। इसके पत्तों को पानी में उबाल कर काढ़ा बना लें। टंडा होने पर कटिन की पद से इसे



चेहरे पर लगाएं। ऐसा दिन में दो बार करें।

पसीने की बदबू

पसीने की बदबू से राहत पाने के लिए पान के पत्तों का इस्तेमाल करें। इसके पत्तों को उबाल कर जूस निकाल लें और इस जूस को नहाने के पानी में मिलाएं।

एलर्जी

स्किन पर एलर्जी होने पर पान के पत्तों का इस्तेमाल करें। पान

के पत्तों का रस निकालकर एलर्जी वाली जगह पर लगाएं। आप चाहें तो इसे नहाने के पानी में भी मिला सकते हैं।

झड़ते बाल

आजकल अधिकतर लड़कियां झड़ते बालों से परेशान रहती हैं। ऐसे में पान के पत्ते को नारियल तेल में मिक्स करके बालों में लगाएं। 1 घंटे बाद बालों को धो लें। हफ्ते में 2 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं।

शरीर की दुर्गंध से प्राकृतिक चीजों का उपयोग



शरीर की दुर्गंध दूर करने के लिए कई लोग डियो को इस्तेमाल करते हैं। सदिनों में तो इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती लेकिन गर्मियों में डियो लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार डियो खत्म हो जाए और कहीं बाहर पार्टी में जाना पड़े तो बहुत मुश्किल होती है। ऐसे में कुछ घरेलू चीजों का ही इस्तेमाल करके काम चलाया जा सकता है। इसके अलावा कई लोगों का डियो की सुगंध से सिर दर्द होने लगता है तो वह भी इन तरीकों से शरीर की दुर्गंध दूर कर सकते हैं। आइए जानिए किन घरेलू चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

रोजाना नहाने के समय अपनी पानी की बाल्टी में नींबू का रस मिलाएं। इस पानी से नहाने से सारा दिन फ्रेश फील करेंगे और बदबू भी दूर होगी। इसके अलावा अचानक कहीं बाहर जाना हो और डियो खत्म हो जाए तो नींबू को काटकर उसे

हैंड सैनीटाइजर

अंडरआर्म पर रगड़ना चाहिए। डियो की जगह हैंड सैनीटाइजर को भी

बेकिंग सोडा

अंडरआर्म पर लगा सकते हैं इससे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और बदबू नहीं आएगी। 2 चम्मच बेकिंग सोडा और समान मात्रा में कार्बन स्टार्च को मिलाकर अंडरआर्म पर लगाने से भी फायदा होता है। इससे दुर्गंध दूर हो जाती है। यह एक तरह का एस्ट्रिजेंट होता है जो चेहरे को साफ करने का काम करता है। यह एक खास तरह के फूल से बनता है जो काफी सुगंधित होता है। इसको भी डियो की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।



राष्ट्रीय नेत्रहीन फुटबॉल टूर्नामेंट में महिला और पुरुष वर्ग के खिलाब पर उत्तराखंड का कब्जा

- केरल और मेघालय की टीम कम्बः तीसरे और चौथे स्थान पर रही
- 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट संपन्न

खबर मन्त्र ब्यूरो

जमशेदपुर। दिव्यांग मार्गदर्शन ट्रस्ट और झारखंड ब्लाईंड फुटबॉल के तत्वाधान एवं इंडियन ब्लाईंड फुटबॉल फेडरेशन के मार्गदर्शन में आयोजित चार दिवसीय राष्ट्रीय नेत्रहीन फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 के चौथे व अंतिम दिन दर्शकों से भरे जमशेदपुर के टिनलेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। शनिवार को खेले गए महिला और पुरुष फाइनल मैच में उत्तराखंड ने दोनों ही संवर्ग में चैम्पियनशिप अपने नाम कर लिया जबकि महिला संवर्ग के उप विजेता खिलाब क्रमशः महाराष्ट्र और गुजरात ने जीता। समापन समारोह के कार्यक्रम के



उत्तराखंड की चैम्पियन महिला और पुरुष टीम के सदस्य।

तहत दिव्या दर्शन ट्रस्ट झारखंड जमशेदपुर की मेजबानी में आयोजित पुरुषों की सातवीं और महिलाओं की तीसरी राष्ट्रीय नेत्रहीन फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कोल्हान के डीआइजी अजय लिंगा की गरिमामय उपस्थिति में एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर के जाने-माने समाजसेवी सह व्यवसायी -



महिला खिलाड़ी को पुरस्कृत करते डीआइजी अजय लिंगा समाजसेवी शिवशंकर सिंह। साथ में भरत सिंह, श्रीतेजस के निदेशक शेखर दा आदि।

शेखर डे, समाजसेवी एवं शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भरत सिंह, निदेशक विकास भारती-फादर वीरेंद्र और समाजसेवी एवं क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष शिव शंकर सिंह की मौजूदगी में समारोह पूर्वक कार्यक्रम के तहत प्रातः 6:30 बजे से टूर्नामेंट के मैचों का शुभारंभ हुआ। मौके पर मुख्य अतिथि ने बॉल में किस शॉट लगाकर मैच का उद्घाटन किया। मौके पर सभी

चौथे दिन के फाइनल मैचों के परिणाम: पहला मैच : तीसरे और चौथे स्थान के लिए : केरला 5/2 मेघालय के बीच खेला गया। मैच का परिणाम खेल अग्रिम तक एक-एक गोल की बराबरी पर रहा। टाईब्रेकर के द्वारा मैच का निर्णय हुआ। टीम केरला ने टाई ब्रेकर में 02-01 के मुकाबले मैच जीतकर तीसरा स्थान अर्जित किया। प्रतिद्वंद्वी टीम मेघालय को चौथे स्थान से संतोषा करना पड़ा।

महिलाओं के फाइनल मैच
महाराष्ट्र बनाम उत्तराखंड
परिणाम : 00 गोल - 01 गोल
उत्तराखंड एक गोल से विजेता का खिलाब जीता। महाराष्ट्र उपविजेता रही।
तीसरा मैच : पुरुष वर्ग में फाइनल मैच : उत्तराखंड बनाम गुजरात।

स्कोर : 01 - 00
विजेता : उत्तराखंड
उपविजेता : गुजरात।
पुरुष और महिला वर्ग दोनों में ही बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए टीम उत्तराखंड में विजेता होने का गौरव हासिल किया। टूर्नामेंट के अलावा नगद 50000 रुपये दोनों ही वर्गों में मुख्य अतिथि द्वारा प्रदान किया गया।

टूर्नामेंट में व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर दिए गए पुरुष वर्ग के पुरस्कार
1. उमरते हुए पुरुष खिलाड़ी : तुषार कुमार, उत्तराखंड।
2. उमरते हुए पुरुष गोलकीपर : सुजीत पीएस, केरल।
3. पुरुष वर्ग में बेस्ट स्कोरर : किंगसन डी माराक, मेघालय और विष्णु बाघोला, गुजरात।
4. पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट : शिवम सिंह नेगी, उत्तराखंड।

में खिलाड़ियों आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दिया और भारतीय नेत्रहीन फुटबॉल के महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों को आगामी 'वर्ल्ड कप' एवं 'एशियन कप' प्रतियोगिता हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामना दिया। मौके

पर मंच का संचालन संजीव जे मैथ्यू और श्याम कुमार शर्मा ने किया। वही अतिथियों का स्वागत धीरज कुमार शर्मा अध्यक्ष, आयोजन समिति के अध्यक्ष- जे बेहरा और सचिव -राजकुमार सिंह ने किया। आयोजन के अंत में धन्यवाद ज्ञापन धीरज

कुमार शर्मा ने दिया। आयोजन समिति में डब्ल्यू रहमान, राकेश उरांव, डॉ मुजफ्फर अरशद, सुबोध चटर्जी, शंभू मुखी, उषेंद्र बानरा, नरेश कुमार, गोमिया सुंदी, गोपाल राव, डॉ विजय मोहन सिंह, नीलू सवैया एवं अन्य का विशेष योगदान रहा।



42 वीं पुण्यतिथि पर याद किये गये डॉ परमेश्वर दूबे 'शाहाबादी'



जमशेदपुर। भोजपुरी-हिन्दी कविता-गीत-नवगीत के यशस्वी रचनाकार स्वर्गीय डॉ परमेश्वर दूबे शाहाबादी जी की 42वीं पुण्यतिथि 20 मई को श्रद्धांजलि गोष्ठी का आयोजन गोलपुरी स्थित भोजपुरी भवन में संध्या 4:00 बजे से आयोजित हुई, जिसमें शहर के कवि, गीतकार और साहित्यकारों ने सर्वप्रथम शाहाबादी जी के तस्वीर पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धा सुमन के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस स्मृति गोष्ठी में साहित्य के क्षेत्र में शाहाबादी जी के अवदान की चर्चा की गई। गोष्ठी में साहित्यकार और चिंतनजनों द्वारा अपनी श्रद्धांजलि अपने संस्मरण सुना कर किया। साहित्यकार गंगा प्रसाद अरुण द्वारा उद्गार व्यक्त करते हुये उनके साथ बिताये पल की चर्चा करते हुये उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित चन्द्रेश्वर खा ने कहा कि- डॉ शाहाबादी जी हमलोगों के बीच नहीं हैं लेकिन हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि साहित्यकार कभी नहीं मरता, ओ अपने रचना धर्मिता से हमेशा जाना जाता है। उन्होंने पत्रिका लकीर पर भी अपना उद्गार व्यक्त किया कहा कि यह गुणवत्ता का युग है, साहित्यकार फौज नहीं बनाते। कार्यक्रम को साहित्यकार अरविंद विनोदी, डा अमर कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। इस स्मृति गोष्ठी के दौरान शाहाबादी जी को समर्पित भोजपुरी की अनिनयतकालीन पत्रिका लकीर के दसवें अंक का लोकार्पण उपस्थित साहित्यकारों द्वारा किया गया।

आज परसूडीह, बागबेड़ा क्षेत्र में सुबह 8 बजे से तीन घंटे गुल रहेगी बिजली

जमशेदपुर। रविवार 21 मई को 33 केवी करनडीह फीडर तथा 33 केवी जुगसलाई फीडर के दूसरे अंडर ग्राउंड केबल को चार्ज करने के लिए विद्युत शक्ति उपकेंद्र करनडीह तथा विद्युत शक्ति उपकेंद्र जुगसलाई के सभी 11केवी फीडर से विद्युत आपूर्ति सुबह 8.00 बजे से 11.00 बजे दिन तक बंद रहेगी। प्रभावित क्षेत्र हैं : करनडीह, परसूडीह, गवालापट्टी, हलुदबनी, मकदमपुर, बागबेड़ा घांटी, बागबेड़ा बस्ती, बरौदा चाली, हारबेगुड़ा, मतलाडीह, कीताडीह, गाराबासा, चौक बाजार, डिकोस्टा रोड, गौरीशंकर रोड एम00 स्कूल रोड, महतो पारा रोड, हिल व्यू , नया बाजार, गोशाला रोड, स्टेशन रोड, सदर हॉस्पिटल, गोशाला चौक, खासमहल, गोलपहाड़ी, युसिल ऑफिस, डिसेंरी रोड, घोड़ा चौक, गुदरी मार्केट इत्यादि।

बिष्टपुर महावीर मंदिर के समीप लगी अस्थाई अमृतधारा

जमशेदपुर। शनिवार को मारवाड़ी युवा मंच टाटानगर अचीवर्स शाखा द्वारा बिष्टपुर स्थित श्री महावीर मंदिर के समीप इस वर्ष की तृतीय अस्थाई अमृतधारा लगायी गयी। मौके पर शाखा अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता, सचिव अंशुल रिगासिया, कोषाध्यक्ष आदित्य जाजोदिया, विशु प्रसाद अग्रवाल, विकास अग्रवाल, अमित अग्रवाल, शिव चौधरी, अमित अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल आदि का योगदान रहा।

17 बरुआ का सामूहिक उपनयन संस्कार आज

शनिवार को मटकोर और हल्दी की रस्म पूरी भाई भोज भी

खबर मन्त्र ब्यूरो

जमशेदपुर। बदलते जमाने के साथ कदमताल करते हुए ब्रह्मर्षि समाज ने फिजुलखर्ची को धत्ता बताते हुए सामूहिक उपनयन संस्कार जैसे क्रांतिकारी दिशा में आगे बढ़ चुका है। इसी नवीन परम्परा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मर्षि विकास मंच जमशेदपुर के द्वारा अमल संघ मैदान, सिदरगोड़ा में पंचम सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन पूजा मटकोड़ के साथ शुरू हो गया है। इस वर्ष कुल 17 बरुआ का उपनयन कराया जा रहा है जिसमें कोलकाता, मुजफ्फरपुर से भी बरुआ का उपनयन कराया जा रहा है। पूरे देश में लगातार 5 वर्ष से सिर्फ जमशेदपुर के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। यह एक इतिहास है। रविवार को सभी बरुआ का उपनयन सुबह 9 बजे से कराया जाएगा। कल संध्या 7 बजे से मंचीय

सिदरगोड़ा में ब्रह्मर्षि विकास मंच का सामूहिक उपनयन समारोह



कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बनारस के जगतगुरु दंडी स्वामी अनंतानंद जी महाराज, विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद विद्युत वर्ण महतो, विधायक सरयू राय, प्रसिद्ध चिकित्सक नागेन्द्र सिंह उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन को हुलासमंज से आचार्य रंगेश शर्मा एवं उनके 7 आचार्यों के द्वारा पूरी वैदिक रीति रिवाज से संपन्न कराया जाएगा। शनिवार को स्वस्तिवान,

संकल्प, मृत्तिकाहरण, स्नंन पूजन, प्रधान कलश स्थापना, गौरी गणपति पूजन, सर्वतोभद्र सहित सभी वैदियों का पूजन, सत्यनारायण भगवान का पूजन, हल्दी, गोबर जनेऊ का आयोजन संपन्न किया गया। शनिवार को 7 बजे से रंगेश शर्मा द्वारा संस्कार पर प्रवचन दिया गया।

खाद्य सुरक्षा की टीम ने सुधा डेयरी समेत होटलों चलाया जांच अभियान



गम्हरिया। रांची से आई खाद्य सुरक्षा की टीम द्वारा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आदिति सिंह के नेतृत्व में औद्योगिक क्षेत्र स्थित सुधा डेयरी समेत जिले के विभिन्न होटलों व खटालों में दूध में मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाकर जांच की गई। इस दौरान उन्होंने नमूने संग्रह किया जिसे रांची स्थित प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जाएगा। टीम के सदस्यों द्वारा इस अभियान के क्रम में सरायकेला के जगमोहन दास व राजेश साहू के खटाल एवं दूध के नमूने संग्रह किए गए। उसके पश्चात टीम सुधा डेयरी पहुंची जहां लैब की स्थिति का मुआयना कर उत्पादित दूध के नमूने का संग्रह किया गया। उसके पश्चात टीम द्वारा चाँडिल के चौका स्थित अमल डेयरी के उत्पादित दूध के नमूने का संग्रह भी किया गया।

विश्वकर्मा समाज की क्षेत्रीय ईकाई की बैठक संपन्न



जमशेदपुर। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज की क्षेत्रीय ईकाई टैल्को क्षेत्र की बैठक आज संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्र के अध्यक्ष श्री विनय शर्मा ने की। बैठक में जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के केन्द्रीय अध्यक्ष श्री राम विलास शर्मा जी मुख्य रूप से मौजूद रहे। जाति प्रमाण पत्र हेतु क्षेत्रीय अनुशंसा पत्र केन्द्र को सौंपा गया और यह निर्देश दिया गया की किसी भी समाजिक व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र बनने में अवरोध नहीं हो इसके लिए कमिटी हमेशा तत्पर रहे। साथ ही बैठक में, जगनगणना करने पर भी सहमति बनी और टैल्को क्षेत्र के सभी विश्वकर्मा परिवार का पूर्ण जगनगणना हेतु जगनगणना प्रपत्र केन्द्र क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सौंपा गया। इसके अलावे सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने समाज को एकजुट करने के लिए संगठनात्मक रूप से पहल करने पर जोर दिया गया। बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय सचिव सुनील शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष रमेशकांत शर्मा, उपाध्यक्ष राजन शर्मा, कोषाध्यक्ष ब्रजेश शर्मा, मुख्य संयोजक सुरेश शर्मा, उपाध्यक्ष मुन्ना शर्मा, संगठन मंत्री अरुण शर्मा के अलावे समाज के बहुत सारे सदस्यों ने समाज के विकास हेतु अपने अपने विचार रखे। केन्द्रीय अध्यक्ष राम विलास शर्मा ने भी समाज हित में भी समाज हित में जो कार्यकर्मा जी मौजूद हैं हेतु समर्थानुसार पुरा करने हेतु पुरी कमिटी तत्परता के साथ कार्य में लगे जिससे समाज द्वारा अन्य विकाससुमूह काम होता रहे। विनय शर्मा ने स्वीकृति प्रदान करते हुए अपने जिम्मेदारीयों को सभी के साथ मिलकर करने पर जोर दिए और सभी को धन्यवाद देकर बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

जेल में बंद नेताओं से मिले भाजमो के सुबोध व मंजू



जमशेदपुर। कदमा हिंसा मामले में पीछले दिनों जेल भेजे गए निर्दोष हिंदुवादी नेताओं से भाजमो जमशेदपुर महानगर के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव की अगुवाई में घाघीडीह केंद्रीय कारा जाकर मुलाकात की। इस दौरान भाजमो युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमित शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष मंजू सिंह, विधायक के प्रवक्ता आकाश शाह सहित अन्य उपस्थित थे। भाजमो ने सभी हिंदुवादी नेताओं से उनका कुशलक्षेम जाना और उनके जल्द रिहाई की कामना की। भाजमो जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने कहा की कदमा हिंसा प्रकरण में हिंदू नेताओं को प्रशासन ने बिना किसी जर्म के राजनितिक दबाव में जेल भेज दिया। इस प्रकरण में जेल भेजे गए अधिवक्ता चंदन चौबे सहित विधि नेताओं को न्यायालय से जमानत मिल गई है और भी लोग जो वर्तमान में जेल में है उन्हें भी न्यायालय से जमानत मिलने की उम्मीद है।

बंगाल वलब में भाषा शहीद दिवस मनाया गया



जमशेदपुर। निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन और बंगाल वलब के संयुक्त प्रयास से बंगाल वलब के सभागार में आयोजन किया गया भाषा शहीद को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए। स्वागत संगीत पेश किए अदिति सेनगुप्ता, तपती दाता, दीपा बनर्जी, महारथेता हालदार और कमला चक्रवालर और तबला में नारायण कुशारी स्वागत भाषण निखिल भारत के अध्यक्ष श्रीमती झरना कर और बंगाल वलब के अध्यक्ष श्री तापस मित्र ने दिए। दोनों ने बंगला भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए बोले और इस भाषा के लिए जिन लोगों ने शहीद हुए सभी को हार्दिक श्रद्धांजलि ज्ञापन किए कविता पाठ में सुवर्णा सेनगुप्ता, स्रोता दासगुप्ता, पूरबी चैटर्जी, प्रवीर दे, रुपा राय, सरबरी गुप्ता, सुस्मिता गांगुली अंश गृहण किए एकल संगीत अदिति सेनगुप्ता पेश किए रूओ आमार देशर माटी तौमर पर टैकाय माथायर बंगाल वलब के अर्पिता सेन, शरवती गुप्ता, कोली चौधरी , रत्ना घोष संगीत पेश किए जिसमें तबला वादन में नारायण कुशारी और मंदिरा बनौया जी शिबतोष नाग श्रीमती ज्योत्सना कर शुकल संगीत पेश किए मातृभाषा पर आधारित प्रबंध संचालन किए श्रीमती लोपापुद्रा सिंह रंथ धन्यवाद दाना किए श्री तपन सेन शर्मा श्रुवाली शंभू चौधरी, बंगाल वलब के सुबेटी दीपाश्री नहा, विमल चक्रवर्ती, अशीष गुप्ता, निरसा अरबंद, अमरनाथ मुखर्जी, सोय सेन, अल्पना भट्टाचार्जी, पूरबी घोष, सत्य सिकदार और अन्य उपस्थित थे।

जेसीआई पहचान ने किया शर्वत का वितरण



जमशेदपुर। लौहनगरी में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए सामाजिक संस्था जेसीआई जमशेदपुर पहचान की ओर से शनिवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन रोड संकट सिंह पेट्रोल पंप के पास ट्रैफिक पुलिस, हॉकर, कुली, सड़क किनारे सब्जी बेच रहे दुकानदारों एवं आम राहगीरों के बीच टंडा शरबत, चना और गुड़ का वितरण किया। मौके पर संस्था की अध्यक्ष संगीता काबरा ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए संस्था की ओर से राहगीरों को थोड़ी राहत दिलाने का प्रयास किया गया। मौके पर संगीता काबरा, चांदनी अग्रवाल, मंजू बकरवाल, स्वाति, रिया अग्रवाल आदि मौजूद थीं।

एसडीओ ने जुगसलाई में नाली-नालों की सफाई कार्य का अवलोकन किया



जमशेदपुर। आगामी मानसून को देखते हुए जुगसलाई नगर परिषद अंतर्गत अवस्थित सभी बड़े नाली एवम छोटे नालियों की साफ-सफाई कराई जा रही है। इस क्रम में शनिवार को विंध्यवासिनी मन्दिर एवम बसंत बिहार कालोनी क्षेत्र में बड़े नाली की सफाई कार्य किया गया तथा हरिजन बस्ती तथा स्टेशन रोड में छोटे नाली की सफाई कार्य किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम जमशेदपुर - सह- कार्यालयक पदाधिकारी, जुगसलाई नगर परिषद के द्वारा स्टेशन रोड अवस्थित जीवीपी व्हाइट एवम स्टेशन रोड में चल रहे सफाई कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर परीक्ष्यमान कार्यालयक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक, कर्मचारी अभियंता, सफाई पर्यवेक्षक एवम कार्यालय के अन्य कर्मी उपस्थित थे।

ग्रेन इंटरनेशनल स्कूल में पूल पार्टी के साथ समर कैम्प का समापन

खबर मन्त्र ब्यूरो

जमशेदपुर। पूल में गर्म दिनों में पानी के साथ खेलने से ज्यादा मजेदार कुछ नहीं हो सकता। स्विमिंग पूल आराम करने और गर्मी से बचने के लिए एक बेहतरीन जगह है। छोटे बच्चों में वाटर प्ले गतिविधियां उनके मोटर कौशल को मजबूत करती हैं, संतुलन बनाती हैं और बच्चे की आगे बढ़ने क्षमता और संचालन करने की क्षमता को बढ़ाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ग्रेन इंटरनेशनल स्कूल ने छोटे बच्चों के लिए एक पूल पार्टी का आयोजन किया और बच्चों का उत्साह और जोश इस कार्यक्रम के लिए देखने लायक था। पूल साइड को गुब्बारों और झंडों से सजाया गया था। पार्टी में माहौल जोड़ने के लिए रंगीन छत्रियों के साथ टेबल की व्यवस्था की गई थी। रंग-बिरंगे स्विम सूट पहने नन्हे-मुन्ने



बच्चे आए और ध्यान रखते हुए शिक्षकों ने उनके नन्हे-नन्हें हाथों को पकड़ कर उन्हें पानी में छपाछप करने के लिए अंदर ले गए। थोड़ी देर बाद ही उनके मासूम चेहरे खिलखिला उठे। ताजे फल और ठंडे पूल में पीने के लिए स्फूर्तिजनक पेय का सभी ने आनंद लिया। नन्हें मुन्नों को रंग-बिरंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम में एक-दूसरे पर पानी की बौछार करते देख कार्यक्रम में मौजूद सभी

लोगों का मूड बहुत खुश हो गया। पुष्पा भरला, प्रधानाचार्य (प्रशासन) और रमा श्रीनिवास, प्रधानाचार्य (अकादमिक) ने बच्चों के लिए इस तरह के आनंदपूर्ण और रंगारंग आयोजन के लिए शिक्षकों को बधाई दी। कौया अदक वाइस प्रिंसिपल के साथ सिमरन सगू, हेड मिस्ट्रेस ने इस उज्ज्वल और मजेदार कार्यक्रम के आयोजकों के लिए अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त की।

एनटीटीएफ में नामांकन प्रक्रिया शुरू छात्राओं के लिए 'स्पेशल डिस्काउंट'

खबर मन्त्र ब्यूरो

जमशेदपुर। लौहनगरी के गोलपुरी स्थित एनटीटीएफ आर डी टाटा तकनीकी संस्थान में सत्र 2023-26 के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इस वर्ष नामांकन में छात्रों के लिए संस्थान ने कई नए सुनहरे अवसरों का भी जिज्ञा किया है, जिसमें आईटीआई सह 12वीं साईंस स्ट्रीम से की हुई छात्रों को डाक्टरेट लेटरल एंट्री से द्वितीय वर्ष में नामांकन कराया जाएगा। महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना

कार्यक्रम की विशेषताएं : चारों आयोजित कोर्सज उद्योग केंद्रित कोर्सज है। छात्रावास सहित उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे के साथ पूरे भारत में एनएसडीसीपी और एनओसीएन (14+ केंद्रों से अतिरिक्त प्रमाणन)। पिछले 63 वर्षों में 65000 से अधिक युवाओं ने सफलतापूर्वक स्नातक किया। बी.टेक के लिए अवसर (20+ प्रमुख विश्वविद्यालयों में पारव प्रवेश), अर्का जैन विश्वविद्यालय, झारखंड से समवर्ती बी. वोक डिग्री (केवल कक्षा 12/आईटीआई छात्रों के लिए)। इन सभी कोर्सज में आवेदन हेतु आयु सीमा -24 वर्ष है।

है इसी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए संस्थान ने छात्राओं के लिए नामांकन में 'स्पेशल डिस्काउंट' को लागू किया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठवें वर्ष के कक्षा दसवीं एवम 12वीं और आईटीआई किए हुए छात्रों के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा प्रोग्राम में दाखिला हेतु नामांकन फॉर्म जारी किया। जिसमें आरडी टाटा तकनीकी संस्थान गोलपुरी के विभिन्न कोर्सज में छात्र दाखिला ले सकते हैं। हमारे सभी केंद्रों में कैम्पस चयन के माध्यम से प्लेसमेंट 3-वर्षीय कार्यक्रम जिसमें डिप्लोमा इन टूल एंड डाई इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मेकैट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंयूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक शामिल है।


टाटा और रायपुर के बीच ट्रेनों की देरी से चैम्बर नाराज

खबर मन्त्र ब्यूरो

जमशेदपुर। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने टाटा से रायपुर और उरसे आगे जाती वाली ट्रेनों के अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने में असामान्य रूप से लगातार हो रही विलंब को लेकर भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विन वैष्णव का ध्यानाकृष्ट कराया है। यह जानकारी अध्यक्ष विजय आनंद मूका एवं मानद महासचिव मानव केडिया ने दी। अध्यक्ष एवं महासचिव ने बताया कि लगभग पिछले एक वर्ष से देखा जा रहा है कि हावड़ा से रायपुर के बीच और उरसे आगे जाने वाली

ट्रेजें अपने गंतव्य स्थानों तक असामान्य रूप से लगातार विलंब से पहुंच रही हैं जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हो रही और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र-छात्राओं अपनी पढ़ाई करने या संस्थानों में एडमिशन के सिचुएशन में, युवा नौकरी हेतु इंटरव्यू देने और बीमार यात्रियों को इलाज हेतु अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने की आवश्यकता होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश ट्रेजें की लेटलतीफी से अपने गंतव्य तक पहुंचने में उन्हे देरी हो रही है और वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने से चूक जा रहे हैं जिससे वे निराश और हताश हो रहे हैं।

टाटा स्टील यूआईएसएल ने सर्किट हाउस एरिया में खोला आरआरआर सेंटर



मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैपेन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

खबर मन्त्र ब्यूरो

जमशेदपुर। टाटा स्टील यूआईएसएल ने जमशेदपुर में आरआरआर सेंटर के उद्घाटन के साथ स्वच्छ भारत मिशन शहरी अभियान मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर की दिशा में अपने प्रयासों में एक और उपलब्धि दर्ज की है। केंद्र लाइफ मिशन के अनुरूप स्वच्छता और स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और इसे जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) के सहयोग से खोला गया है। सीएच एरिया में स्थित आरआरआर सेंटर का उद्देश्य शहर के निवासियों के बीच 'रीड्यूस,



आरआरआर सेंटर का उद्घाटन करते कंपनी के एमडी रितुराज सिन्हा, युनियन अध्यक्ष रघुनाथ पांडेय व अन्य।

रीड्यू, रीसायकल' के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना, कार्रवाई को प्रेरित करना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का सामूहिक भावना को प्रोत्साहित करना है। केंद्र ठोस कचरे का प्रबंधन करेगा, और अलगाव की प्रक्रिया के माध्यम से, रिसाइकल योग्य वस्तुओं को अलग किया जाएगा और पुनः उपयोग के लिए संसाधित किया जाएगा। आरआरआर केंद्र के उद्घाटन समारोह में टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक रितु राज सिन्हा और जेएएसयू के अध्यक्ष रघुनाथ पांडेय उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए, रितु राज सिन्हा ने जोर देकर कहा कि

आरआरआर केंद्र एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यवहार परिवर्तन संचार स्कूली बच्चों को भी दिया जाना चाहिए और समुदायों और व्यक्तियों द्वारा निरंतर प्रयास रीड्यूस, रीयूज, रीसायकल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति बनी रहे। इस अवसर पर कैप्टन धनंजय मिश्रा, सीनियर जनरल मैनेजर, टीएसयूआईएसएल, वरुण बजाज, चीफ टाउन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, टाटा स्टील, सीनियर लीडरशिप टीम टाटा स्टील यूआईएसएल उपस्थित थे। पेपरलेस काम की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए एक मोबाइल

ऐप तैयार किया गया है जहां दानदाताओं की तस्वीरों के साथ उनके योगदान के लिए तत्काल ई-प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जायेगा। गौरतलब है कि, नागरिकों के लिए अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 5 मुख्य आरआरआर केंद्र और नागरिकों को अप्रयुक्त वस्तुओं को जमा करने के लिए 24 उपग्रह केंद्र उपलब्ध होंगे, जिन्हें पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए हितधारकों को सौंप दिया जाएगा। केंद्र रोजाना सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे और स्थान की आसानी और स्वयंसेवी संपर्क जानकारी के लिए जियोटैग किए गए हैं जिससे अपने स्थान से समीप केंद्र का पता लगाने में आसानी होगी।



चेन्नई का दिल्ली फतह, 12वीं बार प्लेऑफ में पहुंची सुपरकिंग्स



मैन ऑफ द मैच
रुतुराज गायकवाड

79	रन
50	गेंद
03	चौका
07	छक्का

अंक तालिका

टीम	मैच	जीत	हार	अंक	रन	रेट
गुजरात	13	9	4	18	+0.835	
चेन्नई	14	8	5	17	+0.652	
लखनऊ	14	8	5	17	+0.284	
बेंगलुरु	13	7	6	14	+0.180	
राजस्थान	14	7	7	14	-0.148	
मुंबई	13	7	6	14	-0.128	
कोलकाता	14	6	8	12	-0.239	
पंजाब	14	6	8	12	-0.304	
दिल्ली	14	5	9	8	-0.808	
हैदराबाद	13	4	9	8	-0.558	

पर्फ कप

	मोहमद शमी
गुजरात	विकेट: 23

ऑरेंज कप

	दु प्लेसिस
बेंगलुरु	रन: 702

बास्केटबाल खिलाड़ी किरण पाल सिंह का निधन

नयी दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबाल खिलाड़ी किरण अजीत पाल सिंह (69) का शनिवार को यहां निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार थी। वह अपने पीछे पति और दो पुत्र छोड़ गईं। किरण अजीत पाल सिंह का अंतिम संस्कार कल नयी दिल्ली में किया जायेगा। वह हॉकी विश्व कप-1975 के विजेता भारतीय टीम के कप्तान रहे पद्मश्री और ओलंपियन अजीत पाल की पत्नी थी।

एन्हेलिना कलिनीना ने कुदरेमेतोवा को हराया

रोम। युद्धग्रस्त यूक्रेन की एन्हेलिना कलिनीना ने रूस की वेरोनिका कुदरेमेतोवा को मात देकर इटालियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। कलिनीना ने शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल में कुदरेमेतोवा को 7-5, 5-7, 6-2 से मात दी। पिछले साल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण में कलिनीना का घर नष्ट हो गया था। उनके परिवारों को नोवा कफोफका शहर छोड़कर यूक्रेन की राजधानी कीफ में बसना पड़ा था। कलिनीना ने अपने करियर की सबसे बड़ी जीत के बाद कहा, यूक्रेन जिस दौर से गुजर रहा है, उसके कारण हर मैच जीतना वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैं आशा करती हूँ कि मैं अपने देश के लिए छेटी सी रोशनी, या कुछ सकारात्मक भावनाएं दूँ।

पारुल ने ब्रॉन्ज ट्रैक नाइट स्टीपलचेज स्पर्धा जीती

न्यूयॉर्क। भारतीय धाविका पारुल चौधरी ने शुक्रवार रात यहां विश्व एथलेटिक्स ब्रॉन्ज ट्रैक नाइट में महिलाओं की तीन हजार मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा जीत ली। पारुल ने प्रतियोगिता में पहली बार हिस्सा लेते हुए नौ मिनट 41.88 सेकंड में दौड़ पूरी की। वह हालांकि जुलाई 2022 में लॉस एंजिल्स में बनाया गया 8:57.19 मिनट का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकीं।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बृथ का निधन

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान ब्रायन बृथ का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। मध्य क्रम के बल्लेबाज बृथ ने 1961 और 1966 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 29 टेस्ट खेलकर 42.21 की औसत से 1,773 रन बनाए। उन्होंने 1965-66 में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज श्रृंखला के दौरान दो मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान भी संभाली थी। बृथ से प्रशिक्षण हासिल करने वाले कॉर्टिस पेंटरसन ने कहा, ब्रायन मेरे लिए वास्तव में अच्छे थे। जब से मैं सेंट जॉर्ज में नया आया था तब से। वह एक अद्भुत व्यक्ति थे और वास्तव में मुझे उनसे मदद मिली।

प्रज्ञानंदा की दूसरी जीत, सयुंक्त बढ़त पर पहुंचे

शारजाह। शतरंज इतिहास के सबसे मजबूत ओपन इंटरनेशनल ग्रांड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का दूसरा राउंड 39 मुक़ाबलों में से सिर्फ 10 परिणाम लेकर आया जबकि 29 मुक़ाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए। दूसरे दिन के बाद सिर्फ दो खिलाड़ी भारत के आर प्रज्ञानन्दा और विश्व महिला शतरंज चैंपियन जू वेंजून दो ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2 अंकों और खेल रहे हैं और अगले राउंड में दोनों के बीच मुक़ाबला होगा। प्रज्ञानन्दा और जू के बीच इससे पहले दोनों के बीच 2019 में एक मुक़ाबला हुआ था जिसमें उस समय 13 वर्षीय प्रज्ञानन्दा जीतने में सफल रहे थे। दूसरे राउंड में प्रज्ञानन्दा का मुक़ाबला था हमतवन रौनक साधवानी से सफेद मोहरों से खेलते हुए प्रज्ञानन्दा ने राय लोपेज एक्सचेंज वैरिएशन में रौनक के राजा के ओर के हिस्से में शुरूआत से दबाव बनाया शुरू कर दिया था पर खेल की 15वीं चाल में रौनक अपने घोड़े की कुछ चाले चलते समय उनके राजा पर होने वाले आक्रमण को ठीक तरह से नहीं समझ पाये और उसके बाद उनका खराब ऊट और राजा की खराब स्थिति 37 चालों में उनकी हार का कारण बनी।

सूनोदा ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों में की सफाई

इटली। फामूर्ला 1 इड्रवर युकी सूनोदा इटली में विनाशकारी बाढ़ के बीच राहत कार्यों में लगे हुए हैं, जिसकी जम्कर प्रशंसा हो रही है। इटली में भारी बारिश के बाद कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है और हजारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इस समाह के अंत में एमिलिया रोमग्ना ग्रांड प्रिक्स भी इसी कारण रद्द कर दी गई थी। लेकिन जापानी स्टाेर राहत प्रयासों में अपना योगदान देने से पीछे नहीं हटे। अल्फा टॉरी इड्रवर युकी को क्षेत्र में बाढ़ के कारण फैली गंदगी को साफ करते हुए देखा गया।



स्कोर कार्ड

चेन्नई:223/3 (20 ओवर)

खिलाड़ी	रन	गेंद	4/6
नायकवाड के रुतुराज	79	50	3/7
कॉलवे के. अमल बौ. नॉर्तजे	87	52	11/3
शिवम दुबे के. यादव बौ. खलील	22	09	0/3
एसएस धोनी नाबाद	05	04	0/0
रवींद्र जडेजा नाबाद	20	07	3/1

विकेट पतन: 1-141, 2-195, 3-195.

गेंदबाज : खलील अहमद : 4-0-45-1, ललित यादव : 2-0-32-0, अक्षर पटेल : 3-0-32-0, एनरिक नॉर्तजे : 4-0-43-1, वेंकट सकारिया : 4-0-36-1, कुलदीप यादव : 3-0-34-0.

दिल्ली :146/9 (20 ओवर)

खिलाड़ी	रन	गेंद	4/6
पृथ्वी शं के. रावडू बौ. देशपांडे	05	07	1/0
वीरेंद्र के. नायकवाड बौ. पठिराणा	86	58	7/5
साल्ट के. रक्षण बौ. दीपक वाहर	03	06	0/0
राहुली रूपां बौ. दीपक वाहर	00	01	0/0
यश धूल के. देशपांडे बौ. जडेजा	13	15	1/0
अक्षर के. नायकवाड बौ. वाहर	15	08	1/1
अमल के. नॉर्तजे बौ. पठिराणा	07	09	1/0
ललित के. नॉर्तजे बौ. धोनी	06	12	0/0
एनरिक नॉर्तजे नाबाद	00	01	0/0
कुलदीप एस्वीडल्लू बौ. धोनी	00	01	0/0
वेंकट सकारिया नाबाद	00	02	0/0

अतिरिक्त :11.

विकेट पतन: 1-5, 2-26, 3-26, 4-75, 5-109, 6-131, 7-144, 8-146, 9-146.

गेंदबाज : दीपक वाहर : 4-0-22-3, तुषार देशपांडे : 4-0-26-1, महेश धोनी : 4-1-23-2, रवींद्र जडेजा : 4-0-50-1, मनीषा पठिराणा : 4-0-22-2.



फिफा पोजिशन पर रहेगी चेन्नई

दिल्ली की टीम प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन पिछले मैच में पंजाब किंग्स को हराकर उसका समीकरण बिगाड़ दिया था। मगर ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई। अब चेन्नई सुपरकिंग्स दूसरे स्थान पर रहेगी या नहीं इसका फैसला लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच आज होने वाले दूसरे मैच से होगा। लखनऊ सुपरजायंट्स के भी 15 अंक हैं, लेकिन चेन्नई का नेट रन रेट उससे बेहतर है।

धोनी के नाम से गुंजा स्टेडियम

इस मैच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे फैंस को जीत-हार से ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी से मतलब था। सारे उनकी एक झलक पाने को लालायित दिखे। अटकलों के बाजार में फिलहाल यह बात गरम है कि यह सीजन धोनी का अंतिम आईपीएल सीजन होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम दिल्ली में खेलने आई थी तब कोटला में आधे से ज्यादा दर्शक विराट कोहली के 18 नंबर वाली जर्सी पहने नजर आए। अनुमानतः उस मैच से पहले करीब 15 हजार विराट कोहली की 18 नंबर वाली जर्सी बिकी।

मैच में कब-क्या हुआ?

चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया जो उनके सलामी बल्लेबाजों ने सही साबित कर दिखाया। रुतुराज गायकवाड़ और डेविन कोनवे के बीच पहले विकेट के लिए 87 गेंद में 141 रन की साझेदारी की मदद से चेन्नई सुपरकिंग्स ने तीन विकेट पर 223 रन बनाए। गायकवाड़ 50 गेंद में तीन चौकों और सात छक्कों की मदद से 79 रन बनाकर आउट हुए जबकि कोनवे ने 52 गेंद में 87 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और तीन छक्के शामिल थे। नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने नौ गेंद में 22 रन बनाए। दर्शकों की भारी मांग पर धोनी चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। धोनी ने चार गेंद में नाबाद पांच और रविंद्र जडेजा ने सात गेंद में नाबाद 20 रन बनाए। इस विशाल स्कोर के जवाब में डेविड वार्नर को छोड़कर दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज क्रोज पर टिक नहीं पाया।

कोलकाता को हराकर प्लेऑफ में पहुंची लखनऊ



एजेंसी

कोलकाता। अपने आखिरी लीग मैच को जीतते ही लखनऊ सुपरजायंट्स आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन चुकी है। इसी के साथ मेजबान कोलकाता नाइटराइडर्स टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। इंडन गार्ड्स में टॉस गंवाकर लखनऊ सुपरजायंट्स ने निकोलस पूरन के ताबड़तोड़ अर्धशतक के बूते 175 रन बनाए। जवाब में रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगभग कोलकाता को जिता ही दिया था, लेकिन लक्ष्य से टीम सिर्फ एक रन दूर रह गई। अच्छी शुरुआत के बावजूद नीतीश राणा की कप्तानी वाली टीम मिडिल ओवर्स में विखर गई। आखिरी 5 ओवर्स में 63 रन की दरकार थी। मगर रवि बिशोई ने खतरनाक अंड्रे रसेल (9 गेंद में 7 रन) को क्लीन बोल्ट कर मैच में शिकंजा कस लिया।

प्लेऑफ के लिए सिर्फ एक पोजिशन बची

डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस, चार बार की विजेता चेन्नई सुपरकिंग्स और अब लखनऊ सुपरजायंट्स लगातार दूसरी बार प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब हो चुकी है। चौथे पोजिशन के लिए मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच कड़ी टक्कर है। तीनों टीमों के बीच 14-14 अंक हैं, लेकिन आसरीबी का नेट रनरेट सबसे बेहतर है।

निकोलस पूरन जीत के अखल हीरो

30 गेंद में 58 रन की पारी के साथ छठे विकेट के लिए आयुष बढोनी (25) के साथ 47 गेंद में 74 रन की साझेदारी के दम पर लखनऊ सुपरजायंट्स ने बीच के ओवर्स में लड़खड़ाने के बाद आठ विकेट पर 176 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। पूरन ने अपनी पारी में चार चौके और पांच छक्के लगाए। बढोनी ने 21 गेंद की पारी में दो चौके और एक छक्का लगाया। इससे पहले सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक (27 गेंद में 28) और प्रेरक मांकड़ (20 गेंद में 26 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 41 रन जोड़े थे। केकेआर के लिए वैभव अरोड़ा (चार ओवर में 30 रन), सुनील नारायण (चार ओवर में 28 रन) और शार्दूल ठाकुर (दो ओवर में 27 रन) ने दो-दो विकेट लिए।

पेज 1 का शेप

विपक्ष ने फिर दी एकजुटता ...

वहीं अन्न भाव्य योजना के तहत सभी बीपीएल परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से हर महीने मुफ्त 10 किलो चावल दिया जायेगा। **विपक्षी एका का संदेश :** शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विपक्ष बाजार भर के कांटीरवा स्टेडियम में सबकी निगाहें मंच पर इमालिए खा- बार खा रही थीं कि वहां देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता और विपक्ष शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। वे एक दूसरे से बड़ी गर्मजोशी से मिल रहे थे। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर विजयी मुद्रा में ऊपर उठाया और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। खड़गे, राहुल-प्रियंका के साथ-साथ राजस्थान के लीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, हिमाचल के सुखचिंदर सिंह सुक्खू, झारखंड के हेमंत सोरेन, बिहार के नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के सीएम एच द्रमुक नेता एम के स्टालिन, राकांपा प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, रातोदो अघ्मथ जयंत चौधरी, और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया। वहीं वामदलों की ओर से भाग लेनेवाले प्रमुख नेताओं में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, डी राजा, भाकपा (माले) के प्रमुख दीपाकर भट्टाचार्य भी थे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं हो सकीं। उनकी ओर से लोकसभा में पार्टी की उप नेता काकोली घोष दस्तीदार को भेजा था। **मायावती, एके, बीजद, वाईएसआर को न्यौता नहीं :** शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने इस समारोह में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव और बसपा प्रमुख मायावती को आमंत्रित नहीं किया था। बीजू जना दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को भी आमंत्रित नहीं किया गया। **पीएम मोदी ने दी बधाई दी :** पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता सिद्धरमेया और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। मोदी ने ट्वीट किया, दोनों को बधाई। सार्थक कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं।

16 करोड़ ठगनेवाला...

ताकि लोगों को आसानी से झांसे में लिया जा सके। शेयर मार्केट के नाम पर पैसा लोगों से ऐंठता था, उसे कहीं इनवेस्ट नहीं करता था, बल्कि अपने पास रख लेता था। पैसा जमा करते हुए ज्यादा दिन होने पर जब लोग रिटर्न के लिए उसके ऑफिस पहुंचे तब जाकर उसकी असलियत सामने आती। लोगों ने जब अपने पैसे मांगने शुरू किये तब वह फरार होकर रांची आ गया। **लोगों ने बड़ी रकम तक दी थी :** रेहान के पास छोटी-मोटी रकम जमा करने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन 15 प्रतिशत कमीशन के लालच में कुछ लोगों ने अपने लाखों रुपये उसके पास जमा कर रखे थे। एक बुक्तभोगी मो. शहनवाज ने भी 15 प्रतिशत कमीशन के चक्कर में रेहान के पास 3 लाख रुपये जमा करवा दिये। वहीं जब उन्हें कोई कमीशन कभी नहीं मिला तो अपने पैसे लेने उसके पास गया। पैसे देने के नाम पर उसकी टालमटोल शुरू हो गयी। एक बार तो उसने 3 लाख का चेक भी शहनवाज को दिया, लेकिन वह चेक बाउंस कर गया। पैसे देने वालों के बढ़ते दबाव के कारण रेहान भागकर रांची आ गया। उसने विदेश भागने की भी तैयारी कर ली थी, लेकिन आखिर वह पुलिस के हथके चढ़ गया। **पुलिस के सामने रेहान ने किये कई खुलासे :** रेहान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे रेहान ने किया है। रेहान ने ठगी करने के लिए दफ्तर खोल रखा था। पैसों का कलेक्शन करने के लिए उसने स्टाफ भी रखे थे। इन स्टाफ को वह वेतन भी दिया करता था। ग्राहकों से पैसा कलेक्ट कर स्टाफ उसे रेहान के पास जमा करते थे। यानी पूरी योजना बनाकर रेहान फ्राँड करता था।

अगली शिखर बैटक...

उन्होंने कहा कि क्वाड शिखर वार्ता हिंद प्रशांत क्षेत्र में समावेशी और मानवकेन्द्रित विकास के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का अवसर है। शिखर वार्ता में क्वाड देशों ने सीमा पर से आतंकवाद और मुंबई आतंकी हमले की निंदा की। उल्लेखनीय है कि क्वाड शिखर वार्ता सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में आयोजित होनी थी, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यक्रम में परिवर्तन होने के कारण इसे टाल दिया गया था। बाद में क्वाड नेताओं ने हिरोशिमा में अपनी मौजूदगी का उपयोग करते हुए वहीं पर आयोजित करने का फैसला किया। पीएम मोदी की हिरोशिमा में विभिन्न देशों के नेताओं के साथ मुलाकात और बैठकों के संबंध में विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने मीडिया को बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादमीर जेलेन्स्की ने मोदी को यूक्रेन यात्रा के लिए न्यौता दिया। दोनों नेताओं ने हिरोशिमा में मुलाकात की थी, जिसमें मोदी ने वार्ता और कूटनीति के जरिये समस्या के समाधान पर जोर दिया था। मोदी ने समस्या के समाधान के लिए अपनी ओर से हससंभव सहयोग की पेशकश की।

ओजस और ज्योति ने लगातार दूसरा गोल्ड मैडल जीता, कोरिया की मजबूत टीम को हराया



शंघाई। ओजस देवताले और ज्योति सुरेखा ने अपना करिश्माई प्रदर्शन जारी रखते हुए शनिवार को कोरिया की मजबूत टीम को हराकर तीरंदाजी विश्वकप में लगातार अपना दूसरा गोल्ड मैडल जीता। भारत कि इस दौड़ ने विश्व कप के पहले चरण में भी गोल्ड मैडल जीता था। उन्होंने दूसरे चरण में भी अपना शानदार प्रदर्शन दिखाकर और कोरिया की टॉप जोड़ी को 156-155 से पराजित किया। भारतीय जोड़ी और किम जोंघो और ओह योंबुन की टॉप कोरियाई जोड़ी ने पहले तीन चरण में समान 39 अंक बनाए। चौथे और अंतिम चरण में हालांकि कोरियाई टीम दबाव में आ गई और वह 38 अंक ही बना पाई जबकि भारतीय जोड़ी ने फिर से 39 अंक बनाकर लगातार दूसरा गोल्ड मैडल अपने नाम किया। ज्योति यहां व्यक्तिगत वर्ग में शुरू में ही बाहर हो गई थी लेकिन इससे पहले उन्होंने अंताल्या में व्यक्तिगत वर्ग का भी स्वर्ण पदक जीता था। इस तरह से 2023 में विश्वकप में अभी तक वह तीन स्वर्ण पदक जीत चुकी है। अब उनकी निगाह बर्लिन में होने वाली विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करने पर टिकी हैं। **ज्योति ने जीतने के बाद कहा:** पूरे विश्व कप के दौरान हमारा तालमेल और निशाने साधने की प्रक्रिया शानदार रही। फाइनल में भी हमने सही निशाने लगाए पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा, विश्व चैंपियनशिप हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है तथा यहां स्वर्ण पदक जीतकर हमारा मनोबल बढ़ा है। हम अपनी इस लय को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे।

हॉकी : भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 2-3 से हारी

एजेंसी

एडिलेड। ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट में शनिवार को यहां भारतीय महिला हॉकी टीम को 3-2 से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने श्रृंखला के पहले मैच की तुलना इस मैच में बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन जीत दर्ज करने में नाकाम रही। भारत के लिए संगीता कुमारी (13वें) और गुरजीत कौर (17वें) ने गोल किए। ऑस्ट्रेलिया के लिए टाटम स्टीवर्ट (12वें और 45वें मिनट) ने दो गोल किये जबकि पिष्पा मॉर्गन (38वें) ने भी एक गोल किया। विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर काबिज ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला के पहले मैच को गुस्कार को 4-2 से जीता था। श्रृंखला का तीसरा मैच रविवार को खेला जायेगा। चीन में इस साल होने वाले एशियाई खेलों की तैयारियों के लिए इस दौर पर आर्यी



भारतीय टीम टेस्ट श्रृंखला के बाद ऑस्ट्रेलिया ए' के खिलाफ भी दो मैच खेलेगी। श्रृंखला के शुरूआती मैच के विपरीत भारतीय टीम ने काफी बेहतर और प्रभावशाली प्रदर्शन किया। टीम ने एकजुटता से हर विभाग में अच्छा खेल दिखाया। टीम ने शुरूआती दो क्वार्टर में आक्रामक खेल का सहाय

लिया जिससे उसे गोल करने का मौका मिला। भारत को आठवें मिनट में पहला पेनल्टी कानर मिला लेकिन गुरजीत की जोरदार प्लेक और ऑस्ट्रेलिया की कप्तान और गोलकीपर जॉकलिन वाट्टॉम ने बचा लिया। स्टीवर्ट ने हालांकि 12वें मिनट में पेनल्टी कानर को गोल में बदल

कर ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिला दी। भारत ने हालांकि जल्द ही इस गोल का जवाब दे दिया। सलीमा टेटे ने मिडफील्ड से शुरूआत कर सकल के अंदर शर्मिला देवी को गेंद पास की, जिसके पास को संगीता ने गोल में बदल दिया। संगीता का श्रृंखला का वहा दूसरा गोल था। भारत दूसरे क्वार्टर में भी इसी तरह से खेल जारी रखा। ऑस्ट्रेलिया को भारतीय रक्षापीक को भेदने के लिए काफी जोर लगाना पड़ा। भारत ने दूसरे क्वार्टर के दूसरे मिनट में ही बढ़त बना ली जब गुरजीत ने पेनल्टी को गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की। टीम के बाद 22वें मिनट में बढ़त को और मजबूत करने का मौका था लेकिन लालरेमसियामी की रिवर्स हिट को कोशिश बाइड हो गई। हाफ टाइम से एक मिनट पहले, भारतीय टीम एक और सेट पीस' को गोल में नहीं बदल सकी।



जापान में बाइडेन से गले मिले मोदी



हिरॉशिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापानी शहर हिरॉशिमा में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक दूसरे का अभिवादन किया और आपस में गले मिले। दोनों नेताओं के बीच संक्षिप्त चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी का अगले महीने अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने का कार्यक्रम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जायेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के लिए 22 जून को राजकीय भोज का आयोजन किया जायेगा जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2021 में क्वाड समूह के नेताओं की बैठक में हिस्सा लेने वाशिंगटन गए थे। उस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई थी।

गैंगस्टर बिश्नोई का सहयोगी गिरफ्तार नयी दिल्ली। एनआईए ने शनिवार को कहा कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक सहयोगी को आपराधिक गिराहों के सदस्यों द्वारा साजिश रचे जाने से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। देश-विदेश में स्थित इन गिराहों ने दिल्ली और अन्य स्थानों पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने तथा युवाओं की भर्ती के लिए यह साजिश रची थी। एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी का नाम युद्धवीर सिंह उर्फ साधु है और वह हरियाणा के फतेहाबाद इलाके का निवासी है। प्रवक्ता ने बताया कि युद्धवीर इस मामले में वांछित था।

हेमकुंड साहिब सिक्ख श्रद्धालुओं के लिए खुला ओपेनशर। उत्तराखंड के चमोली जिले में सिखों के पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुखमनी साहिब जी की अरदास और पाठ के बाद फूलों की वर्षा के बीच प्रसिद्ध गुरुद्वारे के खुलने के समय 2,000 से अधिक श्रद्धालु उपस्थित थे। यह गुरुद्वारा सदियों के दौरान बंद रहता है, क्योंकि यह वर्ष से ढक जाता है। शनिवार को भी इसके आसपास काफी बर्फ थी। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे ने मत्था टेकने के लिए शनिवार सुबह गोविंदघाट से हेमकुंड के लिए पैदल यात्रा की।

अस्पताल जा रही महिला की हत्या

फिरोजाबाद। शहर के तिलक नगर इलाके में शनिवार सुबह अस्पताल जा रही एक महिला को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला के परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कार में इलियाना ने किया बेबी बॉप आउट प्लॉन्ट

मुंबई। मां बनने जा रही एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह गाड़ी में बैठी नजर आ रही हैं और बेबी बॉप प्लॉन्ट कर रही हैं। इलियाना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्लिप शेयर की। इस क्लिप में उन्होंने ब्लैक और वाइट ड्रेस पहनी हुई है और वह कार में बैठी हैं। उन्होंने कैप्शन में इसे सन आउट, बम्प आउट कहा। पिछले महीने, एक्ट्रेस घोषणा की कि वह प्रेग्नेंट है। उन्होंने किड टीशर्ट, जिसपर एंड सो द एडवेंचर बिगिन्स लिखा था और ममा का पेंडेंट की फोटो शेयर की थी। पहली खबर आई थी कि इलियाना कैटरिना कैफ के भाई सेवेस्टियन लॉरेंट मिशेल को डेट कर रही हैं। हालांकि, उनमें से किसी ने भी रिश्तों की पुष्टि नहीं की। हालांकि, इलियाना ने अभी भी बच्चे के पिता के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है।



रूसी हमले के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेन्स्की से मिले मोदी, कहा युद्ध रोकने का हर कोशिश करेंगे

एजेंसी

हिरॉशिमा। यूक्रेन पर रूस द्वारा 15 महीने पहले हमला शुरू किये जाने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की के साथ शनिवार को आमने-सामने की वार्ता की और उन्हें बताया कि संघर्ष का समाधान तलाशने के लिए भारत हर संभव प्रयास करेगा। हिरॉशिमा में जी-7 समूह के शिखर सम्मेलन से इतर हुई बैठक में, प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और समूचे विश्व पर इसके कई अलग-अलग प्रभाव पड़े हैं। मोदी ने वार्ता के दौरान कहा कि मैं आपको आश्चर्य करना चाहता हूँ कि भारत और मैं, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, इस संघर्ष का समाधान तलाशने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। प्रधानमंत्री ने यूक्रेनी नेता से कहा कि वह संघर्ष को एक राजनीतिक या आर्थिक मुद्दे के रूप

► जेलेन्स्की ने भारत को अपने शांति सूत्र की दी जानकारी

में नहीं देखते हैं और उनके लिए यह मानवता का मुद्दा है। जेलेन्स्की ने भारतीय पक्ष को अपने शांति सूत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी और भारत से इसके कार्यान्वयन में शामिल होने का आग्रह किया। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने यूक्रेन के नेता को समाधान निकालने के लिए बातचीत और कूटनीति के वास्ते भारत के स्पष्ट समर्थन से अवगत कराया और कहा कि भारत यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। रूस-यूक्रेन युद्ध पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ था। मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ-साथ जेलेन्स्की से फोन पर कई बार बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि संघर्ष को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। मोदी ने कहा कि पिछले डेढ़ साल के



दौरान फोन पर बातचीत हुई है, लेकिन, बहुत दिनों बाद मिलने का मौका मिला। यूक्रेन संकट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरी दुनिया पर इसके कई अलग-अलग प्रभाव पड़े हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं इसे राजनीतिक या आर्थिक मुद्दे के रूप में नहीं देखता, मेरे लिए यह

मानवता का मुद्दा है। मोदी ने कहा कि युद्ध की पीड़ा क्या होती है, यह हम सब से ज्यादा आप जानते हैं। जब हमारे छात्र पिछले साल यूक्रेन से वापस आये, तब उन्होंने हालात के बारे में विस्तृत रूप से जो कुछ बताया, उससे मैं आपके और यूक्रेनी नागरिकों के दर्द को समझ सका।

कर्नाटक में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे: राहुल

एजेंसी

बेंगलुरु। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के लिए प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए शनिवार को कहा कि दक्षिण भारत के इस राज्य ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की लाखों दुकानें खोल दी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और आठ मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद जनता से साफ-सुथरी और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन देने का वादा किया। राहुल गांधी का यह भी कहना था कि कैबिनेट की पहली बैठक में कांग्रेस की ओर से दी गई पांचों गारंटी कानून का रूप ले लेंगी। उन्होंने स्थानीय श्री कांतीरवा स्टेडियम में लोगों को संबोधित किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक की जनता का धन्यवाद करता हूँ। आपने पूरी तरह से समर्थन दिया। पिछले पांच वर्षों में आपने कौन-कौन सी मुश्किलें सही हैं, हम और आप जानते हैं... इस जीत का सिर्फ एक कारण है कि कांग्रेस कर्नाटक के गरीबों, दलितों, आदिवासियों,

नफरत के बाजार में मोहब्बत की लाखों दुकानें खुली



पिछड़ों के साथ खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने भाजपा की सारी ताकत को परास्त कर दिया, उनके भ्रष्टाचार और नफरत को हरा दिया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के अपने संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि नफरत के बाजार में कर्नाटक ने मोहब्बत की लाखों दुकानें खोली हैं। उन्होंने कांग्रेस की ओर से दी गई पांच गारंटी का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने कहा था कि हम झूठे वादे नहीं

करते, जो कहते हैं वह हम कर दिखाते हैं। एक दो घंटे में सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी। ये वादे कानून बन जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपको साफ-सुथरी और भ्रष्टाचार-मुक्त सरकार देंगे... यह कर्नाटक की जनता की सरकार है और यह दिल से आपके लिए काम करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं।

सीएम पटनायक के पास 65.40 करोड़ की संपत्ति

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पास 65.40 करोड़ रुपये की संपत्ति है तथा दिसंबर 2022 तक उन पर कोई देनदारी नहीं थी। इसके अलावा, राज्य के 14 मंत्री भी करोड़पति हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर शुक्रवार को अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 में मुख्यमंत्री की संपत्ति 43 लाख रुपये से बढ़कर 64.97 करोड़ रुपये हो गयी। ओडिशा में सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी एक आधिकारिक पोर्टल पर दी है। वेबसाइट के अनुसार, पटनायक की चल संपत्ति 2021-22 में बढ़ी है जबकि अचल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पटनायक के पास 12.52 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है

ओडिशा में सीएम समेत सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी एक पोर्टल पर दी

जिसमें दिल्ली, भुवनेश्वर, हिंजिलीकट और बारगढ़ में बैंक खातों के साथ आभूषण और चार पहिया एक गाड़ी भी शामिल है। रबीआई बॉन्ड और डाकघर में 1.50 करोड़ रुपये की जमा राशि है। राज्य के अन्य करोड़पति मंत्रियों में अशोक चंद्र पांडा, प्रीति रंजन घड़ेई, रणेंद्र प्रताप स्वैन, प्रमिला मलिक, निरंजन पुजारी, उषा देवी, अतनु सव्यसाची नायक, राजेंद्र ढोलकिया, तुकुनी साहू, प्रदीप कुमार अमात, पीके देब, बसंती हेबराम, रोहित पुजारी और अश्विनी पात्रा शामिल हैं।

बिना ऑपरेशन किये 100% गारंटी के साथ
9155997766
बवारसीर
हाइड्रोसील, भगन्दर
माँ क्लिनिक
डॉ० डी० बी० बैरागी
रातु रोड, रामबिलास पेट्रोल पम्प के सामने, रांची
फोन - 9470997766, 9155997766
रोज खुला रहता है सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक
बीमारी ठीक नहीं होने पे पूरा पैसा वापस

बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण पुस्तकों प्रकाशित
Jharkhand Board Today CLASS - X 2023
निकटतम पुस्तक विक्रेता से अपनी प्रतियों सीप्रा प्राप्त कर लें।
मिलते-मुलते गामवाली जकली पुस्तकों से सावधान !
VERMA PRESS PVT. LTD.
4, P. G. STREET, TIARPAKINA, RANCHI (JHARKHAND) - 831 001
Phone : (0651) 2912415, 2917497, 4311102920, 4311171445
Visit us at www.vermapress.com, Email: vermapress@gmail.com

लैकों व गुटेरेस से मिले प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान बैस्टिल दिवस के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आगामी फ्रांस यात्रा पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में प्रगति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मिले। भारतीय प्रधानमंत्री ट्वीट कर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ हुई अपनी बातचीत को शानदार करार दिया।

लैकों व गुटेरेस से मिले प्रधानमंत्री

जर्मनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोलज के साथ बैठक की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय घटनाक्रम एवं वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के ट्वीट में जानकारी दी गयी कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का सकारात्मक मूल्यांकन एवं समीक्षा की। साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों एवं वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

जेलेन्स्की ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करने और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत को धन्यवाद देता हूँ। पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन

बंगाल : स्कूल भर्ती घोटाला

सीबीआई ने की अभिषेक बनर्जी से 6 घंटे तक पूछताछ

कोलकाता। सीबीआई के अधिकारियों ने स्कूल भर्ती घोटाले में शनिवार को टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। बनर्जी ने यहां निजाम पैलेस में सीबीआई कार्यालय पहुंचने से पहले, एजेंसी को एक पत्र लिखकर उच्च न्यायालय के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के अपने फैसले की जानकारी दी, जिसमें अदालत ने जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी को उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी है। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई अधिकारियों ने टीएमसी नेता से सवाल किया कि स्कूल भर्ती घोटाले के एक आरोपी कुंतल घोष ने क्यों आरोप लगाया है कि उन पर उनका नाम लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्हें घोष के बयान के पीछे के कारणों की कोई जानकारी नहीं है। टीएमसी नेता बनर्जी का नाम घोटाले में एक आरोपी कुंतल घोष द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत में सामने आया था।

पटना समेत 6 एम्स में होगा कैसलेस इलाज

नयी दिल्ली। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के सभी लाभार्थियों के लिए भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश स्थित सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में नकदीरहित (कैसलेस) इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने सीजीएचएस के तहत कैसलेस इलाज प्रदान करने के लिए इन्हें एम्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश में छह पूरी तरह कार्यात्मक एम्स में उपलब्ध रोगी देखभाल सुविधाओं को नकदीरहित आधार पर सीजीएचएस लाभार्थियों तक बढ़ाया जाएगा। यह विशेष रूप से सीजीएचएस के सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के लिए फायदेमंद होगा, जिन्हें व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति

► सीजीएचएस के सेवानिवृत्त पेंशनभोगी को मिलेगा लाभ

दावों को पेश करने और अनुमोदनों का पालन करने में मुश्किल होती है। सीजीएचएस लाभार्थियों को पहले भुगतान करने और फिर सीजीएचएस से प्रतिपूर्ति मांगने की परेशानी के बिना इन एम्स में उपलब्ध अत्याधुनिक उपचार सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस पहल से समय की बचत होगी, कागजी कार्रवाई कम होगी और व्यक्तिगत दावे भी कम होंगे। अभी तक एम्स में उपचार करा रहे सीजीएचएस पेंशनभोगी लाभार्थियों को पहले भुगतान करना होता है और बाद में सीजीएचएस से प्रतिपूर्ति का दावा करना होता है। सीजीएचएस लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाने के लिए सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में भेजा जाता है। सीजीएचएस पेंशनभोगी और सीजीएचएस लाभार्थियों की अन्य हकदार श्रेणियां सूचीबद्ध अस्पतालों में कैसलेस सुविधाओं के लिए पात्र हैं।

नेन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मास्तः ॥
श्रीलेदर्स नमन करता है अपने संस्थापक को उनकी 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर
स्वपनदरष्टा • योद्धा • प्रेरणास्त्रोत
21.04.1911 - 21.05.1990
परिश्रम जिसका कर्तव्य था।
परमार्थ जिसकी मति थी।
कर्म हमोया ऐसे किए की सबके दिलो में गूँजते रहे।
आपका प्रेममय स्वभाव हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा ॥
श्रीलेदर्स परिवार
Sreeleathers